

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली



क्रम संख्या

काल नं०

खण्ड

भाषार्थ—वह घोर कलियुग आवेगा जिसमें भ्राता भगिनियों-के साथ पापकर्म भोग करेंगे सो हे यमी भगनि मुझसे अतिरिक्त अन्य जातिका बलिष्ठ पुरुषसे विवाहपूर्वक भोगकी इच्छा कर ॥ भावार्थ वेद मन्त्रका यह है कि, यमयमीका संवाद है उसमें यम भ्राता अपनेसे यमी भगिनी भोग करनेकी इच्छा रखती थी तब यमने यह वाक्य कहा कि, मैं तुम्हारा भाई हूं सो बडा पाप है तुम अन्य जातिके वरकी इच्छा कर सो यह मन्त्र तो भ्राताने भगिनी प्रति कहा है । नहीं पति स्त्रीको कहता है कि, तुम मेरे विना और पति करलो क्या वह नपुंसक वा वृद्ध हो आज्ञा करता छः ॥

आर्य० क्योंजी हमारेको स्वामीजीने और आज्ञा दीहै कि, स्त्री ग्यारह ११ पति कर ले ॥ वह मन्त्र यह है ॥ ऋग्वेद मंडल १० सूत्र ८५ ॥ मन्त्र ॥

इमांत्वमिन्द्रमीङ्क्षुःसपुत्रांसुभगांकृणु ।

दशास्यांपुत्रानाधेहिपतिमेकादशंकृधि ॥

सो इसका अर्थ क्या है ॥ वाह जी वाह अरे भोले आर्य भ्राता तुम कुछ व्याकरण पढो तुमको अर्थके नमालूम होनेसे वह अन्धकार है ॥ अर्थ श्रवण करो ॥

अन्वयः ॥ हे इन्द्र इमांत्वमिङ्क्षुःसपुत्रांसुभगांकृणु । अ

स्यां दशापुत्रान् आधेहि पुत्रैःसहितम् एकादशं पतिं कृधि ॥

भावार्थ—हे इन्द्र इसको तुम स्तुतियुक्त पुत्रयुक्त पतियुक्त करो और इससे दशपुत्र उत्पन्नहो दशपुत्रोंके साथ ग्यारहवाँ पतिभी

॥ श्रीः ॥

त्रैवर्णिकानां—

नवरत्नविवाहपद्धतिः ।

वीरगजधानीकपूर्वस्थलनिवासिगौतमगोत्र (शोभि)

अग्रयालंबृत—श्रीदेवशुनिचन्द्रात्मज

श्रीयुतपंडित-विष्णुदत्त-वैदिककृष्ण

नवरत्नप्रकाशिका

भाषाटीकासहिता ।

सेयं

खेमराज श्रीकृष्णदासश्रेष्ठिना

मुम्बय्यां

स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्-पत्रालये

मुद्रयित्वा प्रकाशिता ।

चतुर्थ-संस्करणम् ।

वशाखे संवत् १९६४, शके १८२९.

पुनर्मुद्रणादि सर्वाधिकार “श्रीवेङ्कटेश्वर” पत्रालयाधीशने
स्वाधीन रक्खा है.

(२६२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

वृद्धिको प्राप्त हो अर्थात् इसके पुत्र १० और पतिजीवे तो यह पुत्रान् बहुवचन और पति एक वचन है ॥ सो विशेष सायणभाष्यसे मालूम करो ॥ और “नष्टे मृते प्रव्रजिते” इस स्मृतिका अर्थ स्त्रियोंके आचारमें लिखा है वहांसे देख लो ॥ और विवाहप्रकरणमें भी विशेष लिखा है । विस्तारके भयसे नहीं लिखा ॥ इति श्रीदैवज्ञदुनिचन्द्रात्मज पं० विष्णुदत्तवैदिककृतसंक्षेपविधवाविवाहखण्डनम् ॥

अथ वधूपवेशप्रयोगः ।

तत्र चतुर्थीकस्मानन्तरं पुत्रोत्साहविधानादिलौकिका चारं यथासंप्रदायं कृत्वावरः पित्रादन्तांवधुंगृहीत्वामहोत्सवयुतः रथेवध्वाः दक्षिणत उपविश्य मंगलवाद्यघोषपुरःसरं मंगलगीतपरैः पुरंधीजनैराचार्यादिविप्रैः आनोभद्राः स्वस्तिन इन्द्रोवृद्धश्रवा इतिस्वस्तिवाचनपुरःसरैश्चस्वगृहंगच्छेत् । ततोवधूपिता दासीं हस्ते दीपंदत्त्वा सहैव नयेत् ॥ पर्यंकादि यथाशक्ति यथारुचि पारिवर्हच दद्यात् ॥ स्वगृहमागतेसपत्नीकेवरे वरमाता ओदनबलिगृहीत्वादृष्ट्युत्तारणं कुर्यात् । गृहद्वारसमीपेप्रथमतंडुलपूर्णां कंचुकीं वधूहस्ते दद्यात् ॥ सा तांगृहीत्वातत्रसततं तण्डुलानवकिरंतीदीपद्वययुक्तद्वारमंततोऽनेकदीपैर्विराजितगृहं वधूः पादौसुवर्णोपरिनिधाय वरेण सह प्रथमं दक्षिणपादपुरःसरंमंत्रवाद्यघोषैर्गृहंप्रविशेत् ॥ ततः शृंगारिते महानसे वस्त्राच्छादिते पीठे वरः प्राङ्मुख उपविश्य दक्षिणतः वधूमुपवेश्य इत्यखिलंलोकाचारमात्रम् ॥ ततोवरः आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ स्मृत्वा अस्याः मम नवोढाया भार्यायाः

प्रथमागमने गृहप्रवेशांगतया विहितं मम सकलमनोरथसिद्धयर्थं
लक्ष्मीप्राप्त्यर्थं ज्येष्ठाख्यलक्ष्मीपूजनमहं करिष्ये ॥ महानसपूजनं
गणपतिपूजनं स्वस्तिपुण्याहवाचनंच करिष्ये ॥ इतिसंकल्प्य ॥
ततो ज्येष्ठाख्यलक्ष्मीपूजनं महानसपूजनं गणपतिपूजनं स्वस्तिपुण्या
हवाचनंच विधिवत्कृत्वा ततः यथाचारप्राप्तं कांस्यपात्रे तण्डुलान्प्र
सार्य तदुपरि सुवर्णशलाकया श्रीकुलदेवताप्रयुक्तमादौ अमुकीति
नाम विलिख्य ॥ (ॐ मनोजृतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं
नोत्वरिष्टं यज्ञ २ समिमं दधातु । विश्वेदेवास इहमादयंतामो प्रतिष्ठ ॥)
इति मंत्रेण प्रतिष्ठाप्य ॥ ॐ श्रीश्वंते लक्ष्मीश्वपत्न्यावहोरात्रे
पार्श्वेनक्षत्राणि रूपमश्विनौव्यात्तम् ॥ इष्णन्निषाणामुम्मऽइषाण
सर्वलोकंमऽइषाण ॥ इत्यनेन मंत्रेण षोडशोपचारैः संपूज्य ॥ अ
न्यद्यथाकुलाचारं कुर्यात् ॥ ततो वरं नामवाचनपुरःसरं वध्वा
नाम प्रतिष्ठितं कुर्यात् ॥ श्रीकुलदेवताप्रयुक्तमादौ अमुकनाम प्रति
ष्ठितमिति त्रिर्वाचयित्वा ब्राह्मणाः मनोजृतिरिति मंत्रंपठित्वा वधू
शिरसि मंत्राक्षतान्दद्युः । ब्राह्मणेभ्योगंधतांबूलदक्षिणादिदत्त्वा
तैराशिषोगृह्णीयात् इति वधूप्रवेशः ॥ श्रीहरिर्विजयते ॥

वंशवर्णनम् ।

न्यायशास्त्रस्यकर्तायोह्यक्षपाद्गौतमोमुनिः ॥

महाप्रभावोराजर्षिर्मुनिमान्यअभूदिह ॥ १ ॥

तस्यरत्नविशुद्धेस्मिन्वंशेस्यादानुपूर्व्यतः ॥

महाप्रभावोविद्वांश्वकनैयालालविश्रुतः ॥ २ ॥

विज्ञापना ।

विदित हो कि, हमारे आर्यावर्त भारतखण्डमें अतिचिरसे वर्धित अधर्मरूप यवनराज्यके प्रताप (सन्ताप) से नित्यआनंदरूप शीतलस्वभावसंपन्न सगुणनिर्गुणात्मक पूर्वोत्तर तट युक्त और वेद ४ पुराण १८ न्याय २ मीमांसा २ धर्मशास्त्र १८ शिक्षा १ कल्प २ व्याकरण ८ निरुक्त १ छन्द ३ ज्योतिष ६ काव्य २ नाटक १० चंपू १ आख्यायिका इतिहास कोश ५६ अलंकार नीति मन्त्र २ तन्त्रचिकित्सा ८ गणित २ वेदांत सांख्य योग कर्मकाण्डादिकरूप विकसित जो अनेक कमल उनपर लोभायमान भुंगरूप विद्रुवृंद और आनंदमग्न कविरूप हंस चक्रवाक पारावत कौंचादिकोंमें शोभायमान वेदविद्यारूप नदीके किञ्चिन् शुष्कप्राय होनेपर तदनन्तरही सर्वान्तर्यामी कृपालु परमेश्वरकी कृपादृष्टि और अखण्डप्रताप श्रीमतीमहाराजराजेश्वरी श्रीविक्टोरियाजीके राज्यप्रतापरूप अरुणोदय होनेपर और धर्मरूप चारों तरफ वृष्टिके होनेसे वही सनातन वेदविद्यारूप नदी अगाध होकर बहने लगी उसकी अशुद्धिरूप मलनिवृत्ति करनेके लिये हमारे भ्रातृगण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि तनमनधनसे अति उद्यत होनेपर बौद्ध चार्वाक जैन अनार्यादि नूतनमलके निवृत्त होनेसे वही हंसादिरूप विद्वान् निर्मलजलपान करते हैं तथापि विना कपाय पदार्थ हरीतक्यादि भक्षण विना जैसे जलका मधुरगुण (मिठास) मालूम नहीं होता तद्वत् विना अर्थ विनियोगके वेदविद्याका फलरूप गुण मात्रम नहीं होता इसमें श्रुति प्रमाण भी है यथा (स्थाणुरयं भारद्वाजः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योर्थम् । योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविभूतपाप्मा) इसलिये सर्वापकारके लिये विवाहपद्धतिका मैंने वेदभाष्य सायन उब्व-टमहीधरादि देख और श्रीनिवाहुरामकृतसंस्कृतटीका तथा ब्राह्मणसर्वस्व हरिहरभाष्यआदि ग्रन्थोंका सार ले तथा अनेक विवाहपद्धति ग्रहसूत्रमें मिलाय पाठ शुद्ध करा है और जो मन्त्र पद्धतियोंमें अप्रचारसे अशुद्ध थे वह यजुर्वेदादि संहिताओंसे मिलाय शुद्ध करे साथ वेदका प्रमाण अध्याय मंत्रांक भी लिखे हैं और मंत्रोंको ऋषिछन्द देवतादिसे सुशोभित कर कर्तव्यतामंत्रार्थ गूढार्थ भावार्थयुक्त नवप्रकरणसंयुक्त भाषामें टीका बनाय सर्वाधिकार समेत खेमराज श्रीकृष्णदास “श्रीवंकटेश्वर” यन्त्रालयाधिपतिके समर्पणकी है, इसलिये सज्जन पुरुष इस पुस्तकको स्वीकार कर मेरे परिश्रमको सफल करें और इस पुस्तकमें जो धर कथ्याके प्रति उपदेश आचार दोष गुण कहे हैं वह उपदेश करें ऐसे करनेसे लोक परलोकमें यश और धर्मकी प्राप्ति होगी ॥ इस परिश्रमसे सर्वान्तर्यामी परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्नहों ।

राजधानी कर्पूरस्थलनिवासी—

गौतमगोत्र (शोरि) अन्वयालंकृत देवज्ञ दुनिचन्द्रात्मज

पण्डित—विष्णुदत्तशर्मा वैदिक.

(२६४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

तत्पुत्रोयंविशुद्धात्मातुलसीरामनामतः ॥
अभूव्यापारविद्यायांकुशलोधर्मपारगः ॥ ३ ॥
त्रिवर्गसाधयित्वायोगंगांसमनुगम्यच ॥
ध्यानयोगेनसंपश्यन्नीश्वरंव्यसृजत्तनूम् ॥ ४ ॥
तत्प्रभावाच्चतत्सूनुःसर्वशास्त्रविचक्षणः ॥
अनन्यकल्पोदैवेज्ञोदुनिचंद्रइतिश्रुतः ॥ ५ ॥
तस्यात्मजेनविदुषाविष्णुदत्तेनशौरिणा ॥
वैदिकोपाह्वयुक्तेनकृतोयंग्रंथउत्तमः ॥ ६ ॥
नत्वाश्रीरामनाथंचशास्त्रिणंस्वगुरुंतथा ॥
श्रीमद्गोपालनामानमयोध्यावासिनंगुरुम् ॥ ७ ॥
हारिभक्तंमहात्मानंशास्त्रिणंप्रणमाम्यहम् ॥
यमुनादत्तविद्वांसंभायलाग्रामवासिनम् ॥ ८ ॥
मित्रंचसाधुरामञ्चविष्णुदासंतथैवच ॥
अन्यान्स्वाध्यायवर्गीयान्नमस्कृत्यपुनःपुनः ॥ ९ ॥
श्रीकपूरस्थलेरम्येअद्रिवेदांकभूमिते ॥
वैक्रमेमधुमासेचकृताटीकामनोरमा ॥ १० ॥
यदशुद्धमसंबद्धमज्ञानेनकृतंमया ॥
विद्वद्भिःक्षम्यतांसर्वमत्वामामल्पमेधसम् ॥ ११ ॥
विशेषेणायंपुष्पाञ्जलिः ॥ श्रीः ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—
खेमराज श्रीकृष्णदास, —“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्प्रेस—मुंबई.

(४)

वि० प० विषयनिरूपण ।

विवाहपद्धतिस्थितविषयनिरूपण.

(प्रथमप्रकरणज्योतिषशास्त्रमें)

जिसमें स्त्रीप्रशंसा, दैवज्ञपूजन, विवाहप्रश्न, प्रश्नसे शुभाऽशुभविचार, वैधव्ययोगका व्रत शांति आदिसे परिहार, सावित्रीव्रतविधान, पिप्पलविवाह, कुंभाविवाह, अच्युतविवाहविधान, प्रश्नसे कन्यास्त्रीपुत्रविचार, मंगलशब्द अशुभशब्द, बालकवरणनक्षत्र, कन्यावरणविधि, कन्यापरिणयनकाल, चैत्रादिमास नियम व्यवस्था, ज्येष्ठमें विवाहनिषेध, पुत्र विवाहके अनन्तर विवाहनिषेध और विधान, मुण्डनविचार, विवाहके मुहूर्त, पुरुषस्त्रीराशिचक्र, वर्णचक्र, योनिचक्र, गणचक्र, लक्षापात । युतिवैध । चरणवैध जामित्र । बुधपंचक । सर्व देशमें एकार्गल चक्र । यह सब दोषपरिहारसहित, उपग्रह । क्रांतिसाम्य । दग्धातिथि । दशयोग । पङ्कवंधकाणलग्नविचार । ग्रहनैर्मांगिकमैत्रीचक्र । दुष्टभक्त । लग्नशुद्धि । गोधूलिलग्न । वधूपवेश । द्विरागमनमुहूर्त । शुक्राविचार परिहारसहित । यह सब भाषाटीकासहित प्रथम प्रकारणमें लिखे हैं ॥

(द्वितीयप्रकरण कर्मकाण्डविषयमें)

यथार्थग्रहचित्र । मण्डपचित्र । निलकमण्डलचित्र । सर्वतोभद्रचित्र । पञ्चाग्निमुण्ड । आज्यस्थाली । चरुस्थाली । प्रणीतापात्र । पुरोडाशपात्र । मृत । उपभृत्सुक । ध्रुवासुक । पुष्करसुक । अग्निहोत्रहवनी । वैकंठसुक । अङ्गुल । मुसल । शूर्प । शम्पा । स्फ्यः । शृतावदान । उपवेशकूर्च । दृपत् । उपल । पङ्कवर्त । अग्नि । अरणि । उत्तरारणि । मोविली । प्रमन्थ । नेत्र । अन्तर्धानकट । हविर्धानपात्री । प्राशित्रहरण । चमसा । इडापात्री । यजमानासन । पत्न्यासन । होत्रासन । ब्रह्मासन । यजमानपात्री । पत्नीपात्री । कृष्णाजिन । इन सर्वके प्रमाणसहित चित्र । कात्यायनोक्तपात्रोंके लक्षण । विनियोगवर्णन । ऋषिछंददेवतालक्षण । छन्दसंख्या । गायत्रीछंदभेद ॥ यह सर्व श्रेष्ठतासे द्वितीयप्रकरणमें लिखे हैं ॥

(तृतीयप्रकरणकात्यायनोक्तशांतिमें)

जिसमें प्रमाणसहित स्वर संयुक्त अतिशुद्धकर वेदोंके मंत्र । स्वास्तिवाचन । गणपत्यादिपूजन । रक्षाविधान । आचार्यादिवरण । वेदस्वरूप । आशीर्वादमंत्र ।

वि० प० विषयनिरूपण ।

(५)

कलश । वास्तुपूजन । योगिनी । ब्रह्मा । विष्णु । शिव । इंद्रादिदशदिक्पाल । नव-
ग्रहपूजन । बलिदान संकल्प । शांति । सामग्रीहै ।

(चतुर्थप्रकरणसंकल्पादिभेदमें)

विवाहसामग्री । चतुर्थीकर्मसामग्री । कन्योद्वाहमें यजमानकर्तृक प्रतिज्ञासंकल्प ।
यजमानकर्तृक शुभ्रचोलाशाटिकासंकल्प । कन्यापितृकर्तृक वेदीदानसंकल्प । यजमा-
नकर्तृकचतुर्थीदानसंकल्प । यजमानकर्तृक उपाध्यायदक्षिणासंकल्प । यजमानक-
र्तृककन्या यज्ञ अंतमें भूरे अन्नद्रव्यदान संकल्प । यजमानकर्तृक विवाहप्रतिज्ञासंकल्प
वरकर्तृकपत्नीप्रतिग्रहगोदानसंकल्प । अभावे सुवर्णमयी गोदानसंकल्प । उपाध्यायद-
क्षिणासंकल्प । यजमानकर्तृकखट्वादानसंकल्प । जलवेष्टन । गोत्रोच्चारण । अतिवि-
श्रुतकन्यादानसंकल्प । संक्षेपसेकन्यादानसंकल्प । परिभाषा । सूर्यादिनवग्रह मंत्र ।
इनको पूजनीयता । षोडशोपचारपूजा । ज्योतिषबोधकनवग्रहमंगलाष्टक । पारम्करोक्त
कुशकंडिकामेविवाहसूत्र ।

(पञ्चमप्रकरणमें)

विवाहपद्धतिप्रारम्भ । मङ्गलाचरण । ग्रंथकर्तुःप्रशंसा । वाग्दानविधि । बालकव-
ग्ण । वेदोच्चारण । गणेशस्तुति । ऋषिसृष्टि । शिवसंकल्प । शांतिपाठ । ये सब
अत्युत्तम भाषाटीका सहित सार्थप्रमाण स्वरयुक्त मंत्र हैं ।

(षष्ठप्रकरणविवाहविधिमें)

(तत्र कन्याहस्तेन) यहाँसे आदिले (प्राङ्मुग्धौ वधूवरी स्थितौ भवतः) इस पदमें
अर्थात् संपूर्ण पद्धति अनेक पद्धतियोंसे मिल्याप संस्कृत शुद्धकर ऋग्वेदादि चतुर्वेदोंमें
मंत्र निकाल और जिस वेदका जो मंत्र उसका प्रमाण तथा स्वरसहित अनिशुद्ध कर
विनियोगोंके सहित लिखे हैं ॥ इसकी टीका महीधरभाष्य सायनभाष्य उच्चरभाष्य
ब्राह्मणसर्वस्व गृह्यसूत्र हरिहरभाष्य ॥ तथा निबहुरामकृतटीका जिसको पाञ्चालदेशीय
महाविद्यानिकरके मुख्य संस्कृताध्यापक श्रीपंडित गुरुप्रसादजीने शुद्ध किया ॥ इत्यादि
अनेक वेदार्थबोधक ग्रंथोंसे मंत्रोंके अर्थ साथ मन्वादि प्रमाण देकर सबकी समझमें
आनेवाली मनभावनी अतिसुंदर भाषाटीकामें करे हैं इसी प्रकार साथ प्रमाणोंके विवा-
हपद्धतिके पद २ का अर्थ स्पष्टभाषाटीकामें लिखा है ॥

प्रार्थना ।

(सप्तमप्रकरणमें)

चतुर्थीकर्म अतिविस्तृत भाषाटीकासहित है ।

(अष्टमप्रकरणस्त्रीआचारमें)

धर्मशास्त्रादि अनेक शास्त्रोक्त विवाहानंतर जो स्त्रीमात्रको पति सेवाआदि प्रतिदिन कर्तव्य है वह अतिविस्तारमें निरूपण करा है ।

(नवमप्रकरणरजस्वलाकृत्यमें)

अर्थात् जिस समय स्त्रियोंको ऋतु आता है उस दिनसे तीनदिनपर्यन्त स्त्रीरक्षा भोजन शयनासनादि व्यवस्था जिससे गर्भाशय शुद्ध रहनेमें अति शौर्य बल बुद्धिसंपन्न और दुराचारसे दुष्ट कुकर्मासंतान होता है ॥ यह सब धर्मशास्त्र कर्मकाण्ड ज्योतिष चिकित्सासे शुद्धकर अतिसुंदर निरूपण करा है ॥ इति ॥ तथा प्रकीर्णा-
ऽध्याय लिखा है ॥

प्रार्थना—यद्यपि अनेक विवाहपद्धति मूल और संस्कृतटीकासंवलितसे कार्यसिद्ध था तथापि वेदमंत्रोंमें अशुद्धिका संदेह और संस्कृतटीकाको सर्वापकारक ना होनेसे तथा विना विवाहप्रकरण अन्य स्थानोंमें मंत्रार्थ कर्तव्यताकी इच्छा लग्नशुद्धि कात्यायनीशांति संकल्प आदिकी आवश्यकता विचार कर संस्कारकी शुद्धि और लोकोपकारार्थ की जिसको पढ़कर सामान्य विद्यासंपन्न भी पुरुष अतिसुगमरीतिसे समझकर आनंदपूर्वक निर्वाह करें इस लिये मैंने अत्युत्तम भाषाटीकासहित विवाहपद्धतिका पुस्तक नवप्रकरणमें अतिपरिश्रमसे बनाया है ॥ इसको महाशय जन स्वीकार कर प्रचलित करें ॥ और जो मेरी अशुद्धि हो वह क्षमा करें ॥

पुष्पाञ्जलिः— यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानाच्चकृतंमया ।

विद्वद्भिःक्षम्यतांसर्वबालत्वादयमञ्जलिः ॥

कपूरस्थलनिवासि—द्वैवज्ञदुनिचन्द्रात्मज (जोरि)

पण्डित—विष्णुदत्तशर्मा—वैदिक.

अत्रायं विशेषः ।

यथाह सुश्रुते भगवान् धन्वन्तरिः ॥ अथास्मै पञ्चविंशतिवर्षाय द्वादशवर्षा
पत्नीमावेहेत् । पितृव्यधर्मार्थकामप्रजाः प्राप्स्यतीति ॥

किञ्च—तद्वर्षाद्द्वादशात्कालेवर्तमानमसृक्पुनः ।
जरापक्वशरीराणांयातिपञ्चाशतःक्षयम् ॥ उनषोड
शवर्षायामप्रातः पञ्चविंशतिम् ॥ यद्याधत्तेपुमान्गर्भ
कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ जातोवानचिरंजीवेज्जीवेद्वादु
र्बलेन्द्रियः ॥ तस्मादत्यन्तबालायांगर्भादानंनकार-
येत् ॥ इममेवाशयमालम्ब्यभावमिश्रोपिभावप्रकाशे
वयोधिकांनिदन्बालांस्तौति ॥

यथा—पूतिमांसंस्त्रियोवृद्धाबालार्कस्तरुणंदधि ॥ प्रभा
तेमैथुनंनिद्रा सद्यः प्राणहराणि षट् ॥ वृद्धोपितरुणीं
गत्वातरुणत्वमवाप्नुयात् । वयोधिकांस्त्रियंगत्वातरु
णःस्थविरायते ॥ अत्याशितोऽधृतिः क्षुद्रान्सव्यथां-
गःपिपासितः ॥ बालोवृद्धोन्यवेगार्तस्त्यजेद्रोगीचमै
थुनम् ॥ लिंगिनींगुरुपत्नींचसगोत्रामथपर्वसु । वृ-
द्धांचसंध्ययोश्चापिगच्छतोजीवनक्षयः ॥ विषये
श्चैवमैथुनमित्याद्यनेकवचनप्रामाण्यात्तत्तद्व्रंथाऽव-
लोकनाच्च स्त्रियावरोद्विगुणोऽभावेसाद्धोवास्त्रीतुयर्वा
यस्येवविधेयाइतिमेप्रतिभाति ॥ अतश्चेहलौकिकपार-
लौकिकहितेप्सुभिःपुरुषैरस्यप्रचारःकर्तव्यइतिशम् ॥

पार्थनेयंदै० दुनिचन्द्रात्मजकर्पूरस्थलीयपंडित-

विष्णुदत्तवैदिकशर्मणः ।

विशेषः ।

(अवशिदेखियं देखनयोगू)


मुश्रुतमें भगवान् धन्वतरि स्वयं लिखते हैं कि, पच्चीस २५ वर्षके बालकको द्वादश १२ वर्षकी स्त्रीसे विवाह करनेसे धर्म अर्थ काम संयुक्त पिताको हित दीर्घायुवाली संतान प्राप्त होती है ॥ और स्त्रीको द्वादशवर्षसे ले ऋतु पचास वर्षपर्यन्त रहते हैं और षोडश १६ वर्षसे न्यून (कम) स्त्रीको यदि पच्चीसवर्षसे कम (न्यून) पुरुष प्राप्त हो उससे जो गर्भ हो वह खबजाता है अर्थात् गिरजाता है । वा उत्पन्न होकर चिरकाल जीवत नहीं रहता यदि रहता है तो दुर्बलशरीर (नाताकत) असमर्थ इन्द्रियवाला चिर जीवता है ॥ इस कारणसे अतिबालकोंका गर्भाधान ना करावें ॥ अर्थात् २५ पच्चीसवर्षका पुरुषको १६ वर्षकी स्त्री वा १४ वर्षकी स्त्री और २० बीसवर्षका पुरुषको इससे न्यून नहीं और इसी आशयको लेकर भार्गमिश्रजी भावप्रकाश ग्रंथमें वृद्धा (बडी) स्त्रीका निषेध और बाला-स्त्रीका स्वीकार कहतेहैं ॥ जैसे सड़ा मांस । वृद्धा स्त्री । कन्यार्क । दिनमें बनायाहुआ दधि ॥ प्रातःकाल स्त्रीसे संभोग । और प्रातःकाल निद्रा यह शीघ्र बलको नष्ट करते हैं । वृद्धपुरुष यौवनवती स्त्रीको प्राप्त होय युवा होता है और अपनेसे बडीस्त्रीको यदि जवानपुरुष प्राप्तहोय तो शीघ्रही वृद्ध (बुढा) होजाता है ॥ और बहुत अन्न भोजन कर धैर्यरहित अध्यायुक्त पीडायुक्त तृषायुक्त और बालक अर्थात् २० वर्षसे न्यून (कम) और वृद्ध (अशीति ८० वर्षसे) ऊपर पुरुष ॥ और गोगातुर और जाँ एकसे संभोगकर चुकाहो यह ७ पुरुष मैथुन ना करें यदि यह करें तो प्रत्यक्ष फलको प्राप्त होते हैं । इसीप्रकार संन्यासयुक्त स्त्रीसे वा गुरुकी स्त्रीसे और अपने गोत्रकी स्त्रीसे वा कन्यासे और पर्वकालअष्टमी अमावस एकादशी आदिमें और वृद्धास्त्रीसे तथा संध्याकालमें संभोग करनेसे जीवनका क्षय होताहै ॥ इसलिये विंशति अर्थात् बीस २० वर्षके ऊपर पुरुषको मैथुन करना चाहिये इत्यादि अनेकवचन निदर्शनसे यह सिद्ध भया कि, स्त्रीसे बालक द्विगुण अर्थात् दुगुण (दूना) होना चाहिये ॥ जैसे स्त्री बारह १२ वर्षकी और पुरुष २५ वर्षका यदि ऐसा योग्य गुणयुक्त वर नामिले तो द्वादश १२ वर्षकी लडकीको वर विंशति २० वर्षका अधश्य होना चाहिये और कन्या वरसे सदैव न्यून होनी चाहिये ऐसे करनेमें इस लोकमें यश परलोकमें अनंतर सुख प्राप्त होता है इस लिये संसारभीरु धर्मनिष्ठपुरुषोंको इसका प्रचार तनमनधनसे अवश्य करना चाहिये ।


प्रार्थनेयं देवज्ञदुनिचन्द्रात्मज (शोरि) कर्पूरस्थलीय, विष्णुदत्तवैदिकशर्मणः ।

खेमराज श्रीष्णदास.

“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम-यन्त्रालयाध्यक्ष-मुंबई.







श्रीः ।

अथ नवरत्नविवाहपद्धतिः ।

भाषाटीकासहिता प्रारभ्यते ।



ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय विघ्नहर्त्रे नमोनमः ।

मंगलचरणम् ।

शिवंशिवकरंगौरी रामंसीतासमन्वितम् ॥

नत्वालम्बविशुद्धयर्थं टीकांकुर्वेमनोहराम् ॥ १ ॥

अथ मुहूर्तचिंतामणौ विवाह (उपयमन) प्रकरणम् ॥

भार्यात्रिवर्गकरणंशुभशीलयुक्ता शीलंशुभं

भवतिलम्बवशेनतस्याः ॥ तस्माद्विवाहसमयः

परिचिन्त्यतेहितन्निघ्नतामुपगताःसुतशीलधर्माः ॥१॥

भा० टी०—भार्या अर्थात् जिससे विवाह होय वह स्त्री शुभशीलसे युक्त धर्म अर्थ कामका साधन होती है ॥ वह शुभशीलता लग्नद्वारा होनेसे विवाहका समय प्रथम चिंतना करते हैं ॥ भावार्थ यह है कि, यदि लग्न दशदोषादिरहित शुद्ध होय तो उसमें पाणिग्रहण करनेसे स्त्री दुष्टभी श्रेष्ठ (अच्छी) और वंध्यायोगवाली पुत्रवती और पापिष्ठ धर्मयुक्त लग्नके प्रभावसे होजाती है ॥ १ ॥

आदौसंपूज्यरत्नादिभिरथगणकंवेदयेत्स्वस्थचित्तः

कन्योद्गाहंदिगीशानलहयविशिखेप्रश्नलग्नाद्यदीन्दुः ॥

(२) विवाहपद्धति भा० टी०

दृष्टोजीवेनसद्यः परिणयनकरोगोतुलाकर्कटाख्यं
वास्यात्प्रश्नस्यलग्नंशुभस्वचरयुतालोकिंतंतद्विद्ध्यत् ॥२॥

भा० टी०—प्रथम रत्न सुवर्ण रजतादिसे गणितविद्यानिपुण स्वस्थचित्त बैठे ज्योतिषीको भेटकर कन्याका विवाह निवेदन (कथन) करे इहाँ रत्नादिसे यह प्रयोजन है जितनेसे संतुष्ट हो- जाय उतना द्रव्य देना वा यथाशक्तिअनुसार देना ॥ और साथ यह कहना कि, मैं कन्याका विवाह करना चाहता हूँ ॥ यदि उस काल विवाहप्रश्नसे दशम १० एकादश ११ तृतीय ३ सप्तम ७ पंचम ५ स्थानमें चन्द्रमा होय और पूर्णदृष्टि नवम ९ पंचम ५ से बृहस्पति चंद्रमाको देखे वा वृष तुला कर्क यह प्रश्नके लग्न होय और शुभग्रहयुक्त होवे वा देखे तो शीघ्रही विवाह होता है ॥ २ ॥

विषमभांशगतौशशिभार्गवौ तनुगृहंबलिनौ यदिपश्यतः ॥
रचयतोवरलाभमिमौ यदा युगलभांशगतौ युवतिप्रदौ ॥३॥

भा० टी०—यदि शुक्र चंद्र विषम (मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धन, कुंभ) राशिके नवांशोंमें बलयुक्त प्राप्त होकर प्रश्नलग्नको देखें तो यह वरकी प्राप्ति कन्याको करते हैं ॥ यदि शशि शुक्र समराशिके नवांशमें हों और बलयुक्त प्रश्नलग्नको देखें तो कन्याकी प्राप्ति बालकको करते हैं ॥ ३ ॥

षष्ठाऽष्टस्थःप्रश्नलग्नाद्यदीन्दुर्लग्नेकूरःसप्तमेवाकुजः
स्यात् ॥ मूर्ताविन्दुःसप्तमेतस्यभौमोरंडासास्यादष्ट-
संवत्सरेण ॥ ४ ॥

भा० टी०—प्रश्नलग्ने षष्ठ ६ अष्टम ८ इन स्थानोंमें चंद्रमा होय और लग्ने क्रूर ग्रह होवे यह एक योग है ॥ १ ॥ वा प्रश्नलग्ने षष्ठ ६ अष्टम ८ इन स्थानोंमें चंद्रमा होय और प्रश्नलग्नेभी सप्तम ७ स्थानमें मंगल होवे यह द्वितीय योग है ॥ २ ॥ अथवा लग्ने चंद्रमा और सप्तम स्थानमें मंगल होवे यह तृतीय योग है ॥ ३ ॥ फल इनका ऐसे होनेसे आठ वर्षके अन्तर वह कन्या रंडा होती है ॥ ४ ॥

प्रश्नतनोर्यदिपापनभोगाःपंचमगोरिपुहृष्टशरीरः ।

नीचगतश्चतदाखलुकन्यासाकुलटात्वथवामृतवत्सा ॥५॥

भा० टी०—प्रश्नलग्ने पापीग्रह अर्थात् क्षीण चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनैश्वर और इनके साथ युक्त बुध यह पापीग्रह लग्ने पंचम स्थानमें होय और लग्ने स्थित हो शत्रुग्रह उसको देखे ॥ वा नीचगत होय तो निश्चयसे वह कन्या व्यभिचारिणी वेश्या कुलटा होती है ॥ अथवा मृतवत्सा अर्थात् न रहनेवाली संतानवाली होती है ॥ प्रमाण बृहज्जातकका पापी नीच उच्च ग्रहोंमें यथा (क्षीणेन्द्रकर्महीसुतार्कतनयाः पापा बुधस्तैर्युतः । अजवृषभमृगांगनाकुलीरा इषवणिजौ च दिवाकरादितुंगाः ॥ दश १० शिखि ३ मनुयुक् २८ तिथी १५ न्द्रियांशे ५ खिनवक २७ विंशति २० भिश्च तेऽस्तनीचाः) अर्थात् मेषके १० अंश सूर्य उच्च और तुलाके १० अंश नीच इसप्रकार वृषके ३ अंश चंद्रमा उच्च और वृश्चिकके ३ अंश नीच ॥ और मंगल मकरके २८ अंश

(४) विवाहपद्धति भा० टी०

उच्च और कर्कके २८ अंश नीच और कन्याके १५ अंश बुध उच्च और मीनके १५ अंश नीच होता है और बृहस्पति कर्कके ५ अंश उच्च और मकरके ५ अंश नीच ॥ शुक मीनके २७ अंश उच्च और कन्याके २० अंश नीच ॥ शनैश्वर तुलाके २० अंश उच्च और मेषके २० अंश नीच होता है ॥ ५ ॥

यदिभवतिसितातिरिक्तपक्षे तनुगृहतःसमराशिगः
शशांकः ॥ अशुभखचरवीक्षितोऽरिंध्रेभवतिविवाह-
विनाशकारकोऽयम् ॥ ६ ॥

भा० टी०—यदि लग्न ग्रहमे कृष्णपक्षमें समराशिगत चंद्रमा होय और षष्ठ ६ अष्टम ८ इन स्थानोंमें स्थित हो पापी ग्रह देखे तो विवाहका नाश करनेवाला होता है ॥ ६ ॥

जन्मेत्थंचविलोक्यबालविधवायोगंविधाय्यव्रतं
सावित्र्याउतपैप्पलंहिसुतयादद्यादिमांवारहः ॥
सल्लग्रेऽच्युतमूर्तिपिप्पलघटैःकृत्वा विवाहं स्फुटं
दद्यात्ताञ्चिरजीविनेऽत्रनभवेदोषःपुनर्भूभवः ॥ ७ ॥

भा० टी०—प्रश्नलग्नमे जैसे विधवायोग विचारा इसीप्रकार जातकशास्त्रमे जन्मलग्नमे उत्पन्न विधवायोग विचार करे ॥ जैसे लिखा भी है (बाल्ये विधवा भोगे पतिसंत्यक्तादिवाकरेऽस्तस्थे । सौरे पापैर्दृष्टे कन्यैव जरांसमुपयाति) अन्यच्च (उत्सृष्टा रविणा कुजेन विधवा बाल्येऽस्तराशिस्थिते) अर्थात् यदि मंगल स्त्रीके जन्म लग्नमे सप्तम स्थानमें स्थित हो तो स्त्रीको बालविधवायोग

होता है यदि सप्तम स्थानमें सूर्य स्थितहो तो पति स्त्रीको त्याग-
 देता है ॥ यदि कन्याकी जन्मकुण्डलीमें शनैश्वर पापदृष्टियुक्त
 सप्तममें स्थित हो कन्याही वृद्ध होजाती है अर्थात् विवाह नहीं
 होता और भी लिखा है (लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे
 कुजे । कन्याभर्तृविनाशाय भर्ता कन्याविनाशकः) अर्थात् जन्म-
 लग्न चतुर्थ ४ सप्तम ७ द्वादश १२ अष्टम ८ इन स्थानोंमें यदि
 कन्याके मंगल होय तो पतिका नाश करता है, यदि पुरुषके इन
 स्थानोंमें मंगल होय तो स्त्रीका नाश करता है ॥ इत्यादि योगोंसे
 अच्छीतरह बालविधवायोगको विचार आगे कहना जो वैधव्यना-
 शक सावित्रीका व्रत पिता कन्यासे विधिपूर्वक करवावे ॥ यदि
 भर्ताके स्त्रीनाशक और स्त्रीके भर्तृनाशक योग पड़ा होय तो उन
 दोनोंका विवाह करना श्रेष्ठ होता है और वैधव्यकारक योग नहीं
 रहता ॥ इसमें दृष्टान्त यह है कि, जैसे दोनों अंगार आपसमें
 युद्धकरें तो घातसे दोनोंही निस्तेज हो जाते हैं और सर्प दोनों
 युद्धकरे तो उसकी विष उसको उसकी विष उसको नहीं बाधा करती ॥
 और केवल स्त्रीकेही विधवायोग होय तो एकांतमें कन्याका पिता
 कन्यासे सावित्रीव्रत करवाय पश्चात् पिप्पलसे वा घट अथवा सुव-
 र्णमयी विष्णुमूर्तिसे यथोक्त विधिसे विवाह कर पीछेसे चिरायुवाले
 वरसे विवाह करे तो पुनर्भूदोष नहीं होता ॥ प्रमाणभी जैसे व्रतखं-
 डमें लिखा है (सावित्र्यादिव्रतादीनि भक्त्या कुर्वन्ति याः स्त्रियः ॥
 सौभाग्यञ्च सुहृत्त्वञ्च भवेत्तासां सुसन्ततिः) यह सब अष्टम प्रकरण
 स्त्रियोंके आचारमें अच्छीतरह आगे लिखा है ॥ ७ ॥

(६)

विवाहपद्धति भा० टी०

(अथ पिप्पलव्रतं ज्ञानभास्करोक्तं लिख्यते)

बलवद्विधवायोगेबाल्येसतिमृगीदृशाम् ।

पितारहसिकुर्वीततद्भङ्गंशास्त्रसम्मतम् ॥

सुदिनेशुभनक्षत्रेचन्द्रताराबलान्विते ।

अवैधव्यकरैर्योगैर्लग्नेग्रहबलान्वितेः ॥

व्रतारम्भंप्रकुर्वीतबालवैधव्यनाशकम् ।

सुस्रातांचित्रवसनांकन्यांपितृगृहाद्बहिः ॥

नीत्वाऽश्वत्थशमीस्थानेयद्वाबदरिकाश्रमे ।

आलवालं प्रकुर्वीतयदिवामृदुकर्षितम् ॥

कुमार्य्याचार्य्यनिर्दिष्टंकृत्वासंकल्पमादरात् ।

करकाम्बुप्रमाणेनसिंचनंप्रतिवासरम् ॥

चैत्रेवाश्विनमासेवातृतीयाऽसितपक्षतः ।

यावत्कृष्णतृतीयान्यामासमेकंयथाविधि ॥

ब्राह्मणानांतथास्त्रीणांपूजनंचसमाचरेत् ।

तदाशिषामुयात्कन्यांसौभाग्यञ्चसुखान्वितम् ॥

प्रतिमांपार्वतीनाम्नीं वैणवेभाजनेऽर्चयेत् ।

चंदनाक्षतदूर्वाद्यैर्विल्वपत्रैर्यथाविधि ॥

उपचारैर्यथाशक्त्यानैवेद्यैः प्रतिवासरम् ।

एवंव्रतप्रभावेणबालवैधव्यनिष्कृतिः ।

जायतेकन्यकानाञ्चततःपाणिग्रहक्रियाः ॥

इत्यश्वत्थव्रतविधानम् ।

भा० टी०—भावार्थ यह है कि, स्त्रीको बलिष्ठ विधवायोग पङ्-
नेसे एकांत स्थानमें पिता शास्त्रोक्त उसका भंग वक्ष्यमाण शुभदिन
शुभनक्षत्रमें करे ॥ कन्याको स्नान करवाय वस्त्रभूषण पहनाय घर
(गृह) से बाहिर (अश्वत्थ) पिप्पलके स्थानमें कन्याको साथ
ले पिप्पलकी आलवाल (आढ) चारो तरफ कर कन्या संकल्प-
पूर्वक जो चतुर्थ प्रकरणमें लिखा है ॥ प्रतिदिन जलसे सिंचन करे
फिर चैत्र वा आश्विन शुक्लतृतीयासे कृष्णतृतीयापर्यंत ब्राह्मण
और स्त्रियोंका कन्या पूजनकर उनके आशीर्वाद कन्या ग्रहण करे ॥
और सुवर्णपात्रमें पार्वतीजीको षोडशोपचार वक्ष्यमाणसे पूजन करे
इस व्रतके प्रभावसे कन्योंका बालवैधव्य योग नाश होता है पीछेसे
चिरायुवाले वरसे विवाह करदेवे ॥

(अथ अश्वत्थविवाहविधिः सूर्यारुणसंवादोक्तो लिख्यते)

सुहृद्विजगुरुन्नारीमंगलोच्चारणैः समम् ।

आहूयोद्वाहकालेचरम्यभूमौचमण्डपे ॥

गत्वाप्रणम्यगौरीश्वगणनाथंचभूरुहम् ।

भवानींचैवमन्थानींपितामन्त्रमुदीरयेत् ॥

उद्वाहयिष्येविधिवदश्वत्थेनमनोहराम् ।

कन्यांसौभाग्यसौख्यार्थहेतवेहंद्विजोत्तमाः ॥

नमस्तेविष्णुरूपायजगदानंदहेतवे ।

पितृदेवमनुष्याणामाश्रयायनमोनमः ॥

पूर्वजन्मकृतंपापंबालवैधव्यकारकम् ।

नाशयाशुसुखं देहिकन्यायाममभूरुह ॥ इति ॥

(८)

विवाहपद्धति भा० टी०

भा० टी०—भावार्थ यह है कि, अश्वत्थव्रतके अनंतर मित्र, द्विज, गुरु, स्त्री मंगलशब्दके साथ विवाहकालमें इन सर्वको साथ लेकर सुंदर मण्डपभूमिमें प्राप्त होय गौरी, गणेश, पिप्पल, भवानी, मंथानी इनको प्रणाम कर इस मंत्रसे प्रार्थना कन्याका पिता करे ॥ हे ब्राह्मणगण ! आपके प्रत्यक्ष सौभाग्य सुख अर्थके लिये अपनी कन्याको अश्वत्थके साथ विवाह करता हूं जगत्आनंदहेतु विष्णु-रूप और पितर देव मनुष्योंका आश्रय इस अश्वत्थको वारंवार नमस्कार कर साथ प्रार्थना करते हैं, भो अश्वत्थदेव! इस कन्याके पूर्वजन्मकृत जो बालवैधव्यकारक पाप उनका नाशकरो और मेरी कन्याको सुख सौभाग्य देवो ॥ इति ॥ यह प्रार्थनाके मंत्र हैं और विवाहविधि वक्ष्यमाण यथावत् मंत्रोंसे करनी चाहिये ॥

(अथ कुम्भविवाहः सूर्यारुणसंवादे)

विवाहोक्तेनमंथन्याकुम्भेनचसहोद्भहेत् ।

विवाहात्पूर्वकालेतुचंद्रताराबलेशुभे ॥

पितासंकल्प्यबाह्यञ्चविवाहविधिपूर्वकम् ।

सूत्रेणवेष्टयेत्पश्चाद्दशतन्तुविशेषतः ।

कुंकुमालंकृतं देहंतयोरेकान्तमन्दिरे ॥

ततःकुम्भंविनिस्सार्यप्रभज्यसलिलाशये ।

ततोऽभिषेचनंकुर्यात्पञ्चपल्लववारिभिः ॥

तत्सर्ववस्त्रपूजाद्यंब्राह्मणायनिवेद्य च ॥

कन्यालंकारवस्त्राद्यंब्राह्मणायनिवेदयेत् ॥

प्रार्थना ।

वरुणांगस्वरूपत्वंजीवनानांसमाश्रय ॥

पतिर्जीवयकन्यायाश्चिरंपुत्रान्सुखंवरम् ॥

देहिविष्णुवरानन्दंकन्यांपालयदुःखतः ॥

इति कुम्भविवाहः ।

भा०टी०—भावार्थ यह है कि, विवाहके प्रथम शुभदिनमें विवाहो-
क्तविधिसे मन्थनी कुंभसे संकल्पपूर्वक विवाह करै पीछेसे दशतंतु
सूत्रसे वेष्टन कर कुंकुम (केशर) लगाय एकान्तमें फिर कुंभको
निकाल सलिलस्थानमें प्रक्षेपकर (फेंक) पंचपल्लवसे अभिषेक
कन्याको करे अनंतर संपूर्ण कुंभपूजनकी सामग्री ब्राह्मणको दे
कन्याकेभी वस्त्र भूषण ब्राह्मणको देवे ॥ और वरुणकी प्रार्थना करे
हे जीवनके आश्रय वरुणस्वरूप वट ! कन्याके पतिको चिरंजीवी
करो हे विष्णो ! कन्याकी पालना कर सुख सौभाग्यको देवो ॥
इति ॥ इस प्रकार सुवर्णमयी चतुर्भुज विष्णुकी मूर्ति बनाय विवाह
कर यथावत् विधिसे ब्राह्मणको मूर्ति देवे ॥ दानका प्रकार जैसे
वहांही लिखा है यथा ॥

शुभेमासेसितेपक्षेसानुकूलग्रहेदिने ॥

ब्राह्मणंसाधुमामंत्र्यसंपूज्यविविधार्हणैः ॥

तस्मैदद्याद्विधानेनविष्णोर्मूर्तिंचतुर्भुजाम् ॥
 शुद्धवर्णसुवर्णेनवित्तशक्त्याथवापुनः ॥
 निर्मितांरुचिरांशंखगदाचक्राब्जसंयुताम् ॥
 दधानां वाससीपीतेकुमुदोत्पलमालिनीम्
 सदक्षिणांचतांदद्यान्मंत्रमेतमुदीरयेत् ॥
 यन्मयापूर्वजनुषिघ्नन्त्यापतिसमागमम् ॥
 विषोपविषशस्त्राद्यैर्हतोवातिविरक्तया ॥
 प्राप्यमानंमहाघोरंयशःसौख्यधनापहम् ॥
 वैधव्याद्यतिदुःखौघनाशायसुखलब्धये ॥
 महासौभाग्यलब्धयैचमहाविष्णोरिमांतनुम् ॥
 सौवर्णनिर्मितांशक्त्यातुभ्यंसंप्रददेद्विज ॥
 अनघात्वहमस्मीतित्रिवारंप्रवदेदिति ॥
 एवमस्त्वितिप्रिप्राशीर्गृहीत्वास्वगृहंविशेत् ॥
 ततोवैवाहिकंतातोविधिक्रुयान्मृगीदृशाम् ॥

इति विष्णुप्रतिमादानविधिः ।

भा० टी०—सानुकूलग्रह दिनमें ब्राह्मणको बुलाय सुवर्ण-
 निर्मित चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म युक्त पीतवस्त्र वनमालासहित
 साथ दक्षिणाके प्रतिमा दे यह मंत्र पढ़े कन्या कि, जो मैंने पूर्व
 जन्ममें पतिसमागम नाशकरनेसे वा विष उपविष शस्त्रसे पतिको मारा
 उससे उत्पन्न जो वैधव्ययोग उसके नाशके लिये और सुख
 प्राप्तिके लिये यह सुवर्णमयी महाविष्णुकी मूर्ति हे ब्राह्मण ! तुमको
 दान करती हूं इससे मैं पापरहित भई यह तीन वार कहे एवमस्तु

ऐसे ब्राह्मण वाक्यके अनंतर गृहमें आवे तब पिता वरके साथ मंगलशब्दपूर्वक विवाह करे ॥

शास्त्रार्थ ।

यदि कोई महाशय शंका करे कि, विष्णुमूर्ति कुम्भ पिप्पल इनमें से एकके साथ विवाह कर फिर द्वितीयवार मनुष्यके साथ विवाह करनेसे पुनर्भूदोष स्त्रीको होना चाहिये । उसका उत्तर यह है कि, जो एक मनुष्यके साथ विवाह कर फिर द्वितीय पुरुषके साथ विवाह किया जाय वह स्त्री पुनर्भू कहलाती है । इस्में हम प्रमाण देते हैं याज्ञवल्क्यस्मृति । अध्याय १ प्रथम (यथा-अक्षताच क्षता चैव पूनर्भूःसंस्कृता पुनः) अर्थात् पतिके मरजानेपर वा जीवतेपर जो फिर दूसरे मनुष्यसे संस्कृत विवाही जाय वही पुनर्भू होती है । यदि पिप्पलादि विवाहके अनंतर मनुष्यके साथ विवाह होनेसे पुनर्भूदोष है तो याज्ञवल्क्यजीने अक्षता च क्षता यह शब्द किसलिये कथन करा (ऐसे लिख देना था कि, पुनर्भूसंस्कृता पुनः) और अक्षता च क्षता इन शब्दोंके अर्थ मिताक्षरामें यह लिखा है पति अक्षत है अर्थात् जीवित हो वा (क्षता) क्षतहो अर्थात् मरगया हो । फिर संस्कार करनेसे पुनर्भू संज्ञा होती है इसलिये पिप्पल देवादि विवाहसे पुनर्भू दोष नहीं है हम औरभी प्रमाण देते हैं कि, जो घटादिविवाहसे पुनर्भूदोष न हो । विधान व्रतखंडका जैसे प्रमाण “स्वर्णाम्बुपिप्पलानाञ्च प्रतिमा विष्णुरूपिणी । तथा सह विवाहे च पुनर्भूत्वं न जायते।” अन्यच्च “लक्ष्मीरूपा सदा कन्या हरिरूपं सदा जलम् । हरेर्दत्तञ्च यद्दानं दातुः पापहरं सदा” अर्थ सुवर्ण घट पिप्पलकी प्रतिमा

मूर्ति विष्णुरूप होती है इनके साथ विवाह करनेसे पुनर्भूदोष नहीं होता । और लक्ष्मी सदैव कन्या हरिरूप सदैव जल होता है । इसलिये विष्णुको जो दान दिया जाय वह यजमानके पाप नष्ट करनेवाला होता है । इसलिये इनके साथ विवाह करनेसे पुनर्भूदोष नहीं प्रत्युत (किञ्च) कन्याका वैधव्यनाशक है । और वेदमेंभी सोम, सूर्य, अग्नि पालनकरनेसे स्त्रीके रक्षक लिखे हैं । और चतुर्थ मनुष्य पति लिखा है यथा (सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वा विविद उत्तरः । तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः) इस मन्त्रका अर्थ विस्तारपूर्वक आगे विवाहप्रकरणमें लिखा है । यदि कोई महाशय अबभी यह आक्षेप करे कि, जो वस्तु एकको दान करे वा भोगनेके लिये दीजाय फिर यदि वही वस्तु दूसरको भोगनेके लिये दीजाय तो वह उच्छिष्ट (जूठ) होती है और उच्छिष्टका सर्वत्रही निषेध है । इस लिये प्रथम विष्णु घट वा पिप्पलको स्त्री दी फिर वही मनुष्यके साथ विवाह दी तो वह भी उच्छिष्ट भई इसलिये मनुष्यको स्वीकार करनी नहीं चाहिये । उत्तर महाशय मित्रवर आपने युक्तिसे फिर भी वही दोष उच्छिष्ट मान कर लगाया अहो आप बड़े निपुण हो और अति चंचलबुद्धि हैं परंतु आपको विनयपूर्वक हम यह कहते हैं कि, आप उच्छिष्टका त्याग सर्वत्र करतेहो वा आपके पूर्व पूर्व पुरुषोंने किया जैसे मधु (शहत दुग्ध) यहभी उच्छिष्टही है यह आप किसलिये भक्षण करते हो और श्राद्धादि कर्मोंसे मधुवातादि मन्त्रोंसे मधु पितरोंके अर्पण करते हो वा नहीं । बस अब चुप होगये भला जरासा तो

कहिये बस अब नहीं कहेंगे निरुत्तर भये अच्छा अपने प्रश्नका तो उत्तर श्रवण कीजिये महात्मन् ! जैसे मधु मक्षिकासे दुग्ध वत्ससे कमल भ्रमरोसे उच्छिष्ट भयाभी देव पितृकर्ममें आता है और जगत्को पंचगव्यादिसे पवित्र करता है उसीप्रकार विष्णु घट पिप्पलसे संस्कृत स्त्री मनुष्यके साथ विवाह करनेके अनंतर पुत्रपौत्रादिसंतानसे शुभलोककी प्राप्ति और इसलोकमें सुख देती है, यथा याज्ञवल्क्यस्मृतिमें लिखा है अध्याय १ “लोकानंत्यं दिवःप्रातिःपुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः । यस्मात्तस्मात्स्त्रियः सेव्याःकर्त्तव्याश्च सुरक्षिताः” इति और विधानखंडमें भी लिखा है यथा “यथालिभुक्तकमलं देवानां पूजनाय वै । अर्हं भवति सर्वत्र तथा कन्या नृणां भवेत्” इस लिये भास्कराचार्य मंथानीसे कन्याका विवाह यत्नसे करता भया और रेणुक महर्षि अश्वत्थसे कन्याका विवाह करता भया ॥ प्रमाण अभिधानखण्डका जैसे (मन्थन्या भास्करो यत्नात्कृतवान्दुहितुर्विधिम् ॥ रेणुकोपि स्वकन्यायास्तरूद्राहं चकार सः) इसलिये पुत्रवत् कन्याकीभी जन्मकुण्डली सर्व महाशयजनोंको अवश्य बनानी चाहिये । यदि कर्मानुसार जिसके योग पड़ाहो उसका शास्त्रोक्त उपाय करानेसे शांति होजाय तो सुखहो । इत्यलम्

प्रश्नलग्नक्षणेयादृशापत्ययुक्स्वेच्छयाकामिनीतत्र

चेदाव्रजेत् । कन्यकावासुतोवातदापण्डितैस्तादृशा

पत्यमस्याविनिर्दिश्यते ॥

भा०टी०—प्रश्नकालमें जैसी संतानयुक्त स्त्री अपनी इच्छासे उस स्थानमें आजाय वा कन्या वा बालक बुद्धिमान् ज्योतिषी

(१४)

विवाहपद्धति भा० टी०

तादृश उसकी संतान कहै । अर्थात् जैसी स्त्री कन्या बालक प्राप्त होय वैसेही उस स्त्रीको पुत्रादिक मिलते हैं ॥

शङ्खभेरीविपंचीरवैर्मङ्गलंजायतेवैपरीत्यंतदालक्षयेत् ।

वायसोवाखरःश्वाशृगालोपिवाप्रश्नलग्नक्षणेरौतिनादंयदि ॥

भा०टी०—शंख दुंदुभी वीणा सितारका शब्द प्रश्नकालमें शुभ होताहै ॥ और काक श्वान गर्दभ शृगाल यह प्रश्नकालमें शब्द करे तो निषिद्ध अशुभ है ॥

अथराशिमेलनम् ।

वरस्यपंचमेकन्याकन्यायानवमेवरः ।

एतत्रिकोणकंग्राह्यंपुत्रपौत्रसुखावहम् ॥

मरणंपितृमात्रोश्चसंग्राह्यंनवपंचकम् ।

षडष्टकेभवेन्मृत्युर्यत्तंतस्यविचारयेत् ॥

भा० टी०—वरकी राशिसे कन्याकी राशि पंचम ५ होय कन्याकी राशिसे वरकी राशि नवम ९ होयतो यह त्रिकोण शुभ है यदि विपरीत हो कन्यासे ५ में वर वरसे ९ कन्या हो तो माता-पिताकी मृत्यु कहै ॥ इसलिये राशिको विचार ले ॥

अथबलम् ।

वरस्यभास्करबलंकन्यायाश्चगुरोर्बलम् ।

द्वयोश्चन्द्रबलंग्राह्यंविवाहोनान्यथाभवेत् ॥

अष्टमेचचतुर्थेचद्वादशेचदिवाकरे ।

विवाहितोवरोमृत्युंप्राप्तोत्यत्रनसंशयः ॥

जन्मन्यथाद्वितीयेचपंचमेसप्तमेऽपिवा ।

नवमेचदिवानाथेपूजयापाणिपीडनम् ॥
 एकादशेतृतीयेवाषष्ठेवादशमेपिवा ।
 वरस्यशुभदोनित्यंविवाहेदिननायकः ॥

भा० टी०—वरको सूर्यका बल कन्याको बृहस्पतिका बल दोनोंको चन्द्रबल ग्रहणकरना अन्यथा विवाह नहीं होता अर्थात् इनकी शुद्धि विना विवाह शुभ नहीं होता ॥ यदि वरको अष्टम ८ चतुर्थ ४ द्वादश १२ में सूर्य होय तो विवाहसे वर मृत्युको प्राप्त होता है इसमें कुछ संशय नहीं है । यदि सूर्य जन्मका १ वा २ द्वितीय पंचम ५ सप्तम ७ नवम सूर्य होय तो पूजासे विवाह होता है अर्थात् पूजनीय है । यदि सूर्य ११ एकादश ३ तृतीय ६ छठे १० दशमें होय तो वरको अतिशुभ होता है ॥

अष्टमेद्वादशेवापिचतुर्थेवाबृहस्पतौ ।
 पूजातत्रनकर्तव्याविवाहेप्राणनाशकः ॥
 षष्ठेजन्मनिदेवेज्येतृतीयेदशमेपिवा ।
 भूरिपूजापूजितःस्यात्कन्यायाः शुभकारकः ॥
 एकादशेद्वितीयेवापंचमेसप्तमेपिवा ।
 नवमेचसुराचार्यःकन्यायाः शुभकारकः ॥

भा० टी०—बृहस्पति ८ । १२ । ४ । हो तो शुभ नहीं पूजा मत करो ॥
 यदि ६ । १ । ३ । १० । बृहस्पति हो तो बहुत पूजा करनेसे शुभ करता है । यदि बृहस्पति ११ । २ । ५ । ७ । ९ हो तो क-

(१६)

विवाहपद्धति भा० टी०

न्याको शुभ होता । इसी प्रकार चन्द्रमा १ । ४ । ६ । ८ । १२ स्थानमें शुभ नहीं विशेषकर इनको देखना योग्य है ॥

अथविवाहनक्षत्राणि ।

विश्वस्वातीवैष्णवपूर्वात्रयमैत्रैर्वस्वाग्नेयैर्वाकरपीडो
चितक्रक्षैः । वस्त्रालंकारादिसमेतैःफलपुष्पैस्सन्तो
ष्यादौस्यादनुकन्यावरणंहि ॥

भा० टी०—अब कन्याका वरण लिखते हैं ज्येष्ठा स्वाती श्रवण पूर्वात्रय अनुराधा धनिष्ठा कृत्तिका अथवा पाणिग्रहणोचित नक्षत्रोंमें फल पुष्प वस्त्रालंकारादिसे कन्याको संतुष्टकर पीछेसे वरण करे ॥

धरणिदेवोऽथवाकन्यकासोदरःशुभदिनेगीतवाद्या
दिभिःसंयुतः ॥ वरवृतिवस्त्रयज्ञोपवीतादिभिर्धु
वयुतैर्वह्निपूर्वात्रयैराचरेत् ॥

भा० टी०—अब बालकवरण लिखते हैं । ब्राह्मण वा कन्याका भ्राता भाई शुभ दिनमें गीतादिवाद्यसहित होय वस्त्रयज्ञोपवीतादिसे । उत्तराफाल्गुनी । उत्तराभाद्रपदा । उत्तराषाढा रोहिणी । कृत्तिका । पूर्वाफाल्गुनी । पूर्वाभाद्रपदा पूर्वाषाढा इन नक्षत्रोंमें वरका वरण करे । इस प्रकार वर वरण कर पीछेसे कन्याको वस्त्रालंकारादि श्वशुरगृहसे जो प्राप्त उससे पूर्वोक्त नक्षत्रोंमें वरण करना ॥

गुरुशुद्धिवशेनकन्यकानांसमवर्षेषुषडब्दकोपरिष्ठात् ।
रविशुद्धिवशाच्छुभोवराणामुभयोश्चंद्रविशुद्धितोविवाहः ॥

भा० टी०—बृहस्पतिजीकी शुद्धिसे कन्याका षट् ६ वर्षके ऊपर अष्टम ८ दशम १० समवर्षमें विवाह शुभ है ॥ और सूर्यकी शुद्धिद्वारा वरका विवाह श्रेष्ठ है और वर कन्या दोनोंका चन्द्रमाकी शुद्धिसे विवाह शुभ होता है, भावार्थ यह कि कन्याकी जन्मराशिसे गुरु और वरकी जन्मराशिसे सूर्य और दोनोंको चन्द्रमाकी शुद्धिसे श्रेष्ठ विवाह होता है, इसी आशयको काशीनाथजी कहते हैं ॥ (वरस्य भास्करबलं कन्यायाश्च गुरोर्बलम् । द्वयोश्चन्द्रबलं ग्राह्यं विवाहो नान्यथा भवेत्)

मिथुनकुम्भमृगालिवृषाजगेमिथुनगोपिखौत्रिलवेशु-
चिः ॥ अलिमृगाजगतेकरपीडनंभवतिकार्तिकपौ-
षमधुष्वपि ॥

भा० टी०—मिथुन, कुम्भ, मकर, वृश्चिक, वृष, मेष इन राशियोंमें सूर्य होय अथवा आषाढके १० दिन पर्यंत मिथुनराशिगत सूर्य वृश्चिक, मकर, मेषगत सूर्य होय तो कार्तिक, पौष चैत्रमें भी पाणिग्रहण शुभ है ॥

आद्यगर्भसुतकन्ययोद्रयोर्जन्ममासभतिथौकरग्रहः ।

नोचितोथसबुधैःप्रशस्यतेचेद्वितीयजनुषोस्सुतप्रदः ॥

भा० टी०—आद्यगर्भ प्रथमगर्भ अर्थात् ज्येष्ठ पुत्र वा कन्या होय तो उन दोनोंका जन्मके मासमें वा जन्म तिथिमें अथवा जन्म नक्षत्रमें पाणिग्रहण श्रेष्ठ नहीं यदि वह दोनों दूसरे गर्भके होंय तो जन्ममास तिथि नक्षत्रमें विवाह पुत्रके देनेवाला है ॥

(१८) विवाहपद्धति भा० टी०

ज्येष्ठद्वंद्वमध्यमसंप्रदिष्टं त्रिज्येष्ठं चैत्रैव युक्तं कदापि ॥
केचित्सूर्यवाह्निगंप्रोक्तमाहुर्नैवान्योन्यं ज्येष्ठयोः स्याद्विवाहः ॥

भा० टी०—ज्येष्ठ बालक ज्येष्ठकन्याका विवाह मध्यम होता है यदि ज्येष्ठका महीना (मास) ज्येष्ठ बालक ज्येष्ठाही कन्या यह तीन ज्येष्ठ किसी कालमें भी श्रेष्ठ नहीं अति निषिद्ध हैं । कई आचार्योंका यह मत है कि, जिसकालपर्यंत कृत्तिकामें सूर्य हो उतना काल ज्येष्ठमास निषिद्ध है ॥ परंतु सिद्धांतमत यही है वरकन्या ज्येष्ठोंका आपसमें विवाह श्रेष्ठ नहीं ॥

सुतपरिणयात्षण्मासान्तस्सुताकरपीडनं च निजकुले
तद्द्रामण्डनादपिसुण्डनम् ॥ न च सहजयोर्देये भ्रात्रोः स
होदरकन्यकेन सहजसुतोद्वाहोऽब्दार्धेशुभेन पितृक्रिया ॥

भा० टी०—पुत्रविवाहके अनंतर षण्मास ६ के बीचमें कन्या का विवाह शुभ नहीं ॥ इसप्रकार अपने कुलमें मंडन (विवाहकर्म) के पीछे मुंडन (चूडाकर्म) षट् ६ महीनेके अन्तर श्रेष्ठ नहीं और एक पिताके दो पुत्रोंको दो भ्राताकी कन्यासे सहोदर (सगे) भाइयोंका विवाह शुभ नहीं । यदि एक पिताकी दो कन्या होयँ तो एक पिताके दो पुत्रोंसे विवाहका दोष नहीं ॥ सहोदर शब्दका यह अर्थ है कि एक माताके गर्भसे जन्माहो और एक पितासे सपत्नीमें उत्पन्न भ्राता सहोदर नहीं कहाते ॥ प्रमाण (समानोदर्यसोदर्य सगर्भ्यास्तु सनाभयः । इत्यमरः) और बालक कन्याके विवाहके अनंतर षट् मास ६ पर्यंत पितृक्रिया श्राद्धादि शुभ नहीं हैं ॥

वध्वावरस्यापिकुलेत्रिपुरुषेनाशं व्रजेत्कश्चननिश्चयोत्तरम् ।
मासोत्तरंतत्रविवाहइष्यतेशान्त्याथवासूतकनिर्गमपरे ॥

भा० टी०—वधूवरके तीनपुरुषमें यदि निश्चयके अनंतर कोई नाशको प्राप्त होजाय एक मासके अनन्तर विवाह करे । अथवा कूष्मांड शांतिकर विवाह करे । कोई आचार्य सूतक पातककी निवृत्तिके अनंतर कहते हैं ॥ यदि कन्यादान होचुकाहो फिर सूतक पातक पड़े तो भोजनादि सर्व विवाहांग करनेका दोष नहीं ॥

चूडाव्रतंचापिविवाहतोव्रताचूडाचनेष्टापुरुषत्रयान्तरे ।

वधूप्रवेशाच्चसुताविनिर्गमः षण्मासतोवाब्दविभेदतःशुभः॥

भा० टी०—विवाहसे चूडाकर्म चूडाकर्मसे विवाह षण्मासके बीच श्रेष्ठ नहीं इसप्रकार वधूप्रवेशसे कन्याका निर्गम ६ षट् मासके अनंतर श्रेष्ठ नहीं । यदि वर्षका भेद होय तो दोष नहीं ॥ विवाहमें सूर्यसंक्रान्तिसे वर्षका भेद होता है ॥

अथविवाहमुहूर्तानि ।

निर्वेधैःशशिकरमूलमैत्रपिच्यब्राह्मांत्योत्तरपवनैः

शुभोविवाहः । रिक्ताऽमारहिततिथौशुभेद्विवैश्वप्र

त्यांघ्रिश्रुतितिथिभागतोऽभिजित्स्यात् ॥

भा० टी०—वेधरहित मृगशिर, हस्त, मूल, अनुराधा, मघा, रोहिणी, रेवती उत्तरात्रय ३ स्वाती यह नक्षत्र विवाहमें शुभ हैं ॥ चतुर्थी ४ नवमी ९ चतुर्दशी १४ अमावस ३० इनसे रहित तिथियाँ श्रेष्ठ हैं ॥ विवाहमें चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र यह वार शुभ होते हैं ॥ उत्तराषाढाका अंतका चरण श्रवणकी ४ घटी अभिजित् नक्षत्र होता है

(२०)

विवाहपद्धति भा० टी०

और राशि वर्ण योनि गण षडष्टक नवपंचक द्विद्वादश राशिनाडी चक्रवर्ग लत्तादिक दश १० दोष अवश्य विचारणे योग्य हैं इसलिये सारणी बनाकर सबकी समझमें आनेवाली अतिसुगम रीतिसे आगे लिखे हैं ॥

अथ राशिचक्रम् ।

मेष	वृष	सिंह	धन मकर	चतुष्पद
मिथुन	कन्या	तुला	कुंभ	नर द्विपद
मकर परादि	मीन	०	०	जलचर
वृश्चिक	कर्क	०	०	कीटसंज्ञक

पुरुषकी राशि स्त्रीकी राशिसे बली उचित है और सम्पूर्ण चतुष्पद द्विपदोंके वश्यहैं सिंहके विना जलचर भक्ष्य है सर्प विच्छृ भयदायक है ॥

अथ वर्ण चक्रम् ॥

मीन	वृश्चिक	कर्क	ब्राह्मण
मेष	सिंह	धन	क्षत्री
वृष	मकर	कन्या	वैश्य
मिथुन	कुंभ	तुला	शूद्र

वरस्यवर्णतोधिकवाच्युर्नश
स्यतेषुधैः । अर्थात्वरके वर्णसे
अधिक वधू श्रेष्ठ नहीं वरका
वर्ण कन्यासे अधिक श्रेष्ठ है ।

अथ योनिचक्रम् ।

अश्विनी	स्वा० हस्त	धनि. पृ भा	भरणी रेवती	पुष्य कृत्ति	श्रवण पृ षा	उ र्षा अभि	मृग रोहिणी	नक्षत्र
अश्वघोडा	महिष	सिंह	गज	लाग मठा	वानर	नकुल	सर्प	योनिः
ज्येष्ठा अनु.	मूला आर्द्रा	श्लेषा पुनर्व.	मघा पू फा	चित्रा विशा	उ फा उ भा			नक्षत्र
मृग अनयोर्वैरं	श्वान विला अनयोर्वैरं	चूहा अनयोर्वैरं	व्याघ्र अनयोर्वैरं	गौ अनयोर्वैरं	भैसा अनयोर्वैरं	अश्व अनयोर्वैरं		योनिःवैरं

वै वै वै वै

यह योनिचक्र विवाहमें सेव्यसेवक भावमें मैत्रीकार्यमें अवश्य विचारणा चाहिये.

अथ गणचक्रम् ।

म	श्ले	ध	ज्ये	मूला	शत	कृत्ति	चि	वि	राक्षस
पू फा	पृ षा	पृ भा	उ फा	उ षा	उ भा	रोहि	भर	आर्द्रा	मनुष्य
अनु	पुन	मृ	श्र	रेव	स्वा	ह	अश्वि	पुष्य	देवता

अपने गणके साथ परमप्रीति देवता मनुष्योंकी सम देवता राक्षसोंका युद्ध मनुष्य राक्षसकी मृत्यु गणोंकी आपसमें होती है ॥

अथ पडपृकचक्रम् ।

मे	वृष	मि	कर्क	सिं	क	पुरुषराशि	मृत्युः
क	तु	वृ	ध.	म	कुं	स्त्रीराशि	मृत्युः

अथ नवपंचकचक्रम् ॥

मे	वृ	मि	क	सिं	क	कुं	अन्योन्यपुरुषसंतानहानि
सिं	क	तु	वृ	ध	म	मिथु	स्त्री राशिकीकलि होतीहै

(२२)

विवाहपद्धति भा० टी०


अथ द्विर्द्वादशचक्रम् ।

●मे	वृ	मि	कर्क	सि	क	वृ	म	मी	दारिद्र्यं
वृ	मि	कर्क	सि	क	तु	ध	कुं	मे	दारिद्र्यं

मृत्युःषडष्टके ज्ञेयोऽपत्यहानिर्नवात्मजे ।

द्विर्द्वादशेनिर्धनत्वंद्वयोरन्यत्रसौख्यकृत् ॥

अथ नाडीचक्रम्.



दम्पत्योरेकनाड्यांपरिणयनमसन्मध्यनाड्यांहिमृत्युः । अर्थात् स्त्रीवरका एक नाडीमें स्थित नक्षत्रोंमें विवाह अशुभ होताहै और मध्यमें मृत्यु होतीहै ॥ इसलिये तृतीय नाडी शुभ है.

अथ वर्गचक्रम् ॥

गुरुड	विडाल	सिंह	श्वान	सर्प	मूषिक	मृग	भेडा-
अ ॥	क	च	ट	त	प	य	श
इ १	ख	छ	ठ	थ	फ	र	ष
उ ७	ग	ज	ड	द	ब	ल	स
ऋ ६	घ	झ	ढ	ध	भ	व	ह
लृ ६	ङ	भ	ण	न	म		

अपने वर्गमें परम प्रीति होती है और अपने वर्ग से पंचम वर्ग शत्रु होताहै और चतुर्थ मित्र और तृतीय उदासीन होताहै इनका फल वर्ग सदृश है.

प्रकरणम् १.

(२३)

अथ राशिस्वामिचक्रम् ।

मेः	वृ	मि	क	सि	क	तु	वृ	ध	म	कुं	मी	राशयः
मं	शु	बु	चं	सू	बु	शु	मं	वृ	श	श	वृ	स्वामिनः

अथ राशिचक्रम् ।

मे	वृ	मि	क	सि	क	तु	वृ	ध	म	कुं	मी
चु	इ	का	हि	म	टो	रा	तो	ये	भोजू	गु	दि
चे	उ	कि	हु	मि	प	रि	न	यो	जजे	गे	दु
चो	ए	कु	हे	मु	पि	रु	नि	भ	जिजो	गो	थ
ला	ओ	व	हो	मे	पु	रे	नु	भि	खिख	स	झ
लि	वा	ड	डा	मो	ष	रो	ने	भू	खू	सि	ज
लु	वि	छ	डि	टा	ण	ता	नो	ध	खे	सु	दे
ले	बु	के	डु	टि	ठ	ति	या	फा	खो	से	दो
लो	वे	को	डे	टु	पे	तु	यि	ठा	ग	सो	च
अ	वो	हा	डो	टे	पो	ते	यु	भे	मि	इ	धि

अथ लक्षाक्षरम् ।

सूर्य	चंद्र	मंगल	बुध	वृ	शुक्र	शान	रा	विवाहनक्षत्र
पू. षा	पू भा	भर	मघा	उ भा	पुष्य	शत	उ फा	रोहि
उषा	उ भा	कृ	पू फा	रेवती	श्ले	पू भा	ड	मृगशिरा
उ भा	रो	पुष्य	वि	मृ	च	कृ	ज्ये	दवा
अश्विनी	आर्द्रा	मघा	ज्येष्ठा	पुन	वि	मृ	पू षा	उत्तराफा
भरणी	पुष्य	पू फा	मूल	पु	अनु	आ	उ षा	हस्त
रो	श्ले	ह	उ षा	म	मृ	पुष्य	ध	रवाती
आ	पू फा	स्वा	ध	उ फा	उ षा	म	पू भा	उत्तराभा
पुष्य	ह	अनु	पू भा	चि	धनि	उ फा	रे	मूल
म	स्वा	मृ	रे	वि	पू भा	चि	भ	उत्तराषाढा
स्वा	प षा	श	मृ	उ षा	कृ	मृ	पु	उत्तराभा द्वपदा
वि	उ भा	पू भा	आ	श्र	रो	पू षा	पुष्य	रेवती

(२४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

यह लतादोष विवाहादि शुभकार्योंमें वर्जित है। विशेषकर मालव देशमें अवश्य वर्जनीय है ॥

अथ पातदोषचक्रम् ।

वैधृति	हर्षण	व्यतीपात	शूल	गंड	योगानाम्
--------	-------	----------	-----	-----	----------

अन्ते विवाहनक्षत्रं यथा गंड योग १ ५घटी रेवती ३० वा २५ घटी पातेन पतितं नक्षत्रं विवाहे वर्ज्यं कुरुजांगलदेशे अवश्यं वर्ज्यम् ॥

अथ युतिदोषचक्रम् ।

चं. सू.	चं. मं.	चं. बु.	चं. वृ.	चं. शु.	चं. श.	चं. रा.	युति
दारिद्र्यं	मरणं	शुभं	सौख्यं	सापत्न्यं वैराग्यं	मृतिः	मृतिः	फलं

अथ वेधचक्रम् ।

रो.	मृ.	म.	उ.फा.	ह.	स्वा.	ऽनु.	मृ.	उ.पा.	उ.भा.	रेव.	विवाह न.
ऽभि.	उ.पा.	श्र.	र.	उ.भा.	श.	भ.	पृ.	मृ.	ह.	उ.फा.	सूर्यादयः

अथ चरणवेधचक्रम् ।

प्र.	प्र.	प्र.	प्र.	नक्षत्रं प्रथम पादमें ग्रहको विवाह नक्षत्रं चतुर्थ
४	१	२	३	पादका वेध है विवाहमें सर्व देशमें वेधवर्ज्य है अत्याव-
१	४	३	२	श्यकमें चरणवेध वर्जनीय है ।

अथ यामित्रनक्षत्रचक्रम् ।

रो.	मृ.	म.	उ.फा.	ह.	स्वा.	ऽनु.	मृ.	उ.पा.	उ.भा.	रे.	वि.न
ऽनु.	ज्ये.	ध.	पृ.भा	उभा	ऽश्वि	कृ.	मृ.	पु.	उ.फा.	ह.	ग्रहा

लग्नेसे चंद्रमामे सप्तम ग्रह यामित्रकारक होताहै अथवा लग्न नवांशमें वा चंद्रराशिस्थ नवांशसे पंचपंचाशत ५५ नवमांशमें जो ग्रह होय वह यामित्रकारक होताहै शुभ नहीं होताहै ॥

अथ बुधपंचकचक्रम् ।

८.	२.	४.	६.	१.	अंक.
रोग.	वह्नि.	राजा.	चोर.	मृत्यु.	बाण.

शुक्र प्रतिपदासे गततिथि लग्नेसे युक्तकर नौसे भागले शेष रहा अंक बाण जानना । यह दक्षिण देशमें निषिद्ध है.

अथ सर्वदेशे बुधपंचकम् ।

रोग	वह्नि	राजा	चोर	मृत्यु	बाण: ५ दिने
०८	०२	०४	०६	०१	सूर्यसंक्रांतिमें इन दिनोंमें बाण है ॥
१७	११	१३	१५	१०	
२६	२०	२२	२५	१९	
	२४	३१		२८	
सूर्य	भौम	शनि	मंगल	बुध	इन दिनोंमें
व्रतमें	गृह गोपनमें	नृप सेवा	यात्रामें	विवाहमें	इनका याम वर्जितहै।
रात्रिमें	दिनमें	दिनमें	रात्रिमें	संध्यामें	

एकार्गलचक्रम् ।

व्या.	गंड	व्यति.	वि०	शूल.	वैश्रुति.	वज्र.	परि.	ऽतिगं.
यदि सूर्य नक्षत्रसे विवाहनक्षत्रे विषम अभिजित् सहित स्थित हो तो एकार्गल योग कुम्बवाल्हीक देशमें वर्जित है ।								


अथोपग्रहः ।

५	८	१०	१४	७	१९	१५	१८	२१	२२	२३	२४	२५
यदि सूर्य नक्षत्रसे इन अंकोंमें विवाहनक्षत्र होय तो उपग्रह दोष होता है ॥												

(२६)

विवाहपद्धति भा० टी० ।

(अथ क्रांतिसाम्यम्)



अर्थात् चंद्रमा सूर्य अन्योन्य नक्षत्रगत होय सन्मुख स्थित होय तो क्रांतिसाम्य दोष होताहै विवाहमें शुभ नहीं होता ॥

(अथ दग्धा तिथि)

मीन. चैत्र.	वृष. ज्येष्ठ.	मेष. वैशाख.	कन्या. आश्विन.	वृश्चि. मार्गशी.	मकर. माघ.	मासोंमें
२		६	८	१०	१२	दग्धा तिथि
घन. पौष.	कुंभ. फाल्गुन.	कर्क. श्रावण.	मिथु. आषाढ.	सिंह. भाद्रप.	तुला. कार्तिक.	मासोंमें
२	४	६	८	१०	१२	दग्धा तिथि

यह शुभ कर्मोंमें दग्धातिथि वर्जित हैं ॥

(अथ दशयोगाः)

सूर्य चंद्र नक्षत्र योगः २७ शेषः ॥									
००	०१	४	६	१०	११	१५	१८	१९	२०
वात	ऽध्र	ऽग्नि	नृप	चौर	मृति	रोग	वज्र	वाद	क्षिति

यथा सूर्यर्क्ष श्रवण २२ चंद्रर्क्ष धनिष्ठा २३ अनयोर्योगः ४५
भशेषः २७ सप्तविंशतितष्टः १८ वज्रपातयोगः ॥

(अथ पंग्वंधकाणलग्नानि)

मे	वृ	मि	ककं	सिं	क	तू	वृ	ध	म	कुं	मी
अंध	अंध	अंध	अंध	अंध	अंध	बधिर	बधि	बधिर	बधिर	पंगु	पंगु
दिन	दिन	रात्रि	रात्रि	दिन	रात्रि	अप	अप	अप	संध्या	सं०	सं०
में	में	में	में	में	में	राहं	राहं	राहं	में		●

यह गौड मालव देशमें त्याज्य है अथवा गुरुदृष्टिसे किसी स्थानमेंभी दोष नहीं है ॥

(अथ ग्रहनैसर्गिकमैत्रीचक्रम्)

सूर्य	चंद्रमा	मंगल	बुध	बृहस्पति	शुक्र	शनि	ग्रहाः
मं० वृ०	सूर्य	चं० वृ०	सूर्य	सूर्य	बुध	शुक्र	सिं
चं०	बुध	सूर्य	शुक्र	मं० चं०	शनि	बुध	सिं
बु	वृ०शु०	शुक्र	मं० शं०	शनि	मंगल	बृहस्पति	सिं
	शं० मं०	शनि	सूर्य		बृहस्पति		सिं
शुक्र		बुध	चंद्रमा	शुक्र	सूर्य	मं०चं०	सिं
शनि				बुध	चं०	मंगल	सिं

प्रोक्तेदुष्टभकूटकेपरिणयस्त्वेकाधिपत्येशुभो-
ऽथोराशीश्वरसौहृदेपिगदितोनाडयक्षशुद्धिर्यादि ॥
अन्यक्षैशपयोर्बलित्वसखितेनाडयक्षशुद्धौतथा
ताराशुद्धिवशेनराशिवशतांभावेनिरुक्तोबुधैः ॥

भा० टी०—दुष्टभकूटमेंभी विवाह शुभ होताहै यदि दोनों रा-
शिका स्वामि एक हो अथवा दोनोंकी आपसमें मैत्री होय ।

(२८)

विवाहपद्धति भा० टी०

(अथ लग्नशुद्धिमाह)

कार्मुकतौलिककन्यागुग्मलवेज्ञषगेवा ॥ यर्हिभवेदुप
यामस्तर्हिसतीखलुकन्या ॥ व्ययेशनिःखेऽवनिजस्तृ
तीयेभृगुस्तनौचंद्रखलानशस्ताः ॥ लग्नेट्कविग्लौश्च
रिपौमृतौग्लौर्लग्नेट् शुभाराश्चमदे च सर्वे ॥ स्यायाष्ट
पट्सुरविकेतुतमोर्केकुत्रारुयायारिगः क्षितिसुतोद्विगु
णायगोब्जः ॥ सप्तव्ययाष्टरहितौज्ञगुरू सितोष्टत्रि
द्वूनषड्व्ययगृहान्परिहृत्यशस्तः ॥ त्याज्यालग्नेब्ध
योमन्दात्पष्टेऽशुक्रेंदुलग्नपाः ॥ रंध्रेचंद्रादयः पंचसर्वे
स्तेऽब्जगुरू समौ ॥

भा०टी०—यन तुला कन्या मिथुन मीन इन लग्नोंमें वा इनके
नवमांशमें विवाह होवे तो कन्या मती होती है । और चरलग्नका
नवांश न होवे तुला मकरमें चंद्रमा होवे तब चरलग्न भी शुभ है ॥
और लग्ने द्वादश १२ स्थानमें शनि दशमें १० मंगल तृतीय ३
शुक्र लग्नेमें १ चंद्रमा मंगल शनि सूर्य शुभ नहीं होते हैं ॥ पष्ट
६ स्थानमें लग्नेश शुक्र चंद्रमा शुभ नहीं ॥ और अष्टम ८
स्थानमें चंद्रमा लग्नेश बुध बृहस्पति शुक्र मंगल शुभ नहीं है और
सप्तम ७ स्थानमें संपूर्णग्रह शुभ नहीं होते हैं । अन्यच्च तृतीय ३
एकादश ११ अष्टम ८ पष्ट ६ स्थानमें सूर्य केतु राहु शनि श्रेष्ठ है
और तृतीय ३ एकादश ११ पष्ट ६ स्थानमें मंगल शुभ है और
द्वितीय २ तृतीय ३ एकादश ११ स्थानमें मंगल शुभ है ७ । १२
। ८ । ३ । ६ । इन स्थानके विना और स्थान बुध गुरु शुक्र शुभ
हैं ॥ अन्यच्च ॥ लग्नेमें शनि सूर्य चंद्र मंगल यह न होय और

षष्ठ स्थानमें शुक्र चन्द्रमा लग्नेश न होय और अष्टम स्थानमें चन्द्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र न होय । सप्तम स्थानमें कोई भी ग्रह न होय अर्थात् शुद्ध होवे तो शुभ हैं कई आचार्य सप्तम स्थानमें चन्द्रमा बृहस्पतिको सप्त कहते हैं ॥

(कर्तरीदोषमाह)

लग्नात्पापावृज्वनृजूरिष्फान्तस्थैयदातदा ॥

कर्तरीनामसाज्ञेयामृत्युदारिद्र्यशोकदा ॥

भा० टी०—लग्नेसे द्वितीयस्थानमें वक्रीग्रह और द्वादश १२ स्थानमें मार्गी ग्रह होय तो कर्तरीदोष होताहै ॥ शुभ नहीं ॥

(पुष्टिमाह)

त्रिकोणेकेद्रेवामदनरहितेदोषशतकंहरेत्सौम्यः शुक्रो

द्विगुणमपिलक्षंसुरगुरुः ॥ भवेदायेकेन्द्रेंगपउतलवे

शोयदितदासमूहंदोषाणांदहनइहतूलंशमयति ॥

भा० टी०—विवाहलग्ने नवम पञ्चम प्रथम चतुर्थ दशम यदि बुध होय तो शत १०० दोषका नाश करताहै यदि शुक्र होय तो द्विगुणशत २०० दोषका नाश करताहै बृहस्पति जो होय तो लक्ष १००००० दोषका नाश करताहै यदि एकादश ११ चतुर्थ सप्तम लग्न दशम स्थानमें यदि लग्नेश ऊननवमांशेश होय तो दोषोंके समूहको जैसे अग्नि तूलके पुंजको क्षणभरमें नाश करताहै तद्वत् नाश करता है ॥

(अथ संकीर्णजातीनां विवाहः)

कृष्णेपक्षेसौरिकुजाकेपिचवारेवज्येनक्षत्रेयदिवा

(३०) विवाहपद्धति भा० टी०

स्यात्करपीडा । संकीर्णानां तर्हि शतायुःखलुलाभः
प्रीतिप्राप्तिः सा भवतीह स्थितिरेषा ॥

भा० टी—रुष्णपक्षमें शनैश्चर मंगल सूर्य वारमें और विवा-
हमें बर्जित नक्षत्रोंमें यदि संकीर्ण शबर किरात निषाद भिष्ट पुलिंद
म्लेच्छ यवन प्रभृतियोंका विवाह होय तो आयु सुत प्रीतिका
लाभदायक होता है ॥

(अथ गोधूलीलग्नमाह)

पिण्डीभूते दिनकृतिहेमन्तर्तौ स्यादर्धास्ते तपसम
ये गोधूलिः । संपूर्णास्ते जलधरमालाकाले त्रेधा यो
ज्यासकलशुभे कार्य्यादौ ॥

भा० टी०—जब नक्षत्रादिक शुद्धि न होय तब गोधूली समय
सर्वकार्यमें शुभ होता है जैसे मार्गशिर पौषमें जब पिंडाकार
मर्य होय तो गोधूली समय होता है (फाल्गुनमाघमें भी इसी
प्रकार) और (चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढमें) अर्द्ध सूर्य जब होय
तब गोधूली समय होता है ॥ और श्रावण भाद्रपद (आश्विन
कार्तिकमें) संपूर्ण सूर्य अस्त होनेपर गोधूली समय होता है यह
सर्व कार्य्यमें श्रेष्ठ है ॥

(अथ वधूप्रवेशः)

समाद्रिपंचांकदिने विवाहाद्रधूप्रवेशोष्टिदिनांतराले ।

शुभः परस्ताद्रिषमाब्दमासदिने क्षवर्षात्परतोयथेष्टम् ॥

भा० टी—विवाहदिनसे । २ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९

१० । १२ । १४ । १६ । दिनमें इसके ऊपर विषम वर्षमें वा मासमें विवाह दिनसे ५ पंचवर्ष उपरांत यथेच्छ प्रवेश करे ॥

ध्रुवक्षिप्रमृदुश्रोत्रवसुमूलमघानिले । वधूप्रवेशःसन्नेष्टो
रिक्तारार्केबुधेपरैः ॥

भा० टी०—हस्त अश्विनी पुष्य अभिजित् उत्तरात्रय रोहिणी मृगशिर चित्रा अनुराधा श्रवण धनिष्ठा मूल मघा स्वाती इन नक्षत्रोंमें वधूप्रवेश श्रेष्ठ है और चतुर्थी ४ नवमी ९ चतुर्दशी १४ यह तिथि न होय और मंगल सूर्य बुध इन वारोंके विना वधूप्रवेश शुभ है ॥

(अथ द्विरागमनमुहूर्तः)

चरेदथौजहायनेघटालिमेषगेरवौरवीज्यशुद्धियोगतः
शुभग्रहस्यवासरे ॥ नृयुग्ममीनकन्यकातुलावृषेवि
लग्नगेद्विरागमंलगुध्रुवेचरेस्त्रपेमृदूडुभिः ॥

भा० टी०—विवाहकालसे विषमवर्ष अथवा विषममास कुंभ वृश्चिक मेषगत सूर्य होय और मिथुन कन्या तुला मीन वृष यह लग्न होय और सूर्य बृहस्पति शुद्ध होय शुक्र बृहस्पति चंद्र बुध इन दिनोमें और हस्त अश्विनी पुष्य अभिजित् उत्तरात्रय स्वाती पुनर्वसु श्रवण धनिष्ठा शतभिषा मूल मृगशिर रेवती चित्रा अनुराधा इन नक्षत्रोंमें द्विरागमन शुभ होताहै ॥

अथ स्त्रीणां भूषणघटनमुहूर्तः ॥

त्रिपुष्करदिनमें स्वाति पुनर्वसु श्रवण धनि०शत०हस्त अश्विनी पुष्य अभिजित् उत्तरा ३ रोहिणी यह नक्षत्र होवै ४ । १४ । ९

(३२)

विवाहपद्धति भा टी० ।

तिथिविना मंगलवारविना वार तिथि शुभ है ॥ त्रिपुष्कर योग २।
७ । १२ तिथिमें शनि मंगल सूर्यवारोंमें विशाखा उ० फा०
पुन० ऋ० पूर्वाभा० उत्तराषाढा नक्षत्र हों ॥ इन तीनोंसे त्रिपुष्कर
योग होता है ॥

अथ कर्णवेधः कन्यानां नासिकावेधः ।

६।७।८मासमें विषमवर्षमें चतुर्मास विना श्र०ध० पुष्य मू०रे०
चि० अनु० ह० अश्वि० पुन० अभि० इन नक्षत्रोंमें ॥ शुभ वा-
रोंमें ॥ जन्मका मास रिक्ता तिथि अवमतिथि जन्मताराके विना
अष्टम शुद्ध हो । १ । ४ । ७ । १० । १३ । १६ । इनमें शुभ ग्रह
हो । ६ । ११ । ३पार्षा हो । २ । ७ । ९ । १२ लग्नमें बृहस्पति
हो तो कर्णके वेधमें श्रेष्ठ है ॥ नासिकावेधने विशेष उत्त० ३
श० स्वा० शुक्लपक्ष पूर्वाह्न चं० बु० वृ० शु० वार शुभ होते हैं ॥
नत्थनीभी उक्त मुहूर्तमें पावे ॥

(अथ शुक्रविचारमाह)

दैत्येज्योह्यभिमुखदक्षिणेयादिस्याद्गच्छेयुर्नाहिशिशु
गर्भिणीनवोढा ॥ बालश्चेद्भ्रजतिविपद्यतेनवोढाचेद्भ्रं
ध्याभवतिचगर्भिणीत्वगर्भा ॥

भा० टी०—यदि शुक्र जीव मन्मुख वा दक्षिण भागमें स्थित
होय तब बालक गर्भिणी नवीन युवती यह तीनों न जाय यदि
बालक यात्रा करे तो मृत्युको प्राप्त होता है और यदि गर्भवती स्त्री
जाय तो गर्भरहित होती है अर्थात् गर्भ स्रवजाता है और यदि
नवीन युवती यात्रा करे तो वंध्य होजाती है ॥ और वामांग पृष्ठमें
शुक्र यात्रामें श्रेष्ठ होता है ॥

(अथापवादमाह.)


नगरप्रवेशविषयाद्युपद्रवेकरपीडनेविवुधतीर्थयात्र-
योः ॥ नृपपीडने नववधूप्रवेशने प्रतिभार्गवो भव
तिदोषकृन्न हि ॥ पित्र्ये गृहे चेत्कुचपुष्पसंभवः
स्त्रीणां न दोषः प्रतिशुक्रसंभवः ॥ भृग्वंगिरोत्सव
शिष्टकश्यपात्रीणां भरद्वाजमुनेः कुले तथा ॥
इति श्रीद्वैवज्ञानंतरामसुतविरचिते मुहूर्तचिंताम-
णौ विवाहप्रकरणं समाप्तम् ॥ १ ॥

भा० टी०—अपने नगरमें एहगृहमें द्वितीयगृहमें प्रवेश करना
होवे अथवा देशभंग वा राजभंग होय और विवाहमें अर्थात्
विवाहको मुख्य रख यात्रामें और देवयात्रा पंचक्रोशी आदि
तीर्थयात्रा गंगादि और नवीन वधूके आगमनमें सन्मुख शुक्र
दोषकारक नहीं होता प्रमाणभी जैसे बादरायणका (स्वभवनपुर
प्रवेश देशानां विभ्रमे तथोद्वाह । नूतनवध्वागमने प्रतिशुक्रविचारणं
नास्ति ॥ एकग्रामे पुरे वापि द्वाभिक्षे राजविषुवे । विवाहे तीर्थ-
यात्रायां प्रतिशुक्रो न दुष्यति) और कई आचार्य दीपमालाके अनं-
तर प्रतिपदमें आगमनसे शुक्रका सन्मुख दक्षिण दोष नहीं कहते
॥ प्रमाण (अस्तंगते गुरौ शुक्रे सिंहस्थे वा बृहस्पतौ ॥ दीपो-
त्सवदिने चैव कन्या भर्तृगृहं विशेत्) यदि कन्याके पितृगृहमें
कुच पुष्पका संभव हो अनंतर विवाहकरनेसे शुक्रका दोष नहीं
होता, प्रमाण चंडेश्वरका पित्र्यागारे कुचकुसुमयोःसंभवो वा यदि

(३४) विवाहपद्धति भा० टी० ।


स्यात्पत्युः शुद्धिर्न भवति रवेः संमुखो वाथ शुक्रः । तूले लग्ने
गुणवति तिथौ चंद्रताराविशुद्धौ स्त्रीणां यात्रा भवति सफला सेवितुं
स्वामिसद्य) और भृगु, अंगिरा, वत्स, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि
और भरद्वाज इनके कुलमेंभी शुक्रकृत दोष नहीं होता ॥
इति श्रीगौतमगोत्र (शोरि) अन्वयालंकारश्रीदैवज्ञदुर्निचन्द्रात्मज-
कर्पूरस्थलनिवासिपण्डितविष्णुदत्तवैदिकसंगृहीतविवाहमुहूर्ततत्कृत-
टीकासमाप्तिमगात् ॥ समाप्तमिदं प्रथमं प्रकरणम् । शुभमस्तु
कुलदेव्याः प्रसादात् ॥

अथ नवग्रहस्थानमण्डपतिलकमण्डपकुण्डयज्ञपात्र
सर्वतोभद्रादिचित्राणि—




अथ तिलकनाम मण्डल चित्रम्.

१६ माता



अथ पंचाग्निकुंड चित्रम्.



आहवनीयकुण्ड १ आवसथ्यकुं. २ सभ्यकुण्डम् ३ गार्हपत्यकुण्डं ४
दक्षिणाग्निकुण्डमिति ५ ब्रह्मासनं. यजमानासनम्.

आज्यस्थाली १




अथ पात्राणामाकृतयः

चरुस्थाली २












प्रणीता पात्र ३



पुरोडाश पात्र ४

























सुव ५	उपभृतसुक ६	ध्रुवासुक ७
		<p>शमीय-आत्मपरावर्तक</p>  <p>रञ्ज-राशमसाराहता</p>
पुष्करसुक ८	अग्निहोत्रहवनी ९	वैकङ्कतसुव १०
		
उलूखलं ११	मुसलं १२	शूर्पम् १३
		

शम्भाप्रदेशमागीस्यात्वादिः स्फ्यः प्रकीर्तितः
खड्गाकारोऽराल्लिमानोवन्नरूपोमवेस्मत्तः


द्वितीय प्रकरणम्.

३९


१४ शम्भा	१५ स्फ्यः	शृतावदानं १६	उपवेशः १७
			
कूर्चं १८	१९ दृषत्	२० उपल	२१ षडूर्त
			
२२ अग्नि	२३ अरणि	२४ उत्तराणि	२५ मोविली.
			

२६ प्रमन्थः		२७ नेत्रम्.	
			
२८ अंतर्धानकटः	२९ हविर्धानपात्रीः	३० प्राशिन्नहरणं	३१ चमसाः
			
३२ इडापात्री	३३ यजमानासनं	३४ पत्न्यासनं	३५ होत्रासनं
			


३६ ब्रह्मासनम्-




३७ यजमानस्यपात्री-




३८ पत्नीपात्री-



३९ कृष्णाजिनम्-



सर्वतोभद्र.



नां दीमुखश्राद्ध विवाहके प्रथम करना चाहिये ॥ नां दीश्राद्धश्राद्ध
विवेक वा अन्य ग्रंथान्तरसे देखलें.

यज्ञपात्राणि कात्यायनसूत्रे—ऋचो यजूषि सामा
निनिगदामन्त्रास्तेषांवाक्यं निराकाङ्क्षं मिथः स
म्बंध—वैकङ्कतानिपात्राणिखादिरःस्रुवः स्फ्यश्चपाला
शीजुहूराश्वत्थ्युपभृद्धारणान्यहोमसंयुक्तानि बाहुमा
त्र्यःस्रुचः पाणिमात्रपुष्करास्त्वग्वलाहसमुखप्रसेका
मूलदण्डाभवन्त्यग्निमात्रः स्रुवोऽगुष्ठपर्ववृत्तपुष्करः
स्फ्योऽस्याराकृतिरादर्शाकृतिः प्राशित्रहरणंचमसा
कृति वा चात्वालोत्करावस्तरेणसञ्चरःप्रणीतोत्क
राविष्टिषु ॥ ३ ॥ विस्तरस्तुतत्रैववासंस्कारभाष्ये
द्रष्टव्यः ॥ विस्तरभयान्नलिखितम् ॥ विवाहप्रकरणे
येषांप्रयोजनतेषांप्रमाणपुं० ३३ आरभ्य ४० पर्यन्तं
पत्रोपरिलिखितमन्यान्यादर्शमात्राणि ॥ ॥ इति श्री
दैवज्ञदुनिचंद्रात्मजविष्णुदत्तसंगृहीतं गृहमण्डपपात्र
चिह्ननामप्रकरणंद्वितीयसमाप्तम् ॥ शुभम् ॥ श्रीः ॥

(अथ विनियोगवर्णनम्)

व्याख्यालिख्यते ॥ विदित होकि आगामि सर्वमंत्रोंके साथ
विनियोग दिखाया जावेगा इसलिये प्रथम विनियोग की पृष्टि करते
हैं कि विनियोग उसको कहते हैं कि ऋषि छंद देवताओंका स्वर
कर्ममें योजन करना अर्थात् इस मन्त्रका यह ऋषि और यह
देवता अमुक छंद इनके यथार्थज्ञानको विनियोग कहते हैं और
विना विनियोगके मंत्रसिद्धिको प्राप्त नहीं होता इसकारणसे वि-

(४४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

नियोगकी आवश्यकता है ऋषि किनको कहते हैं—(ब्रह्मारो ऋषयः)
अर्थ—मंत्रद्रष्टा ऋषि होते हैं जैसे इस मंत्रका गौतम ऋषि वा भर-
द्वाज वा आङ्गिरस इत्यादि ऋषि हैं वहाँ समझना कि यह मंत्र
इस ऋषिको अपने तपोबलसे प्रत्यक्ष स्मरण भया उसको निश्चय
गुरुसे किया था फिर वही मंत्र वेदसे सदृश मिलनेसे वह ऋषि उस
मंत्रका भया कि इसने प्रथम मालूम किया ॥ १ ॥ और देवता
उनको कहते हैं (स्मर्तारः परमेष्ठ्यादयः) अर्थात् जैसे ब्रह्माने
अमुक वेदका स्मरण किया विष्णुने अमुक स्मरण किया इसप्रकार
रुद्र, इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रादि जिन २ मंत्रोंको स्मरण करतेभये वह
उन २ के देवता भये ॥ २ ॥ अब छन्द लिखते हैं (छन्दांसि गाय-
त्रीप्रभृतीनि) अर्थात् गायत्रीसे आदिलेकर मंत्रोंके छन्द होते हैं
अब छन्दोंको यथावत् लिखते हैं कि जो वेदमंत्रोंके हैं । उक्ता १
अत्युक्ता २ मध्या ३ प्रतिष्ठा ४ सुप्रतिष्ठा ५ गायत्री ६ उष्णिक् ७
अनुष्टुप् ८ बृहती ९ पंक्ति १० त्रिष्टुप् ११ जगती १२ अतिज-
गती १३ शकरी १४ अतिशकरी १५ अष्टि १६ अत्याष्टि १७
घृति १८ अतिघृति १९ प्रकृति २० आकृति २१ विद्धति २२
संक्रति २३ अभिकृति २४ उत्कृति २५ यह छन्दसंख्या है ॥

अथ गायत्र्यादिछन्दोभेदाः ॥

छन्दः	गायत्री	उष्णि	अनुष्टुप्	बृहती	पंक्ति	त्रिष्टुप्	जगती
१ आषी	२४	२८	३२	३६	४०	४४	४८
२ देवी	१	२	३	४	५	६	७
३ आसुरी	१५	१४	१३	१२	११	१०	९
४ प्राजापत्या	८	१२	१६	२०	२४	२८	३२
५ याजुषी	६	७	८	९	१०	११	१२
६ सामी	१२	१४	१६	१८	२०	२२	२४
७ आर्ची	१८	२१	२४	२७	३०	३३	३६
८ ब्राह्मी	३६	४२	४८	५४	६०	६६	७२

इसप्रकार सम्पूर्णछन्दोंके अनेकभेद हैं विस्तारके भयसे लिखते नहीं । एक गायत्री छन्द उदाहरण मात्र दिखलादिया ह जिनमहाशायोंको और भेद देखनेकी इच्छाहो वह सभाष्य पिंगलसूत्र छंदशास्त्रसे देखलेवें ॥ श्रीः ॥ इति श्रीदैवज्ञदुनिचंद्रात्मजपण्डितविष्णुदत्तकृतऋषिछंदोदेवतावर्णनं नाम द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम् ॥

इति द्वितीयं प्रकरणम् ।

(४६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ॐस्वस्तिश्रीगणेशायनमः॥श्रीगुरुवेनमः ॥ अथ
कात्यायनीयशान्तिप्रयोगः ॥ आदौगणपतिंवंदे
विघ्ननाशंविनायकम् ॥ ऋषींश्चदेवजननींग्रहस्था
पनमारभे ॥ १ ॥

भा० टी०—श्रीगुरुचरणसरोजं नत्वा गणपादिदेवांश्च ॥ कात्या-
यनकृतशान्तेः कुर्वेनुर्भाषयार्त्तिकाम् ॥ १ ॥ काव्यकलापेकुशला यद्यपि
सन्त्यत्र सर्वभूदेवाः ॥ सर्वजनसुखान्निहेतोःक्रियते त्वेषाहि विष्णुदत्तेन ॥
॥ २ ॥ श्रीविघ्नविनाशक विनायक गणपतिजीको तथा ऋषियों
को देवजननी दुर्गाजी अथवा अदितीजीको वंदन कर प्रथम ग्रहोंकी
यथावत् स्थितिका प्रारंभ करते हैं । देवजननी इस शब्दसे लक्षण-
द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि और ब्रह्मविद्याका ग्रहण होता है ॥

मण्डलंचततः कृत्वा सर्वतोभद्रमेवच ॥ व्रतोपनयने
चूडायां च शांतिरुदाहृता ॥ २ ॥ विवाहादौलिखेन्नित्यंति
लकं नाममण्डलम् ॥ द्वादशांगुलमध्यस्थं वर्तुलाष्टदलं
विम् ॥ ३ ॥ चतुर्विंशतिराग्नेय्यांचन्द्रमर्द्धलिखेत्तथा ॥
त्रिकूटंभूसुतंचैवदक्षिणेचतुरंगुलम् ॥ ४ ॥ धनुराका
रंनवांगुल्यमीशानेचबुधंतथा ॥ उत्तरेचगुरुः स्थाप्यः
पद्माकारो नवांगुलः ॥ ५ ॥ पूर्वसंस्थापयेच्छुक्रं चतु
ष्कोणं नवांगुलम् । खड्गाकृतिंनवांगुल्यं प्रतीच्यांशानिमे
वच ॥ ६ ॥ राहुंसंस्थाप्यनैर्ऋत्यांमत्स्याकारंनवांगुलम् ॥
केतुंदीर्घयथाराहुंवायव्यांदिशिसंस्थितम् ॥ ७ ॥ स्व

स्वदिक्षुग्रहाःस्थाप्याःसंख्या रेखा भवेद्भुवम् ॥ भा
स्करांगारकौरक्तौ श्वेतौशुक्रनिशाकरौ ॥ ८ ॥ सो
मपुत्रोगुरुश्चैवउभौतौपीतकौस्मृतौ ॥ कृष्णवर्णोभ
वेत्सौरैराहुकेतूचधूम्रकौ ॥ ९ ॥ ब्रह्माविष्णुश्चरुद्रश्च
उत्तरेचतथाऽनलः ॥ इंद्रोवायुर्भवेत्पूर्वेसर्प्यकालौच
दक्षिणे ॥ १० ॥ ऐशान्यांकलशं स्थाप्य ओंकारादीं-
श्चसर्वशः ॥ मातरश्चोत्तरेस्थाप्याआग्नेय्यायोगिनीं
न्यसेत् ॥ कनिष्ठिकाप्रमाणेनरेखाः कार्याः प्रयत्न
तः ॥ ११ ॥ स्थूलाः सूक्ष्मानकर्तव्यायदीच्छेच्छे
य आत्मनः ॥ १२ ॥ इतिग्रहस्थापनम् ॥

भा० टी०--व्रतमें उपनयन चूडाकर्म तथा जहाँ शांतिहो वहाँ
सर्वतोभद्र मण्डल रचना चाहिये, विवाहमें तिलकनाम मण्डल
लिखे । यह मंडलका चित्र पीछे लिखा है इस लिये अर्थ सुगम
होनेसे लिखते नहीं ॥ तथापि सूर्य मंगल यह रक्तवर्णसे लिखे,
बुध गुरु पीतवर्णसे, शुक्र चंद्र श्वेत और कृष्णवर्णसे शनि राहु केतु
धूम्रवर्णसे लिखे व यदि कल्याणकी इच्छा होतो न अति सूक्ष्म और
न स्थल लिखे ॥

इति नवग्रहस्थापनविधानम् ॥

अथ स्वस्तिवाचनम् ।

हरिःॐ शुक्लयजुर्वेदअध्याय २५ कं० मन्त्र १९ ॥

स्वस्तिनुऽइन्द्रोवृद्धश्श्रवांस्वस्तिनःपु

(४८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

षाविश्ववेदाः । स्वस्तिनस्ताकक्ष्योऽअ
रिष्टनेमिःस्वस्तिनोबृहस्पतिर्दधातु ॥ १ ॥

यजु० अध्याय ३५ ॥ मंत्र ३६ ॥

पर्यःपृथिव्याम्पयऽओषधीषुपर्योदि
द्यन्तरिक्षेपर्योधाः । पर्यस्वतीःप्रदि
शःसन्तुमहाम् ॥ २ ॥

शु०यजु० अध्याय ५ मंत्र २१ ॥

विष्णोरराटमसि विष्णोःश्चप्त्रेस्थो
विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोसि । वै
ष्णवमसि विष्णवेत्त्वा ॥ ३ ॥

यजु० अध्याय १४ मंत्र २० ॥

अग्निर्देवतावातोदेवतासूर्योदेवताच-
न्द्रमादेवतावसवो देवता रुद्रादेवता
दित्यादेवतामरुतोदेवता विश्वेदेवादे-
वताबृहस्पतिर्देवतेन्द्रोदेवता वरुणोदे-
वता ॥ ४ ॥

यजु० अध्याय ३६ मंत्र १७ ॥

द्यौःशान्तिरन्तरिक्षुःशान्तिः पृथिवीशा
 न्तिरापुःशान्तिरोषधयुःशान्तिः । वनस्प
 तयुःशान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशा
 न्तिः सर्वुःशान्तिः शान्तिरेवशान्तिः
 सामाशान्तिरेधि ॥ ५ ॥

यजु० अध्याय ३० अनुवाक १ मंत्र ३ ॥
 विश्वानिदेवसवितर्दुरितानिपरासुव ।
 यद्भुद्रन्तन्नआसुव ॥ ६ ॥

यजु० अध्याय १६ अनुवाक ७ मंत्र ४८ ॥
 इमारुद्रायतवसेकपर्दिनेक्षुयद्वीरायप्रभं
 रामहेमतीः ॥ यथा शमसद्विपदेचतुष्प
 देविश्वम्पुष्टङ्ग्रामेऽस्मिन्ननातुरम् ॥७॥

यजुर्वेद० अध्याय २ मंत्र १२ ॥

एतन्तेदेवसवितर्युज्ञम्प्राहुर्वृहस्पतयेव्र-
 ह्मणं । तेनयुज्ञमवृतेनयुज्ञपतिन्तेनुमामव ॥८॥

यजुर्वेद० अध्याय ३ मंत्र १३ ॥

मनोजुतिर्जुषतांमाज्ज्यस्युवृहस्पतिर्यु

(५०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ज्ञमिमंतनोत्त्वरिषष्टं २य्युज्ञठंसमिमन्दधा
तु । विश्वेदेवासं ऽइहमादयन्तामोऽप्र
तिष्ठ ॥ एषवैप्रतिष्ठानामयज्ञोयत्रैतेनय
ज्ञेनयजन्तेसर्वमेवप्रतिष्ठितंभवति । ॐ ३

यजुर्वेद० अध्याय३मन्त्र १९ ॥

गुणानान्त्वा गुणपतिठं हवामहेप्प्रिया
णान्त्वाप्प्रियपतिठंहवामहे निधीनान्त्वा
निधिपतिठं हवामहे वसोमम । आहमं
जानिगर्भुधमात्वमुजासिगर्भुधम् ॥

शुक्लयजु० अध्याय १६ मन्त्र २५ ॥

नमोगुणेभ्योगुणपतिभ्यश्चवोनमो नमो
व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चवो नमोनमो
गृत्सेभ्योगृत्संपतिभ्यश्चवो नमोनमोवि
रूपेभ्योविश्वरूपेभ्यश्चवोनमं ÷ ॥

ओंसुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गर्जकर्णकः । लंबो
दरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ धूर्ध्रकेतुर्गणां
ध्यक्षो भालर्चन्द्रो गजाननः । द्वादशैतानिनामानि यः
पठेच्छृणुयादपि ॥ विद्यारंभेविवाहेचप्रवेशेनिर्गमेत

१ यह मन्त्र ब्राह्मणकाहे ॥

था । संग्रामेसंकटेचैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ श्रीगण
पतये नमः ॥ इति स्वस्तिवाचनम् ॥

भा० टी०—यह स्वस्तिवाचनका अर्थ आगे विवाहप्रकरणके
आदिमें लिखा है इसलिये पिष्टपेषण नहीं करते ॥ (मनोजृति इस्का)
(अर्थ) अतिवेग युक्त मेरा मन आज्यको सेवन करे इस यज्ञको
बृहस्पतिजी विस्तृत करे तथा अरिष्ट(निर्विघ्न)करे तथा इस यज्ञकी पुष्टि
करे । और विश्वेदेव ॥ १३ ॥ नाम देवगण यहाँ आनंदसे मग्न होवें
वा मद युक्त होवें ॥ (सुमुखश्चेति) यह १२ द्वादश गणेशजीके
नाम विद्याके प्रारंभ तथा विवाहमें प्रवेश निर्गम संग्राम संकट अर्थात्
जहाँ भीतिहो वहाँ लेनेसे विघ्नादि सर्व उपद्रव शान्त होते हैं इस
लिये आदिमें गणपतिपूजन यथोक्त करना चाहिये ॥

ततःसंकल्पः ।

ओंतत्सद्यब्रह्मणोद्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे
जंबूद्वीपेभरतखंडे आर्यावर्तेवर्तमानकलियुगप्रथम
चरणेवैवस्वतमन्वंतरे अष्टाविंशतिमेकलियुगेऽमुक
ऋतावमुकमासेऽमुकपक्षेऽमुकतिथावमुकवासरान्विता
याममुककरणनक्षत्रयोगयुक्तायां श्रुतिस्मृतिपुरा
णोक्तफलावातिकामः धर्मार्थकाममोक्षार्थमनोभिल
षितप्राप्तये अमुकगोत्रोऽमुकशर्माऽहममुककर्मनि
मित्तककात्यायनीयशान्तिकरिष्ये ॥ तन्निर्विघ्नपरिस
माप्तये गणपतिपूजनंचकरिष्ये इति ॥

भा० टी०--संकल्पमें यथावत् संवत्सरादि नामादि उच्चारण करने चाहिये । और शर्मके स्थान क्षत्री वर्मा यह पद कहे और वैश्य गुप्त यह पद कहै । प्रमाण. (शर्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य) गृह्यसूत्र । १ काण्डमें ॥

अथ गणपतिपूजनम् ॥ ॐ गणानां त्वा गणपति ठः
हवामहे इति मन्त्रेण । ॐ भूर्भुवः स्वः भगवन् गणपति
देवत इहागच्छ इति ष्ट सुप्रतिष्ठो वरदो भव मम पूजां गृ
हाण ॥ पाद्यादिभिर्चयेत् । भगवन् गणपति देव एत
त्पाद्यादिभिर्गंधाक्षतादिभिश्च पूजितः प्रसन्नो भव । पु
नः । वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ । अविघ्नं कु
रु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ इति ॥ अथ पञ्चोपचारपूज
नम् ॥ आवाहयाम्यहं देवमोंकारं परमेश्वरम् । त्रिभात्रं त्र्य
क्षरं दिव्यं त्रिपदं च त्रिदेवकम् । त्र्यक्षरं त्रिगुणाकारं सर्वा
क्षरमयं शुभम् । त्र्यणवंप्रणवहंसं स्रष्टारं परमेश्वरम् ।
अनादिनिधनं देवमप्रमयं सनातनम् ॥ परंपरतरं बीजं नि
र्मलं निष्कलं शुभम् ॥

भा० टी०—गणानां त्वा इस मन्त्रसे गणपतिका पूजन करे और प्रार्थना करे हे भगवन् गणपति देव यहाँ आबो और बैठो वरको देवो और पूजाको ग्रहण करो । पाद्य अर्घ्य आचमनीय इत्यादिसे आगे लिखे षोडश उपचारसं पूजन करे । इस प्रकार ओंकारके मंत्रोंसे ओंकारका पूजन करना ॥

शुक्लयजुर्वेद अध्याय २२ अनुवाक ७ मंत्र २२ ॥

ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसीजाय
 तामाराष्ट्रे राजन्युःशूर इपद्योतिव्याधी
 महारथो जायतान्दोग्धी धेनुर्वीढान्
 ह्वानाशुःसप्तःपुरंन्धुर्व्योपाजिष्णूरथे
 ष्टाःसुभेयोयुवांस्युयजमानस्यवीरोजा
 यतान्निकामेनिकामेनःपुर्जन्योवर्षतुफ
 लवत्स्योनुऽओपधयःपचच्यन्ताँयोगक्षे
 मोनःकल्पताम् ॥

भा० टी०—(मंत्रार्थ) हे ब्रह्मन् हे ब्रह्माजी आपकी कृपासे
 यज्ञको करना कराना पढ़ना पढ़ाना दानलेना देना इत्यादि पदकर्म
 करनेवाले और ब्रह्मतेजवाले ब्राह्मण हों और हमारे राष्ट्रमें क्षत्री
 व्याधिकातरतासे रहित शूरवीर महारथ इस यजमानके
 हो और इस यजमानकी दुग्ध देनेवाली गौ हों और
 शीघ्र गमनवाले वाँडे और सुंदर रूपवाले हों ॥ और पुरुष
 रथमें बैठनेवाले युवान सभायोग्य इस यजमानके सम्बंधि पुत्रादि
 हों और हमारी प्रार्थनासे वृष्टिहो और फल युक्त औषधियाँ
 पकेँ हमारेको योगक्षेम हों ॥

(५४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

अथ रक्षाविधानम् ॥ शुक्लयजु० अध्याय ३ मंत्र ३० ॥

ॐ मानः शर्त्तुसो अरुरुषो धूर्तिः प्रणङ्गुत्यै

स्य । रक्षाणो ब्रह्मणस्पते ॥

यजु० अध्याय ३४ मंत्र ५२ ॥

ॐ यदा बध्नन्दाक्षायुणा हिरण्यं शतानी

कायसुमनस्य मानाः ॥ तन्म आर्बध्नामि

शतशारदायाऽऽयुष्माञ्जुरदाष्टिर्यथासंजम् ॥

इति पठन् ॥

भा० टी०—(मानः श० सुः) हे ब्रह्मणस्पते हमारे अनिष्ट चिन्तक परंतु मारणमें असमर्थ हमारे शत्रुकी धूर्ति नाम हिंसा आप मत करें किंतु हमारी रक्षाकरें अर्थात् असमर्थ शत्रुका क्या मारना वह आगे मृत होताहै (यदाबध्नन्) दक्षकी संतान जो सुवर्ण शतानीक अर्थात् बहुत मनायुक्त गजाको बांधते भयं प्रसन्न चित्त होकर शतजीवनके लिये तिस प्रकार जैम हम वृद्धावस्थाको प्राप्त होवें तद्वत् बाँधते हैं ॥

अथ मातृपूजनम् ।

गौरी १ पद्मा २ शची ३ मेधा ४ सावित्री ५ विजया ६
जया ७ ॥ देवसेना ८ स्वधा ९ स्वाहा १० मातंगे ११
लोकमातरः १२ ॥ हृष्टिः १३ पुष्टि १४ स्तथातुष्टि १५
स्तथात्मकुलदेवता ॥ १६ ॥ श्रीकुलदेव्यंतर्गतगौ
र्यादिषोडशमातृभ्योनमः ॥ अथ ऋत्विजांवरणम् ॥

यथाचतुर्मुखो ब्रह्मासर्ववेदधरः प्रभुः ॥ तथात्वंम
यज्ञेऽस्मिन्ब्रह्माभवद्विजोत्तम ॥ गृहीत्वा तु करांगुष्ठं
यजमानःपठेदिदम् ॥ अस्यकर्मणःप्रतिष्ठापनार्थत्वं
ब्रह्मा भव (अहंभवामीति ब्रह्मा ब्रूयात्)

भा० टी०—गौरीमे आदि षोडश १६मातृका भिन्नभिन्न अंक
देकर मूलमें लिखी हैं । उनकी यथावत् षोडशोपचार पूजा करनेसे
वह संतुष्ट होकर शुभको विधान करती हैं । ऋत्विक् होता आचार्य
ब्रह्मादि वरणमें प्रथम ब्रह्माका वरण होता है अर्थ जैसे चतुर्मुख संपूर्ण
वेदविद्याके जाननेवाले ब्रह्माजी हैं तद्वत् आप मेरे यज्ञमें होवें यह
कहे हस्तका अंगुष्ठ पकड़कर यजमान इस कर्मकी प्रतिष्ठाके लिये
आप ब्रह्मा हो । मैं होताहूँ ऐसे ब्रह्मा कहै ॥

आचार्य्यस्तुयथास्वर्गेशक्रादीनांबृहस्पतिः । तथात्वंम
मयज्ञेऽस्मिन्नाचार्यो भवसुव्रत ॥ गृहीत्वातुक
रांगुष्ठंयजमानःपठेदिदम् ॥ अस्यकर्मणःप्रतिष्ठा
पनार्थत्वमाचार्योभव । अहंभवामि ॥ ऋग्वेदःपद्मप
त्राक्षोगायत्रः सोमदैवतः । अत्रिगोत्रस्तुविप्रेन्द्रऋ
त्विक्त्वंमेमखेभव ॥ गृहीत्वातुकरांगुष्ठंयजमानः
पठेदिदम् ॥ अस्यकर्मणःप्रतिष्ठापनार्थमृग्वेदीभव ।
अहंभवामि ॥

भा० टी०—जैसे स्वर्गमें इंद्रादिकोंका आचार्य्य (गुरु) बृह-
स्पतिजी हैं तद्वत् आप मेरे यज्ञमें आचार्य्य होवें गृहीत्वा तु इसका
पूर्वोक्त अर्थ है यदि कोई कहै कि आचार्य्यको गुरु कैसे कहते हैं

(५६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

उत्तर जो उपनयन कर शौचता और वेद विद्या पढावे वह आचार्य्य अर्थात् गुरुको कहते हैं प्रमाण भी यास्कजीने निरुक्तमें लिखा है (आचार्य्यःकस्मादाचार्य्यआदाचारं ग्राहयित्वा चिनोत्यर्थात्) याज्ञवल्क्यजी भी लिखते हैं “उपनीयददद्वेदमाचार्य्यःसउदाहृतः” इस प्रकार ऋग्वेदादिक चार वेदोंका वरण जानना ॥ स्वरूप ऋग्वेदका पद्मपत्रवत् नेत्र गायत्री छंद सोम देवता अत्रि गोत्र इत्यादि ॥

कातराक्षोयजुर्वेदस्त्रिष्टुभोब्रह्मदेवतः । भारद्वाजस्तुवि
प्रेन्द्रऋत्विक्त्वमेमखेभव ॥ गृहीत्वातुकरांगुष्टंयजमानः
पठेदिदम् ॥ अस्यकर्मणः प्रतिष्ठापनार्थत्वंमेयजुर्वे
दीभव (अहंभवामि) सामवेदस्तुपिंगाक्षस्त्रिष्टुभोविष्णु
देवतः ॥ काश्यपेयस्तुविप्रेन्द्रऋत्विक्त्वमेमखेभव ॥
गृहीत्वातुकरांगुष्टंयजमानःपठेदिदम् ॥ अस्यकर्म-
णःप्रतिष्ठापनार्थत्वं सामवेदीभव (अहंभवामि)

भा० टी०—कैरता युक्त नेत्र त्रिष्टुप् छंद ब्रह्मदेवता भारद्वाज
गोत्र इत्यादि यजुर्वेदका स्वरूप है और पिंगलवर्ण नेत्र त्रिष्टुप् छंद
विष्णुदेवता काश्यपगोत्र इत्यादि सामवेदका स्वरूप छंदादिक हैं ॥

अथाशीर्वादः ।

ऋग्वेदस्तुयजुर्वेदः सामवेदोह्यथर्वणः । ब्रह्मवाक्यैश्चतै
नित्यं हन्यंतांतवशात्रवः ॥ अपुत्राःपुत्रिणःसन्तुपुत्रिणः
सन्तु पौत्रिणः । अधनाः सधनाः सन्तु संतु सर्वार्थसाध
काः ॥ विप्रहस्ताच्चगृहीयाद्यज्ञपुष्पफलाक्षतान् ।

चत्वारस्तववर्द्धन्तामायुःकीर्तिर्यशोबलम् ॥ अथ क
लशपूजनम् । ॐ ऋग्वेदायनमः यजुर्वेदायनमः सा
मवेदायनमः अथर्वणवेदायनमः कलशायनमः वरुणा
यनमः रुद्रायनमः समुद्रायनमः गंगायैनमः यमुना
यैनमः सरस्वत्यैनमः कलशकुंभायनमः ॥

भा० टी०—ऋक् यजु साम अथर्वण यह ४ वेद ब्रह्मवाक्य
पुराणादि सहित तुम्हारे शत्रुओंको नष्टकरें ॥ और जिनके पुत्र
नहीं वह पुत्रयुक्त हों और पुत्रोंवाले पौत्रोंसे युक्त हों ॥ निर्धन
धनवान् हों धनवान् संपूर्ण कामना सिद्धकरनेवाले हों ॥ यज्ञमें
ब्राह्मणके हाथसे पुष्प फल अक्षत ग्रहण करे ४ चार वस्तु आयु १
कीर्ति २ यश ३ बल ४ वृद्धिको प्राप्त हों ॥

ब्रह्मणानिर्मितस्त्वंहिभत्रैरेवामृतोद्भवः ॥

प्रार्थयामिचकुम्भत्वां वाञ्छितार्थतुदेहिमे ॥

शुक्लयजु० अध्याय ४ मंत्र ३६ ॥

वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्यस्कम्भु
सर्जनीस्त्यो वरुणस्यऽऋतुसदन्यमि व
रुणस्यऽऋतुसदनमसि वरुणस्यऽऋतुस
दनमसिद ॥

भा० टी०—(वरुणस्योत्तम्भनमसि) अर्थ—हे शम्पे तुम वरुणके
जलकी स्तम्भन करनेवाली है और वरुणकी तुम शिथिल शम्पा २
होवे और वरुणके सत्य स्थानमें हो और वरुणके सत्य स्थान

(५८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

हानेसे आप यहाँ स्थित होंगे ॥ यह वेदमंत्रार्थ है ॥ १ ॥ ब्रह्मा-
जाने अमृतोद्भव मंत्रोंसे आपको रचा और हम आपकी प्रार्थना
करते हैं कि हमारेको वांछित अर्थ दें ॥

अथ वास्तुपूजा ।

अथातः संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं वास्तुपूजनम् ॥ येन पूजा
विधानेन कर्मसिद्धिस्तु जायते ॥ अनंतपुण्डरीकाक्षं
फणाशतविभूषितम् । विद्युद्बन्धूकसाकारं कूर्मारूढं
प्रपूजयेत् ॥

शुक्लयजु अध्याय १३ मंत्र ६ ॥

ॐ नमोस्तु सुपर्णेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ।
येऽअन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सुपर्णेभ्यो न
मः ॥ वासुक्याद्यष्टकुलनागेभ्यो नमः ॥

भा० टी०—इसके अनंतर वास्तुपूजा लिखते हैं जिसके कर-
नेसे कर्मोंकी सिद्धि होती है ॥ यह कर्मका अंग है कमलमहश
नेत्रवाला और शतफणोंसे सुशोभित विद्युत्कांतियुक्त कूर्म देवपर
स्थित अनंत (शेष) की पूजन करे [नमोस्तु मंत्रार्थ] जो पृथ्वीमें
रहते हैं और जो आकाशमें तथा स्वर्गमें सर्प रहते हैं तिनहों
संपूर्णोंके लिये यह प्रणाम वारंवार हो और वह रक्षाकरें यह
फलितार्थ है ॥

अथ योगिनीपूजा ।

ॐ आवाहयाम्यहं देवीं योगिनीं परमेश्वरीम् । योगाभ्या

सेन संतुष्टा परध्यानसमन्विता ॥ १ ॥ दिव्यकुण्ड
लसंकाशा दिव्यज्वालाः त्रिलोचना । मूर्तिमती ह्य
मूर्ता च उग्रा चैवोग्ररूपिणी ॥ २ ॥ अनेकभावसं
युक्ता संसारार्णवतारिणी । यज्ञं कुर्वन्तु निर्विघ्नं श्रे
योः यच्छन्तु मातरः ॥ ३ ॥ दिव्ययोगी महायोगी
सिद्धयोगी गणेश्वरी । प्रेताशी डाकिनी काली
कालरात्री निशाचरी । हुंकारी सिद्धवेताली
खर्परी भूतगामिनी । ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी शुष्कां
गी मांसभोजनी । फूत्कारी वीरभद्राक्षी धूम्राक्षी
कलहप्रिया । रक्ता च घोरा रक्ताक्षी विरूपाक्षी
भयंकरी । चौरिका मारिका चंडी वागही मुण्ड
धारिणी । भैरवी चक्रिणी क्रोधा दुर्मुखी प्रेतवामिनी ।
कालाक्षी मोहिनी चक्री कंकाली भुवनेश्वरी । कुण्ड
लातालकौमारी यमदूती करालिनी ॥ कौशिकी यक्षिणी
यक्षी कौमारी यंत्रवाहिनी ॥ दुर्घटे विकटे घेरे कपाले
विपलंघने । चतुःषष्टिः समाख्याता योगिन्योहि वरप्रदाः ।
त्रैलोक्ये पूजिता नित्यं देवमानुषयोगिभिरिति ॥

भा० टी०—परब्रह्ममें स्वचित योगाभ्यासकर संतुष्ट परमेश्वरी
देवी श्रीयोगिनीका आवाहन करते हैं ॥ १ ॥ दिव्य कुंडलोंसे
युक्त तेजयुक्त त्रिनेत्र मूर्तिवाली और मूर्तिसे रहित भयानक इत्यादि
अनेक भावोंसे संयुक्त संसाररूपी समुद्रके पार उतारनेवाली योगिनी

(६०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

माता इस यज्ञको विघ्नरहित करे और हमारेको कल्याण देवे यह योगिनी संकटमें विपत्तिमें अर्थात् जहाँ भीतिहो वहाँ स्मरण की हुई वरको देती संकट दूरकरती है. इस कारणसे देव मनुष्य योगि-जनोंमें यह पूजनीय है अर्थात् संपूर्ण जगत् इनकी पूजा करता है ॥

अथ ब्रह्मपूजा ।

शुक्लयजु० अध्याय १३ मंत्र ३ ॥

ब्रह्मं जज्ञानमप्रथमम्पुरस्ताद्विसीमुतः
सुरुचो वेनआवः ॥ संबुध्न्याऽउपमाऽअ
स्यविष्टाः सुतश्च्योनिमसंतश्च्यविवः
इति पाद्यादिभिर्ब्रह्माणमर्चयेत् ॥

अथ विष्णुपूजा ।

यजु० अध्याय ५ मंत्र २१ ॥

ॐ विष्णोर्गुराटमसिविष्णोः श्रप्त्रेस्थो
विष्णोःस्यूरसिविष्णोर्ध्रुवोसि । वैष्णव
मसि विष्णवे त्वा ॥

भा० टी०—(मंत्रार्थ ब्र०) ब्रह्म सर्वव्यापि सूर्य प्रथम पूर्वदि-
शामें उदय होता है फिर अपने प्रकाशसे चारोंतरफ मध्यवर्ती प्रकाश
करता है वह प्रकाशमान लोक वेन मेधावी आदित्य दिशाओंसे
जानाजाता है इस जगद्विद्यमानका अधिष्ठाता है और अमूर्त अदृश्य

मान जगत्का कारण है ॥ अर्थात् सूर्यभगवान्ही सम्पूर्ण लोकोंको दिशाकों प्रकाश करता है ॥ 'विष्णोरराटमसि' इसका अर्थ आगे शांतिपाठमें लिखा है ॥ ॥ इति विष्णुं पाद्यादिभिरर्चयेत् ॥

अथ शिवपूजा ।

शुक्ल यजुर्वेद अध्या० १६ मंत्र ४१ ॥

ॐ नमः शम्भुवार्य च मयोभुवार्य च न
मः शङ्करार्य च मयस्करार्य च नमः शि
वार्य च शिवतरार्य च ॥

भा० टी०—(नमःशंभवायेति) नमस्कार है शमके देनेवाले तथा सुख कल्याणादिगुण देनेवाले शंकरजीको ॥

इति शिवं पाद्यादिभिरर्चयेत् ॥

अथेन्द्रपूजा ॥ यजु० अध्याय २० मंत्र ६० ॥

ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रुठहवेहवेसु
हवठुशूरमिन्द्रम् । हव्यामिशुक्रम्पुरुहुत
मिन्द्रं सुस्वतिनोमधवाधात्विन्द्रः— ॥

ॐ इन्द्राय नमः इति पूजयेत् ॥

भा० टी०—(त्रातारमिन्द्र) रक्षा करनेवाला जिससे इंद्रजीको कहते हैं बुलावनेमें शोभन शूरवीर वह इंद्र हमारे कर बुलायाभया ना नष्ट होनेवाला धन और स्वस्ति हमारेको देवे हम प्रार्थना करते हैं ॥

(६२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

अथ वायुपूजा ॥ यजु० अ० २७ मंत्र ३२ ॥

वायोयेतसहस्रिणो रथासस्तेभिरागंहि ॥
नियुत्वान्तसोमपीतये ॥

यजु० अ० ९ मंत्र ७

ॐ वातो वामनो वा गन्धर्वाः सुप्तविठंश
तिः ॥ ते अग्रे श्वमयुञ्जस्तेऽस्मिन् जवमा
दधुः ॥ ॐ वायवे नमः ॥ इति पूजयेत् ॥

भा० टी०—(हे वायुदेव) जो तुम्हारे सहस्रसंख्यक रथसदृश
रथ हैं उनसे युक्त होकर आप सोमपानके लिये आओ हम प्रार्थना
करते हैं ॥

अथ धर्मपूजा ॥ यजु० अध्याय ३ मन्त्र १८ ॥

ॐ अग्ने सपत्न दम्भानमदब्धासो अदा
भ्यम् । चित्रावसो स्वस्तिते पारमशीय ॥
ॐ धर्माय नमः ॥ इति पूजयेत् ॥

भा० टी०—(अग्ने सपत्न) हे भगवन् अग्निदेव ! तुम शत्रुओं-
को नाश करनेवाले हमारेको ना हिंसन करते हमारी वृद्धिकरे हे चि-
त्रावसो हे रात्रि ! नाश होनेवाली कल्याण देव (रात्रि वै चित्रावसु-
रिति श्रुतिः) और तुम्हारे पारको सुखपूर्वक प्राप्त होयाकरे ॥

अथ यमपूजा ॥ शु० यजु० अध्याय २९ मं० १४
 ॐ असियुमो अस्यादित्यो अर्वन्नसिन्नि
 तोगुह्येन व्रतेन । असिसोमेन समया
 विपृक्त आहुस्तेत्रीणिदिवि बन्धनानि ॥
 इति यमपूजा दक्षिणे कार्या ॥

अथ नवग्रहपूजा ॥

शु० यजु० अध्याय ३४ मंत्र ३१ ॥

ॐ आकृष्णेन रजसावर्तमानो निवेशय
 न्मृतममर्त्यञ्च ॥ हिरण्यये नसवितारथे
 नादेवोयातिभुवनानिपश्यन् ॥ ॐ सूर्या
 यनमः ॥ इति सूर्यं पूजयेत् ॥

भा० टी०—आकृष्णेनिति ॥ सूर्यदेव रात्रिरूप रजसे वर्तमान
 वारंवार भ्रमण करता तथा अपने २ स्थानमें देवताओंको अमृत मनु
 प्यादिकोंको अन्न देताहुआ सुवर्णके रथसे १४ भुवनोंको देखता
 भया और आरोग्य देता भया फिरता है उदय होता है ॥ १ ॥

शुक्लयजु० अध्याय १० मंत्र १८ ॥

इमं देवाऽसपत्नर्त्सुवद्ध्वम् महतेक्षत्राय
 महतेज्यैष्ठ्याय महतेजानराज्यायेन्द्र

(६४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

स्येन्द्रियाय ॥ इमममुष्यंपुत्रममुष्यैपुत्र
मुस्यैविशऽएपवोमीराजासोमोस्माकम्ब्रा
ह्मणानाठराजा ॥ ॐ सोमाय नमः इति पू० ॥

भा० टी०—इमं देवा—देवो दानादिति—हे दानशील पुरुषो त्वम
इस चंद्रमाको शूरवीरताके लिये ज्येष्ठता राज्य ऐश्वर्यादिके लिये
अमुक पुत्र इसकी सेवा करो यह चंद्रमा हम ब्राह्मणोंका राजा है ॥
श्रौतार्थमें हे देवताओं यह संबंध करना ॥

शुक्लयजु० अध्याय ३ मंत्र १२ ॥

अग्निर्मूर्द्धादिवःकुकुत्पतिःपृथिव्याऽ
अयम् ॥ अपाथरेताथसि जिन्वति ॥ ॐ
अंगारकाय० इति पू० ॥

भा० टी०—अग्निर्मूर्द्धा—हे अग्निस्वरूप वा अग्नितत्त्व मंगल देव
स्वर्ग आकाशमें सूर्यरूप होकर मूर्द्धवर्तिहो और ककुत् बंड तेजस्वी
और पृथिवीक पुत्र हो और तुमहीं जलवृष्टि रेतोत्पत्तिमें कारण
॥ (श्रौतार्थमें अग्निस्तुतिमें विनियुक्त है) प्रमाण बृहज्जातके
शिखिभूखपयोमरुद्गणानां वशिनो भूमिसुतादयः क्रमेण ॥

यजु० अध्याय १५ मंत्र ३ ॥

उद्दुध्यस्वाग्नेप्रतिजागृहित्वमिष्टापूर्तेस
ठसृजेथामुयञ्च ॥ अस्मिन्त्सधस्थेऽध्यु

त्तरस्मिन्विश्वेदेवायजमानश्चसीदत ॥

ॐ बुधाय नमः इ० पू० ॥

भा० टी०—उद्बुध्यस्व—हे बुधदेव अग्नित् प्रकाशमान आप प्रसन्न हो आपकी प्रसन्नतासे यह यजमान इष्टमनोरथको प्राप्त होवे और इस लोकमें ऐश्वर्यादि भोग उत्तर लोकमें देवताओंके साथ निवास करे यह हम प्रार्थना करते हैं (श्रौतमें अग्नि)

यजु० अध्याय २६ मंत्र ३ ॥

बृहस्पतेऽतियदुर्योऽअर्हीद्युमद्विभा
तिकर्तुमुज्जनेषु ॥ यद्दीदयुच्छर्वसऽऋत
प्रजातुतदस्मासुद्रविणन्धेहिचित्रम् ॥

ॐ बृहस्पतये नमः इ० ॥

भा० टी०—बृहस्पति—हे बृहस्पति देव अतिशयसे धन अर्थ स्वामिता अर्हपूजा यज्ञकरनेवाले पुरुषमें धारण करे और बलसे जो रक्षाकरनेवाले तथा सत्यसे है उत्पत्ति जिनकी वा सत्य प्रजा-वाले पुरुषोंको अनेक प्रकार चित्र विचित्र धन देनेमें यह प्रार्थना करते हैं ॥

यजु अध्याय १९ मंत्र ७५ ॥

ॐ अन्नात्परिस्रुतोरसुम्ब्रह्मणाद्यपिबत्क्षु
त्रम्पयःसोमम्प्रजापतिःऋतेनसत्यमि

(६६) विवाहपद्धति भा० टी ।

न्द्रियंविपानर्ठं शुक्रमन्धसुइन्द्रस्येन्द्रि
यमिदम्पयोमृतम्मधु ॥ ॐ शुक्राय
नमः इति पू० ॥

भा० टी०—अन्नात्परिष्कृतः—हविलक्षणरूप अन्नका परिष्कृत
रसत्रयी लक्षण ब्रह्मसे व्याप्त और क्षत्रसे व्याप्त सोम प्रजापति संबं-
धि पय इस सत्यसे युक्त इंद्रकी इंद्रिय अन्न यह शुक्रजीके संबं-
धसे युक्त हो यह प्रार्थना करते हैं ॥

यजु० अध्याय ३६ मंत्र १२ ॥

शन्नोदेवीरभिष्टयुऽआपोभवन्तुपीतये ।
शंय्योरभिस्रवन्तुनः ॥ ॐ शनैश्चरायन
मः ॥ इति पू० ॥

भा० टी०—शन्नोदेवी—सुखरूप हमार कल्याणकारक देवस्व
रूप रोगकेविनाशके लिये भयके दूर करनेके वास्ते शनिदेवको
स्तुति और प्रार्थना करते हैं ॥ श्रौतमें वरुण संबधि स्तुतिमंत्र है ॥

यजु० अध्याय २७ मं० ३९ ॥

कयानश्चित्र आभुवदुतीसुदावृधुःसखा ॥
कयाशर्चिष्ठयावृता ॥ ॐ राहवे नमः ॥
इति पू० ॥

भा०टी०—कयानश्वित्र—हे राहुदेव किस आगमनसे तुम हमारेको आनंद करते हैं और किससे हमारेको धन देते हैं वह हम उपाय करें (पूजा इति शेषः) (श्रौतमें इन्द्र)

यजु० अध्याय २९ मंत्र ३७ ॥

केतुकृण्वन्नकेतवेपेशोमर्याऽअपेशसे । स
मुपद्भिरजायथाः ॥ ॐकेतवे नमः ॥
इतिपू० ॥

ॐब्रह्मा सुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानुः शशीभूमिसु
तो बुधश्च ॥ गुरुश्चशुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वेग्रहाःशां
तिकगभवन्तु ॥ इतिनवग्रहपूजा ॥ त्र्यंबकं यजामहे
इतित्र्यंबकपूजनम् ॥ अथकुशकण्डिकाप्रारम्भः ॥
ततोहोमार्थं चतुरंगुलोच्छ्रितहस्तमात्रपरिमितां वे-
दिं कुर्यात् कुशैः परिसमृह्य तान्कुशानैशान्यांप-
रित्यज्य गोमयोदकेनोपलिप्य खादिरेण स्तुवेण चो-
ल्लेखनंहस्तेनोद्धरणं जलेनाभ्युक्षणं कांस्यपात्रयुग्-
लेन लौकिकं निर्मथितं वाग्निमानीय स्थापयेत् । ततः
पुष्पचंदनतांबूलवासांस्यादाय ॐअद्यकर्तव्यामुक
शान्तिहोमकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्म-
कर्तुममुकगोत्रममुकशर्माणमेभिः पुष्पचंदनतां

१ यह मैंने उवटभाष्यसे संक्षिप्त अर्थ लिखा है विशेष अर्थ ब्राह्मणसर्वस्वसे आगे
लिखा देखलेंगे ॥

(६८)

विवाहपद्धति भा० टी० ।

बूलवासोभिर्ब्रह्मत्वेनत्वामहंवृणे इति ब्रह्माणंवृ
णुयात् ॥ ॐवृतोस्मीति प्रतिवचनम् । यथाविहि
तंकर्मकुर्वित्याचार्येणोक्ते करवाणीतिप्रतिवचनम् ॥
ततोग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमासनंदत्त्वा तदुपरि प्रागग्रा
न्कुशानादायास्तीर्य अग्निं प्रदक्षिणं कारयित्वा
ऽस्मिन्कर्मणि त्वं मेब्रह्माभवेत्यभिधाय भवानीति
तेनोक्ते तदुपरि ब्रह्माणमुदङ्मुखमुपवेश्य प्रणीता
पात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्य कुशैराच्छा
द्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतः कुशोपरिनिद
ध्यात् ततः परिस्तरणम् बार्हिषश्चतुर्थभागमादाया
ग्नेरीशानांतंब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तं नैर्ऋत्याद्वायव्यन्तम
ग्निःप्रणीतापर्यन्तंततोग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशिपवित्र
च्छेदनार्थंकुशत्रयंपवित्रकरणार्थंसाग्रमनन्तर्गर्भकुश
पत्रद्वयंप्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थालीसंमार्जनार्थंकुशत्रय
मुपयमनार्थं वेणीरूपकुशत्रयं समिधस्तिस्रः स्रु
वः आज्यं षट्पंचाशदुत्तराचार्यमुष्टिशतद्वयाव
च्छिन्नमतण्डुलपूर्णपात्रम् ततः पवित्रच्छेदनकुशैः
पवित्रेच्छित्वासपवित्रकरणेप्रणीतोदकंत्रिः प्रोक्षणीपा
त्रेनिधायअनामिकांगुष्ठाभ्यांपवित्रेउत्तराग्ने गृहीत्वात्रि
रुत्पवनं प्रोक्षणीपात्रंवामकरेणादाय अनामिकां
गुष्ठाभ्यांगृहीतपवित्राभ्यांतज्जलं किञ्चित्त्रिरुत्क्षिप्यप्र
णीतोदकेनप्रोक्षणीमभिषिच्य प्रोक्षणीजलेनासादि

तवस्तुसेचनंकृत्वाग्निप्रणीतयोर्मध्येप्रोक्षणीपात्रंनिद
 ध्यात् आज्यस्थाल्यामाज्यंनिहृप्याधिश्रयणम् त
 तः कुशंप्रज्वाल्याज्योपरिप्रदक्षिणंभ्रामयित्वावह्नौत
 त्प्रक्षिप्यस्रुवंत्रिःप्रताप्यसम्मार्जनकुशानामग्रैरंतरतोमू
 लैर्बाह्यतः स्रुवंसंमृज्यप्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्यपुनस्त्रिः
 प्रताप्यदक्षिणतोनिदध्यात् आज्यस्याग्नेरवतारणंततः
 आज्यंप्रोक्षणीविदुत्पूयावेक्ष्य सत्यपद्रव्येतन्निरसनंकृ
 त्वापुनःप्रोक्षणीमुत्पूय तत उत्थायोपयमनकुशान्वा
 महस्तेकृत्वाप्रजापतिमनसाध्यात्वातूष्णीमग्नौ घृता-
 क्ताःसमिधस्तिस्त्रः क्षिपेत् ॥ उपविश्यसपवित्रप्रो
 क्षण्युदकेनप्रदक्षिणक्रमेणाग्निपर्युक्ष्यप्रणीतापात्रेपवित्रे
 निधायपातितदक्षिणजानुः कुशेन ब्रह्मणान्वारब्धः
 समिद्धतमेऽग्नौस्रुवेणाज्याहुतीर्जुहोति । तत्तदाहुत्य
 नंतरंस्रुवावस्थितघृतशेषस्यप्रोक्षणीपात्रे प्रवेशः ।
 अथस्रुवपूजनम् ॥ ॐआवाहयाम्यहंदेवंस्रुवंशेवधिमु
 त्तमम् । स्वाहाकारस्वधाकारवपक्कारसमन्वितम् ॥
 अष्टांगुलंत्यजेन्मूलमग्रेत्यक्त्वादशांगुलम् । कर्तव्यंगो
 पदाकारंदंडस्याग्रेतुकंकणम् ॥ विष्णोःस्थानंप्रगृह्णी
 याद्भूयतेचहुताशनम् ॥ पद्मयोर्निसमादायहोता
 सुखमवाप्नुयात् ॥ इति स्रुवपूजनम् ॥

भा० टी०—कुशकंडिका आगे विवाहमें स्पष्टार्थ लिखी है इस

(७०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

लिये महाशयोंको उचित है कि विवाहप्रकरणमें देखें और खुवको हस्तमें कंकण बाँधकर पूजन करना ॥

अथ घृताहुतिः ॥ ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इति मनसा ॥ ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं मिन्द्राय० ॥ इत्याघारौ ॐ अग्नये स्वाहा इदं मग्नये० ॥ ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय० इत्याज्यभागौ ॥ ॐ भूः स्वाहा इदं भूः ॥ ॐ भुवः स्वाहा इदं भुवः । ॐ स्वः स्वाहा इदं स्वः ॥ एतामहा व्याहृतयः ॥

यजु० अध्याय २१ मंत्र ३ ॥

ॐ त्वन्नोऽग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडो
अर्वयासिसीष्टाः । यजिष्ठो वह्नितमुत्शो
शुचानो विश्वा द्वेपाः ॐ सिप्रमुमुग्ध्युस्मत्स्वा
हा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्याम्० ॥

युज० अध्याय २१ मंत्र ४ ॥

ॐ सत्वन्नोऽग्ने वमो भवोतीने दिष्टोऽनु
स्याऽउपसो व्युष्टौ । अर्वयक्ष्वनो वरुणं कृ
र्राणो व्रीहिमृडी कर्ठसुहवो न एधि स्वा
हा । इदमग्नये० ॥

पा० गृह्यसूत्रे ।

ॐ अयाश्चाग्नेस्यनभिश्चस्तिपाश्चसत्वमि
त्वमया असि ॥ अयानो यज्ञं वहस्युयानो
धेहि भेषजं स्वहा । इदमग्नये ० ॥

पा० गृह्यसूत्रे ।

ॐ ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वि
तता महान्तः । तेभिर्नो अद्य सवितो त वि
ष्णुर्विश्वे मुंचंतु मरुतः स्वर्काः स्वाहा । इदं
वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो म
रुद्भ्यः स्वर्केभ्यः ० ॥

यजु० अध्याय २१ मंत्र १२ ॥

ॐ उदुत्तं सं वरुणपाशं मुस्मदवाधुमं विमं
ध्युमं श्रंथाय । अथाव्युमादित्यव्रते
त्वानागमोऽदितये स्याम स्वाहा ॥

इदं वरुणाय ० एताः सर्वप्रायश्चित्तसंज्ञकाः ॥ ॐ गण
पतये स्वाहा । इदं गणपतये ० । ॐ विष्णवे स्वाहा इदं
विष्णवे ० । ॐ शम्भवे स्वाहा इदं शम्भवे ० । ॐ लक्ष्म्यै
स्वाहा इदं लक्ष्म्यै ० ॥ ॐ सरस्वत्यै स्वाहा इदं सरस्व

(७२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

त्यै । ॐ भूम्यै स्वाहा इदं भूम्यै० ॥ ॐ सूर्यार्य स्वा०
इदं सूर्यार्य० ॥ ॐ चंद्रमसे स्वाहा इदं चंद्रमसे० ॥ ॐ
भौमाय स्वाहा इदं भौ० ॥ ॐ बुधाय स्वाहा इदं बु
धाय० ॥ ॐ बृहस्पतये स्वाहा इदं बृहस्पतये० ॥
ॐ शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय० ॥ ॐ शनैश्वराय स्वाहा
इदं शनैश्वराय० ॥ ॐ राहवे स्वाहा इदं राहवे० ॥
ॐ केतवे स्वाहा इदं केतवे० ॥ ॐ व्युष्ट्यै स्वाहा०
इदं व्युष्ट्यै० ॥ ॐ उग्राय स्वाहा इदं उग्राय० ॥ ॐ
शतक्रतवे स्वाहा इदं शतक्रतवे० ॥ ॐ प्रजापतये स्वा
हा इदं प्रजापतये० ॥ इति मनसा प्राजापत्यम् । ॐ अग्र
येस्विष्टकृते स्वाहा इदं मग्नयेस्विष्टकृते० । इतिस्विष्ट
कृद्धोमः । ततः संस्रवप्राशनमाचमनम् । ततो ब्रह्मणे
दक्षिणादानम् ॥

भा० टी०—त्वन्नो अग्ने १ सत्वन्नो अग्ने २ येतेशतं ३ अया
श्वाग्ने ४ उद्गुनमं ५ यहपाँच मंत्रांका विवाहकी कुशकंडिकाके अ-
न्तमें अर्थ लिखा है इसलिये पुनः पिष्टपेषण नहीं करते ॥ और
आगेके नामोक्तमन्त्र २१ हैं इनमें सूर्यादि नव हैं ॥ और प्रजा-
पतये स्वाहा यह मंत्र मनमें उच्चारण करना और सर्व स्पष्ट मुखमें
उच्चारण करने ॥

ॐ अद्य एतस्मिञ्छांति होमकर्मणि कृताकृतावेक्षण
रूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदेवतम् अमु

कगोत्रायामुकशर्मणेब्रह्मणेदक्षिणां दातुमहमुत्सृजे ॥
ॐस्वस्तीतिप्रतिवचनम् । ततोब्रह्मग्रन्थिविमोकः ॥

यजु० अध्याय ६ मंत्र० २२ ॥

ततः ॐसुमित्रियानऽआपऽओषधयःसंतु इतिपवित्रा
भ्यांजलमानीयतेनशिरः संमृज्य ॐदुर्मित्रियास्तस्मै
सन्तुयोऽस्मान्द्वेष्टियञ्चवयंद्विष्मः ॥ इत्यैशान्यां
प्रणीतान्युब्जीकरणम् ।

भा० टी०—आज इस शांतिके होमरूप कर्ममें करना वा न
करना इसकी परीक्षारूप ब्रह्माके कर्मकी प्रतिष्ठाकेलिये यह पूर्ण
पात्र प्रजापतिसंबन्धि अमुकगोत्र ब्राह्मणको दक्षिणा देनेकेलिये देताहूँ
स्वस्ति ब्राह्मण कहे ॥ कुशनिर्मित ब्रह्माकी ग्रन्थि खोल देनी
विवाहप्रकरणमें ब्रह्मादिकोंका लक्षण लिखा है (पंचाशताभवे-
द्वह्ला) इत्यादि और सुमित्रिया १ दुर्मित्रिया २ इन दोनों
मंत्रोंका अर्थभी स्पष्ट विवाह प्रकरणमें लिखा है ॥

ततः स्तरणक्रमेणबर्हिरुत्थाप्यघृतेनाभिघार्यहस्तेनै
वजुहुयात् ।

यजु० अ० ८ मं० २१ ॥

ॐ देवागातुविदोगातुम्बित्वागातुमितु ॥

मनसस्पतऽइमंदेवयज्ञःस्वाहावार्तेधाःस्वाहा
इतिबर्हिर्होमः । ततः आचारादशदिक्पालेभ्योदधि
माषबलिर्देयः क्षेत्रपालबलिदानं च ॥ ततःस्थालीपा

(७४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

कादिपक्वान्नेनगणपतिप्रमुखसूर्यादिग्रहेभ्यस्तत्तन्मंत्रै
र्बलिर्देयः । ततोब्राह्मणभोजनम् ।

भा० टी०—स्तरणक्रमसे कुशाग्रहणकर घृतलगाय हाथसे हवन करे । देवागातु इसमंत्रसे इसका अर्थ विवाहप्रकरणमें लिखा है । फिर आचारसे दशदिक्पालोंको दधियुक्त माषोंकी बलि देनी दश दिक्पाल यह हैं ॥ इंद्र १ वह्नि २ धर्मराज ३ नैर्ऋत ४ वरुण ५ मरुत् ६ कुबेर ७ ईश ८ और पृथ्वी आकाशका स्वामी २ । यह १० अनंतर स्थालीपाकसे पकाहुआ पक्वान्नेसे श्रीगणेशजीसे आदि सूर्यादि नवग्रह ॐ कार सर्प योगिनी अर्थात् जो २ पीछे स्थापन किये हैं उनके मंत्रोंसे सबको बलिदान करना ॥ ॥

ॐअद्यकरिष्यमाणभोजनसांगतासिद्धचर्थमिदंदाक्षि
णाद्रव्यंतेभ्योविभज्यदातुमहमुत्सृजे । ततोगुरवेदाक्षि
णादेया ॥ ततः छायापात्रदानम् । तदनंतरंपूर्णाहुतिः
तद्यथा स्रुवेणपूगीफलादिकंगृहीत्वा ॥

यजु० अध्याय ७ मंत्र २४ ॥

ॐमूर्धानंदिवोऽअरुतिम्पृथिव्यावैश्वानर
मृतऽआजातमग्निम् । क्विथं सुम्भ्राजमति
थिअनानामासन्नापात्रंअनयन्तदेवाःस्वा
हा ॥ ततःस्रुवेण भस्मानीयदक्षिणाना
मिकागृहीतभस्मना ॐत्र्यायुषंजमदग्नेः

इति ललाटे । ॐ कश्यपस्यत्र्यायुषम्
इति ग्रीवायाम् । ॐ यद्देवेषुत्र्यायुषम्
इति दक्षिणबाहुमूले । ॐ तन्नो अस्तुत्र्या
युषम् इति हृदि ॥

भा० टी०—प्रथम संकल्प ब्राह्मणोंकी दक्षिणाका है । पीछे छायापात्र दान करना अनंतर फल पुष्प सुवर्ण स्थित घृतसे मूर्धानं इस मन्त्रसे पूर्णाहुति करनी । इस मन्त्रका अर्थ विवाह प्रकरणमें लिखा है ॥

यजमानपक्षेतन्नोइत्यस्यस्थाने तत्ते इति विशेषः । त तोऽभिषेकः ॥ तन्नाम्रपल्लवकुशादिकेनकलशस्थज लमानीयआपोहिष्ठेत्यादिमंत्रेणयजमानमभिषिचेत् ॥ आचार्यादीनाम् दक्षिणादेया ततोभूयसीदद्या त् । ॐ आज्येन वर्द्धते बुद्धिराज्येनवर्द्धतेयशः । आज्येन वर्द्धते आयुर्दर्शनंपापनाशनम् । अथ विशेष पूजा । ग्रहागावोनरेन्द्राश्चब्राह्मणाश्चविशेषतः । पूजि ताः प्रतिपूज्यंतेसावधानाभवन्तुते । अथ अग्निवि सर्जनम् । गच्छगच्छसुरश्रेष्ठस्वस्थानंपरमेश्वर ॥ यत्रब्रह्मादयोदेवास्तत्रगच्छहुताशन ॥

भा० टी०—घृतसे बुद्धि बल यश आयु वृद्धिको प्राप्त होते हैं और पाप नष्ट होते हैं । आयुवृद्धिमें प्रमाण भावप्रकाश चिकित्सा शास्त्रमें जैसे (स्वमाननं घृते पश्येद्यदीच्छेच्चिरजीवितुम्) ग्रह

(७६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

गौ ब्राह्मण राजा ये पूजन किये हुये विशेष फल देते हैं
गच्छ २ इस मंत्रसे अग्नि का विसर्जन करना ॥

आगतास्तु यथान्यायं पूजितास्तु यथाविधि । कृत्वा
कृपां मयि देवाय त्रासं स्तत्र गच्छत ॥ यजमानहिता
र्थाय पुनरागमनाय च । शत्रूणां बुद्धिनाशाय मित्रा
णामुदयाय च ॥ यथाशस्त्रप्रहाराणां कवचं वारणं भ
वेत् । तद्वदेवाभिघातानां शांतिर्भवति वारणम् ॥ अथ
ग्रहादीनां विसर्जनम् ॥ यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामा
दाय मामकीम् । यजमानहितार्थाय पुनरागमनाय च ॥

ऋ० प्र० अष्टक अ० १ मं० १ ॥

ॐ अग्निमीळे पुरोहितं युज्ञस्य देवमृत्विजम् ।
होतारं रत्नधातमम् ॥

भा० टी०—भलीभाँति आये हुये और पूजन किये हुये मुझपर
कृपा कर अपने २ स्थानको देवगण सिधारेँ यजमानकी कुशल
ताके लिये तथा फिर आवें ॥ जैसे खड्गादि शस्त्रोंके प्रहा-
रसे रक्षा करनेवाला कवच (संजावा) होता है तद्वत् संपूर्ण
विघ्नोंके दूर करनेके लिये शांति है अग्निमीळे यह मन्त्र ऋग्वेदके
आदिका है ॥

ॐ विष्णुस्तत्सदद्यामुकगोत्रोहममुकशर्माहं इदं समि
ष्टं घृतपक्वं विष्णुदैवतं भगवद्विष्णुप्रीतये । यथानामगो
त्राय ब्राह्मणाय अहं ददे । ॐ अद्यकृतैतत्समिष्टघृतप

कदानप्रतिष्ठासांगतासिद्धचर्थम् विष्णुप्रीतयेयथानाम
गोत्रब्राह्मणायदक्षिणांदातुमहमुत्मृजे । ॐ अद्यतत्सद्वि
वाहांगत्वेनेदमिष्टघृतपक्वंविष्णुदैवतम् कुलदेवताप्रीत
येसौभाग्यताप्राप्तयेयथानामगोत्राय ब्राह्मणायहंद
दे । इतिकन्यापक्षे ॥ ततः सुपूजितंकंकणबंधनम् तत
स्तिलकंकुर्यात् । तदनंतरंसूर्यायार्घ्यदानम् ॥ इति
श्रीकात्यायनीशान्तिः समाप्ता ॥ शुभं भूयात् ॥

भा० टी०—अमुकगोत्रब्राह्मणको विष्णुप्रीतिके लिये घृतपक्क
अन्न देता हूं और इसकी प्रतिष्ठाके लिये दक्षिणा देता हूं ।
कन्यापक्षमें सौभाग्यताके लिये यह पद कहना । फिर पूजनकर
कंकण बाँधना तिलक करना ॥

इति श्रीकर्पूरस्थलनिवासिगौतमगोत्र (शोरि)
अन्वयालंकृतश्रीअपारमहिमा पं० घनैयारामतत्पुत्र
वैकुण्ठपीठाधिष्ठितश्रीतुलसीरामतत्पुत्रश्रीसकलजन
बंधदैवज्ञदुनिचन्द्रतदात्मजशौर्यौदार्यधैर्य्याद्यलं
कृतअधीतवेदवेदांगधर्मशास्त्रादिश्रीपंडितविष्णुद
त्तवैदिककृतकात्यायनीशांतिटीका । अद्रिवेदांकभू
मिते १९४७ वैक्रमेमाधवेमासिकृष्णदशम्यां
चंद्रवासरसमाप्तिमगात् ॥ माचसुभावहास्यात्
श्रीरामचंद्रप्रसादात् ॥

अथ शांतिसामग्री ।

मौली रोला पंचरंग आटा चावल गुड केशर पुष्प धूप दीप

(७८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

नैवेद्य ताम्बूल सुपारी ७ बताने मठिया घुंगनिया दालां ७ घृत
तैल कुशा स्रुव पलाश समिधा पटर्डी यव तिल गोमय बटना
कंकण रेत पत्र ग्रहजप । इति ॥

अथ चतुर्थप्रकरणम् ।

ॐस्वस्ति श्रीगणेशायनमः ॥ ॐवंदपुरुषायनमः ॥ श्रीः ॥ अथ
विवाहसामग्रीलिख्यते ॥ आटा गुड चावल मौली रोली केशर
पुष्प नैवेद्य मेवा धूप दीप अंटे ७ सुपारियाँ ११ दूर्वा चंदन पुष्प
माला २ आम्रकेपत्र १०० पटर्डियाँ २ वेद १ चन्दोया १ खारे २ वा चाँकि
या २ घृत प्रणीतापात्र प्रोक्षणीपात्र कांस्यपात्र २ मधुपर्क गौका दुग्ध
दधि घृत शहत नारियल १ धोती उपर्णा बालकनृ । अर्धचाँल अट्टे
२ सिंदूर शूर्प १ लाजा अर्धशेर जंडिकेपत्र शण शंख मुवर्ण
बीडेपानके २ पूर्णपात्र १ चावल अभिषेकके लिये गागर वा कुंभ
वा कौरी १ समिधा पलाश वा बेरीकी १० सेर बटना शिलाबट्टा
शर्करा वहारी १ सालूगिरा ५ पर्णा १ कुशा समवस्त्र गज ४
स्रुवा १ आसन २ अर्धा हलपजाली मठिया ५ इति ॥ अथचतुः
र्थदिनमें चतुर्थीकर्मकी सामग्री लि० आटा गुड मौली चावल
केशर धूप दीप नैवेद्य सुपारियाँ ५ दूर्वा आम्रपत्र १० पटर्डियाँ २
चंदोया १ घृत प्रणीता प्रोक्षणी अर्धचावल पृथूदकपात्र कुनाली १
हलपजाली गौदुग्ध अर्धसेर चावल पूर्णपात्र १ वस्त्रगज १० सिंदूर

डांगा ४ शण सुवर्ण रेत सुवा कुशा समिधा चरुस्थाली इति
चतुर्थीकर्मसामग्री ॥

१ अथकन्योद्वाहेयजमानकर्तृकप्रतिज्ञासंकल्पःॐवि
ष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्यब्रह्मणोद्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवा
गहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमेयुगे कलि-
युगेप्रथमचरणे अमुकसंवत्सरेऽमुकगोलेऽमुकायनेऽ
मुकपदेऽमुकमासेऽमुकतिथौ नक्षत्रकरणयोगयुक्तेऽमु-
कवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नोहं जन्मनामतःप्रसिद्धनाम-
तश्चामुकशर्माहं कृतकायिकमानसिकसांसर्गिकज्ञा
ताज्ञातसमस्तदोषपरिहारार्थम् श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त
फलावाप्तिकामःश्रीयज्ञपुरुषनारायणप्रीत्यर्थं तत्प्रसा
दात्कायवाङ्मनोभिर्महापातकादिदोषनिवृत्तिपूर्वकै
हिकामुष्मिकेश्वरप्रसादानुरूपविभवयोगक्षेमप्राप्तयेच
अश्वमेधपुण्यजनकताकपुत्रीविवाहात्मकदानमहंकरि-
ष्ये । तन्निर्विघ्नतासिद्धये यथोपलब्धोपचारद्रव्यै
र्गणपत्यादिनवग्रहपूजनमहंकरिष्ये ॥ इति ॥ पश्चा
त्तृगणेशादिपूजनंकुर्यात् ॥

२-अथ यजमानकर्तृकशुभ्रचोलधौतोत्तरीयाणां दा
नसंकल्पः ॥ अद्येत्यादि० पुत्रीविवाहकर्मणि क-
न्यादानप्रतिपत्त्यर्थमादाविमानि चतुष्टयवस्त्राणि प-
ट्टकार्पासादिसंपादितानि मांजिष्टारिष्टादिनारंजितानि
बृहस्पतिदेवतानि कन्यावरयोर्ववाहिकसमये परिधा-

(८०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

नयोग्यानि सदक्षिणानि अमुकगोत्रप्रवगायाऽमुकना-
मशर्मणे विष्णुरूपिणेवरायतुभ्यमहं संप्रददे ॥ इति
शुभ्रचोलादिदानम् ॥

३-अथ कन्यापितृकर्तृकवेदीदानसंकल्पः ॥ ३ ॥
ॐ तत्सदद्येति० नानारागानुरूपयज्ञाधिष्ठातृपरमे-
श्वरादिविशेषणवतोभगवतः प्रीत्यर्थम् तत्प्रसादान्
याज्ञिकभूमिदानजन्यनानास्वर्गादिफलप्राप्तये इ-
मानि रजतमुद्रिकानि चन्द्रद्वैवतानिसदक्षिणानिक-
न्यावैवाहिकचतुष्टयवंशनिर्मितस्तंभवेदिकान्तरभूमि-
प्रतिनिध्यात्मकानियथानामगोत्राय० इतिवेदीदान-
संकल्पः ॥

४-अथ यजमानकर्तृकचतुर्थीदानसंकल्पः ॐ अद्ये
त्यादि० कृतैतत्पुत्रीविवाहचतुर्थीकर्मप्रतिष्ठार्थंसां
गतासिद्धयर्थंचेमांरजतमुद्रिकां सदक्षिणांचन्द्रद्वैवतां
अमुकगोत्राय अमुकशर्मणेब्राह्मणायतुभ्यमहंसंप्रद-
दे० स्वस्तीति प्रतिवचनं सर्वत्र० इतिचतुर्थीदानम् ॥

५-अथ यजमानकर्तृकउपाध्यायदक्षिणासंकल्पः ॥
ॐ अद्येत्यादि० कृतैतदग्निष्टोमादिकृतसमपुत्रविवाह
योगमंत्रोच्चारणादिकर्तव्यताककर्मप्रतिष्ठार्थम् । सां-
गतासिद्धयर्थंचेदंद्रव्यरजतंचन्द्रद्वैवतम् अमुकगोत्रायाऽ
मुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहंसंप्रददे ॥ इति ॥

६ अथ—यजमानकर्तृककन्यायज्ञान्ते अन्नदानभू-
द्रिव्यदानसंकल्पः ॥ ॐ अद्येत्यादि० श्रीयज्ञपुरुष
परमेश्वरप्रीत्यर्थम् तत्प्रसादादवगताऽनवगतसक
लदुरितोपदुरितशमनपुरस्सराक्षयफलावाप्तये च वर-
वध्वोः पूर्णायुरादिसुखसंपत्तिसिद्धये प्रजापतिकम्
दास्यमानान्नं तथाभूरिद्रव्यंताम्रंवारजतं सूर्यदैवतं
वा चंद्रदैवतं सदक्षिणं यथा २ नामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणे
भ्यो विभज्यदातुमहमुत्सजे ॥ इतिकन्यापितृ-
कर्तृकनानाद्रव्यदानसंकल्पः ॥ शुभमस्तु ॥

७ अथ—बालककर्तृकविवाहप्रतिज्ञासंकल्पः ॥ ॐ
तत्सदद्येति जन्मलग्नतो वर्षलग्नतश्च तथा वैवा-
हिकलग्नतः खेटावेदतानिष्टफलनिरसनोत्तरेष्टफल-
प्राप्तिपुरस्सरसकलकर्मसिद्धयर्थं गार्हस्थ्यनानाक-
र्माधिष्ठानात्मकस्वविवाहकर्माहंकरिष्ये ॥ तदं
गत्वेनतन्निर्विघ्नतासिद्धयर्थमादौगणपत्यादिनवग्रहपू-
जनमहंकरिष्ये ॥ १ ॥ इति ॥

८—अथ पत्नीप्रतिग्रहगोदानसंकल्पः ॥ ॐ तत्स-
दद्येत्यादि० श्रौतस्मार्तवैदिकेतिहासपुराणोक्तफला-
वाप्तिकामः । श्रीपरमेश्वरनारायणादिविशेषेणविशि-
ष्टभगवत्प्रीत्यर्थं तत्प्रसादात् जन्मराशितोनामरा-
शितश्च जन्मलग्नतोवर्षलग्नतश्च जन्यजननजनिष्य-
माणात्मकदोषत्रयनिरसनोत्तरजन्मलग्नतो विवा-

(८२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

हलग्रतश्चानिष्टखेटावेदिताशुभदुरितक्रमनिवृत्तये प-
त्नीपाणिग्रहणजन्यप्रतिग्रहविशेषताकपुरस्सरभा-
र्यात्रिवर्गकरणमित्यनेनप्रतिपादितधर्मार्थकामप्रतिपत्त-
येचेमांगां सुवर्णरजतवस्त्रैः यथाशक्त्यलंकृतां
कांस्यदोहोपयुक्तां सवत्सां मुक्तालांगूलभूषितां
सुशीलां रुद्रदैवतां अमुकगोत्राय अमुकशर्म-
णे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे ॥ * अथद-
क्षिणासंकल्पः ॥ ॐ अद्यकृतैतद्गोदानप्रतिष्ठार्थं
मिदंद्रव्यं रजतंवा सुवर्णं चन्द्रदैवतंवाअग्निदैवतं यथा-
नामगोत्रायेत्यादि ॥

९-अथ गोदानाभावे दक्षिणादानसंकल्पः ॥ ॐअद्ये
त्यादि सर्वं पूर्ववत्० इमांगामित्यस्यस्थाने गोदानप्र-
तिनिधिभूतमिदं द्रव्यममुकदैवतं यथानामगोत्राय
ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे ॥ दक्षिणापूर्ववत् ॥

१०-अथ उपाध्यायदक्षिणादानसंकल्पः ॥ ॥
ॐअद्येत्यादि० गतानवगतसकलदुरितोपदुरितक्ष-
यपुरस्सरसकलत्रस्वशरीरकल्याणोत्तरपूर्णायुरादि-
सुखसंपत्ति सिद्धिकामः कृतैतज्जन्मादिदशसंस्कारां
तर्गतस्वविवाहात्मकमहत्संस्कारमंत्रोच्चारणकारयित
व्यकर्तव्यताककर्मप्रतिष्ठार्थं च । साङ्गतासिद्धय
र्थम् इमाममुकद्रव्यमयीमुपाध्यायदक्षिणाममुकः

दैवतां यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणांदातुमहमु
त्सृजे १ इति ॥

११-अथ विवाहे यजमानकर्तृकस्वद्वादानसंक
ल्पः । तत्रकन्यापितासपत्नीकःकृतनित्याक्रियःकृमि
जवस्त्रपरिधानपूर्वकोत्तराभिमुखः । आदौगोधूमचूर्णे
नगणपत्यादीन्विधाय स्वस्तिवाचनपूर्वकं प्रतिज्ञा
संकल्पंकुर्यात् ॥ ॐतत्सदद्येत्यादि देशकालपू
र्वक० श्रुतिस्मृत्याद्युक्तफलावाप्तिपुरस्सरावगतानव
गतसकलदुरितमहापातकक्षयानंतरज्ञाताज्ञातकृत
कायवाङ्मनःकृतसमस्तपातकोपपातकजन्मत्रयो
पार्जितपापक्षयकामः । राजद्वारतोव्यवहारतश्चसुप्रति
ष्ठितैश्वर्यसुखावाप्तये च । श्रीमद्भगवच्चरणारविंदप्रीति
जनककन्यादेहरोमसमसंख्याकल्पावच्छिन्नस्वर्गलो
कवासजनककन्योद्गाहांगभूत-विचित्रवर्णवस्त्राद्याभर
णरीतिकांस्यलोहपैतलत्रपुसीसकमाष-पिष्टपक्रान्न
रजतसुवर्णरूप्याद्यनेकभूषण-ताम्राद्यनेकद्रव्ययु
क्तस्वद्वादानमहं करिष्ये ॥ ॥ ततः दक्षिणशिरस
मुत्तरपादां तूलकोपधानादिपुरस्कृतां वस्त्राभरण
पात्राद्यलंकृतां स्वद्वां वरकन्यारोहणपूर्वकां पूर्व
दिक्पार्श्वरक्तसूत्रोपबद्धां कन्यापितापत्न्यासह ग्रंथि
बंधनंकृत्वा स्वद्वातंतुगंधाक्षतपुष्पजलैः संकल्पं
कुर्यात् ॥ १२ ॥ अथ-ॐतत्सदद्येत्यादि देशकालौ

संकीर्त्य० श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासेत्यादि प्रतिपा
दितफलावाप्तिकामोऽवगतानवगत-सकलदुरितोपदु-
रितक्षयकामश्चनानापटतंतु-संख्यासमानानेककल्पा
वच्छिन्नवैकुण्ठलोकप्राप्तिकामः श्रीलक्ष्मीनारायणप्री
तिजनकबहुअश्वमेधयज्ञफलमूचकस्वपुत्रीविवाहाङ्ग
भूतामिमां सतूलोपधानादिसंस्कृतां खट्वामुत्ताना
मांगिरोदैवतां बृहस्पतिदेवताकसितरक्तपीताद्यनेक
विधसुवर्णरजततंतुमिश्रितवस्त्रसंगुताम् । विश्वकर्मदे
वताकैः यथापरिमितैः रीतिकांस्यलोहमयपात्रैः
सपात्रितां चंद्राग्निसामुद्रदैवताकानेकविधकिर
चितरजतसुवर्णभूषणविभूषितां प्रजापतिदैवताक
विविधपक्वान्नाद्याधिकरणकां सूर्यचंद्रदेवताकयथा
परिमितताम्ररजतमयैः द्रव्यैस्सदक्षिणाममुकगो
त्राय अमुकप्रवरायासुकनाम्ने वराय तुभ्यमहं संप्र-
ददे ॥ स्वस्तीति प्रतिवचनं वरप्रत्युक्तिर्वा ॥ दक्षि
णायामिन्नसंकल्पः । ॐअद्यकृतैतत्स्वत्वादानप्रति
ष्टार्थमिदं ताम्ररजतद्रव्यं सूर्यचंद्रदैवतममुक
आचारात् कन्यादाता सकलत्रः जलेनवरकन्यासहि
तस्वत्वांसव्येन वेष्टनंकुर्यात् ततः सपत्नीकोयजमानः
स्वत्वापश्चिमभागेपूर्वाभिमुखःसन् कन्यावरक्षितधा
न्यानिगृहीगृह्णीयात्सर्वांधवैः ॥ अथधान्यप्रक्षेपेमंत्रः
॥ ॐविश्वामित्रो जमदग्निर्वसिष्ठो गौतमस्तथा ।

कश्यपोत्रिभरद्वाजोविष्णुब्रह्मादयश्चये । तेसर्वैत्वां
 प्रयच्छंतु धनधान्यादिसंपदम् ॥ ॐ सनकः सनंदनाद्या
 श्वधेनवोमातरस्तथा ॥ देवाःसर्वेप्रयच्छंतु धनंधान्यं
 सदागृहे ॥ २ ॥ ॐ चिरञ्जीवतुमेमाता चिरञ्जीवतुमेपिता ॥
 चिरञ्जीवतुमेभ्राता चिरंजीवतुबांधवाः ॥ ३ ॥ ॐ दि
 वारक्षतुसूर्योयं रात्रौरक्षतुचंद्रमाः ॥ वंशंरक्षतुभौमश्च
 धनधान्यादिसंपदाम् ॥ ४ ॥ पितृवंशंबुधोरक्षेन्मातृ
 वंशंगुरुस्तथा ॥ बंधुवर्गंचरक्षेत्तुभृगुर्देत्यपुरोहितः ॥
 ॥ ५ ॥ अश्विन्यादीनिऋक्षाणि योगाविष्कंभका
 दयः ॥ तिथयःप्रतिपदाद्याः शुभंयच्छन्तुतेसदा ॥ ६ ॥
 ॐ तेजोवृद्धिर्यशोवृद्धिर्वशवृद्धिस्तथैवच ॥ लोककी
 र्तिर्भवेत्तात धनधान्यंसदागृहे ॥ ७ ॥ ॐ गंगाद्याः
 सरितः सर्वाः शोणाद्याश्चनदास्तथा ॥ कृतंपापं प्र
 शाम्यंतु प्रयच्छन्तुसुखंचते ॥ ८ ॥ ततोयजमानः
 श्रीसूर्यायार्घ्यं दद्यात् ॥ इतिखड्गदानविधिः ॥

(अथ गोत्रोच्चारणम्)

ॐ श्रीमत्पंकजविष्टरौ हरिहरौ वायुर्महेन्द्रोनल
 श्चंद्रोभास्करवित्तपालवरुणाः प्रेताधिपाद्याग्रहाः ॥
 प्रद्युम्नो नलकूबरौ सुरगजश्चितामणिः कौस्तुभः
 स्वामीशक्तिधरश्चलांगधरः कुर्वतु वो मंगलम् ॥
 ॥ १ ॥ श्लोकान्तेगोत्रमुच्चारयेयुः ॥ ३ ॥ गौरीश्रीकुलदेव

(८६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ताचसुभगाभूमिः प्रपूर्णाशुभा सावित्रीचसरस्वती
चसुराभिःसत्यव्रतारुंधती ॥ स्वाहाजाम्भवती च रु
क्मभगिनीदुःस्वप्रविध्वंसिनी वेलाचांबुनिधेःसमीन
मकरा कुर्वतु वो मङ्गलम् ॥ २ ॥ गंगासिन्धुसरस्व
तीच यमुनागोदावरीनर्मदा कावेरीसरयूर्महेंद्रतनया
चर्मण्वती वेदिका ॥ क्षिप्रावेत्रवती महासुरन
दी ख्याता च यागंडकी पुण्याः पुण्यजलैः समुद्रस
हिताः कुर्वतु वो मङ्गलम् ॥ ३ ॥ लक्ष्मीःकौस्तुभपा
रिजातकसुराधन्वंतरिश्वंद्रमाधेनुः कामदुधा सुरेश्व-
रगजो रंभाचदेवांगना ॥ अश्वःसप्तमुखो विषं हरि-
धनुः शंखोमृतं चांबुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं
कुर्वतुवो मङ्गलम् ॥ ४ ॥ ब्रह्मादेवपतिः शिवः पशु
पतिः सूर्योग्रहाणांपतिःशक्रोवेदपतिर्हविर्हुतपतिः स्कं
दश्चसेनापतिः ॥ विष्णुर्यज्ञपतिर्यमःपितृपतिः श-
क्तिः पतीनांपतिः सर्वे ते पतयः सुमेरुसहिताः कुर्वतु
वो मङ्गलम् ॥ ५ ॥ इति सर्वोपयोगिगोत्रोच्चारणम् ॥
इति श्रीगौतमान्वयालंकृत (शौरि) दैवज्ञममार्य
श्रीदुनिचंद्रसंगृहीतं संकल्पकरणं समाप्तम्।शुभम् ॥
अथ निबाहुरामटीकायाम् । कन्यासंकल्प
विधिः ॥ हरिॐ ॥ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः पुनातु
अद्यतत्सद्ब्रह्म अथानन्यवीर्यस्य श्रीमदादिनारा

यणस्याऽचित्यापारिमिताऽनंतशक्तिसमन्वितस्य
 स्वकीयमूलप्रकृतिपरमशक्त्याप्रकीडमानस्य स
 च्चिदानन्दसन्दोहस्वरूपेस्वात्मनिसर्वाधिष्ठाने स्वा
 ज्ञानकल्पितानां महाजलौघमध्ये परिभ्रम्यमा
 णानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमेऽस्मिन् ब्रह्माण्डे
 ऽव्यक्तमहदहङ्कार-पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादिभिर्द
 शगुणोत्तरैरावरणैरावृते आधारशक्तिश्रीकूर्मवराह
 धर्मानन्ताष्टदिग्गजादिप्रतिष्ठिते ऐरावतपुण्डरी
 कवामनकुमुदाऽञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौमसुप्रतीका
 ख्याष्टदिग्दन्तिशुण्डादण्डोत्तण्डितैतद्ब्रह्माण्डख-
 ण्डयोरन्तर्गतभूलोकभुवलोकस्वलोकमहलोकजन
 लोकतपोलोकसत्यलोकाख्यानां सर्वज्ञसर्व
 शक्तिसमन्वितसर्वोत्तमसर्वाधिपश्रीचतुर्मुखप्रभृ
 तिस्वस्वलोकाधिष्ठातृपुरुषाधिष्ठितानामधोभागे
 फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामण्डलैकफणोपरि
 संर्षपैककणायमानमहीमण्डलान्तर्गतातलवितल
 सुतलतलातलरसातलमहातलपातालानां स्वस्वा
 धिष्ठात्रधिष्ठितानामुपरितने सुमेरुमंदरमन्दराचल
 निषधहिमगिरिशृङ्गवद्धेमकूटदुर्द्धरपारियात्र-
 शैलमहाशैलमहेन्द्रसह्याद्रिमलयाचलविंध्यर्ष्यमू
 कचित्रकूट-मैनाक-मानसोत्तरत्रिकूटोदयाचला

(८८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

स्ताचलपर्यन्तानैकाभिधानाद्रिगणप्रतिष्ठितायां
जम्बूप्लक्षशालमलीकुशक्रौञ्चशाकपुष्कराख्य
सप्तद्वीपवत्यां लवणेशुसुरासर्पिर्दधिक्षीरशुद्धोदका
ख्यसप्तसागरसमन्वितायां समस्तभूरेखायां कमल
कदम्बगोलकाकारायां वर्तमाने कुवलयकोशान्त
र्गतदलवद्विराजमान उत्तरकुरुहिरण्मयरम्यकभ
द्राश्वकेतुमालेलावृतहरिवर्ष—किम्पुरुषभारता
ख्यनवरखण्डवति जम्बूद्वीपे सर्वेभ्योप्यतिरिक्तसा
खतिदेवादिभिरप्यभीष्टसुकृतक्षेत्रभूतहेतुनाभिल
षिततमे अङ्गवङ्गकलिङ्गकालिङ्गकाम्बोज-
सौवीर—सौराष्ट्र—महाराष्ट्र—बङ्गालोत्कलमगधमालव
नेपालकेरलचोरल गौडमलपाञ्चाल सिंहलम
त्स्य द्रविड द्राविड कर्णाट रावट शूरसेन कोङ्कण
टोंकण पाण्ड्य पुलिन्दान्ध्य द्रौण दशार्ण विदेह वि
दर्भ मैथिल कैकय कोशल कुंतल मैन्धुव जाबल
सार्वसिन्धु शालभद्र मध्यदेश पर्वत काश्मीर
पुष्टाहार सिन्धु पारसीक गान्धार बाह्लीक (हूण)
प्रभृतिबहुविधदेशविशेषसंपन्ने दण्डकारण्य महा
रण्यद्वैतारण्य कामुकारण्य सैन्धवारण्य प्रभृत्य
नेकारण्यवति श्रीगंगा यमुना सरस्वती गोदावरी
नन्दाअलकनन्दा मन्दाकिनी कौशिकी नर्मदा सरयू

कर्मनाशा चर्मण्वती क्षिप्रा वेत्रवती कावेरी फल्गु
 मार्कण्डेय रामगंगा शतद्रु विपाशैरावती चन्द्रभा
 गा वितस्ता सिन्धु दृषद्रती प्रभृत्यनेकनदनदीवति
 कुरुक्षेत्र हरिद्रार क्षेत्रमाल क्षेत्रादि बहुक्षेत्रान्विते
 भारतखण्डे तत्रापि मध्यरेखाकुरुक्षेत्रादमुकदिग्भा
 गे अमुकनदीमध्ये श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्व
 न्तरेऽष्टाविंशे कलियुगे कलिप्रथमचरणे आर्यावर्ते
 पुण्यबृहस्पतिकक्षेत्रे शुभसंवत्सरेऽस्मिन्नमुकायनगत
 सूर्ये अमुकर्तावमुकमासेऽमुकपेक्षेऽमुकतिथाव
 मुकवासरे यथायोगकरणमुहूर्ते वर्तमाने चंद्रतारा
 ऽनुकूले पुण्येऽहनि अमुकगोत्रस्य अमुकसूत्रिणोऽमु
 कशर्मणः प्रपौत्राय ॥ १ ॥ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्या
 ऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः
 पौत्राय ॥ २ ॥ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्याऽमुक
 वेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पु
 त्राय ॥ ३ ॥ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्याऽमुक
 वेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः प्रपौ
 त्रीम् ॥ १ ॥ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य अमुकवेदिनो
 ऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पौत्रीम् ॥ २ ॥ अमुकगोत्रस्या
 मुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः
 पुत्रीम् ॥ ३ ॥ इत्येवम् गोत्रप्रवरादिनिरूपणपूर्वकप्रपिता
 महादिसंज्ञासंबंधकथनं त्रिसवर्त्य ३ अमुकगोत्राव

(९०)

विवाहपद्धति भा० टी० ।

यथोक्तप्रवरायाऽमुकवेदिनेऽमुकशाखिनेऽमुकसूत्रिणे
अमुकशर्मणे ब्राह्मणाय वराय अमुकगोत्रां यथोक्तप्रव
राममुकनाम्नीमिमां कन्यां यथाशक्त्यलंकृतामहत
वस्त्रद्रयावृतां विवाहदीक्षितां प्रजापतिदेवतिकां गङ्गा
वालुकाभिः सप्तर्षिमण्डलपर्यन्त गशीकृतरणुपुञ्जस्य
मध्यार्द्रपसहस्रावसाने एकैकवालुकापकर्पणेन सर्व
वालुकापकर्पणसम्मितकालपर्यन्तं सूर्यलोकनिवा
ससिद्धयर्थं यवैश्वन्द्रमण्डलपर्यन्तं कृतयवराशि
तो वर्षसहस्रावसाने एकैकयवापकर्पणेन सर्वयवाप
कर्पणसम्मितकालपर्यन्तं चंद्रलोकनिवाससिद्धय
र्थं मापैर्ध्रुवमण्डलपर्यन्तगशीकृतमापैभ्यो वर्ष
सहस्रावसाने एकैकमापापकर्पणसंमितकालं याव
द्विष्णुलोक रुद्रलोक ध्रुवलोक निवाससिद्धयर्थं
गन्धर्वाप्सरोगणमण्डित हंस पारावत शुकसागिका
रुतनादित किङ्किणीशतसमलंकृत दिव्यविमानेन
मनोभिलपित देशगमन पूर्वक गिरि नदी नद सिं
धुद्रीपदिव्यदेश नन्दन चैत्ररथ प्रभृति स्थानेषु स्वा
भिलपित भोग्यविषयोपभोगार्थं मया सह दशपूर्वेषां
दशावरेषां मद्रंश्यानामग्निष्टोमातिरात्रवाजपेय पु
ण्डरीकाश्वमेध ऋतुशतफलजन्य ब्रह्मलोक निवा
सार्थं पत्नीत्वेन तुभ्यमहं संप्रददे ॥ इति शंखावस्थि
तद्रव्ययुत जलेन सह कन्याहस्तं [सांगुष्ठं]

वृहस्ते दद्यात् ॥ इति निवाहुरामटीकाधृतकन्या
संकल्पविधानम् ॥ श्रीः ॥

अथ संस्कारभास्करोक्तः संक्षेपतः कन्यासंकल्पः ॥
ततो दाता स्वदक्षिणे पत्न्या सह वरदक्षिणपार्श्व
भागे शुभासने उदङ्मुख उपविश्य आचम्य प्राणा
नायम्य संवत्सरादि क्षेत्रादि देशकालौ संकीर्त्य एवं
गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ॥ अस्मि
न्पुण्याहे अस्याः कन्याया अनेन वरेण धर्मप्रजया
उभयोः वंशयोर्वशवृद्धयर्थं तथा च मम समस्तपितृ
णां निगतिशयसानन्द ब्रह्मलोकावाप्त्यादि कन्यादान
कल्योक्त फलावाप्तये अनेन वरेण अस्यां कन्याया
मत्पादयिष्यमाणसंतत्या दशपूर्वान्दशावगन् मां च
एकविंशतिपुरुषानुद्धर्तुं ब्राह्मविवाहविधिना श्रील
क्ष्मीनाराणयप्रीतये कन्यादानमहं करिष्ये इति ॥
अत्र सर्वसंकल्पादिषु शर्मा इत्यस्यस्थाने शत्रिय
वैश्यविवाहे वर्मगुप्तक्रमेण कथनम् ॥ यत्र अद्ये-
त्यादि० दृश्यते तत्र पूर्वमुक्तं सर्वं योजनीयम् ॥ गोत्रो
च्चारणं श्लोकान्ते संकल्पविहितम् । प्रपितामहपूर्विका
वंशसंख्या कथनीया इति परिभाषा ॥ अनुक्तं श्लो-
कतः सर्वं ज्ञातव्यम् ॥ श्रीः ॥

अथ त्रैवर्णिकानां पूजनार्थं शुक्लयजुर्वेदोक्तं सुस्वर
सहितं नवग्रहमंत्रविधानं लिख्यते ॥

(९२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

अथ सूर्यकण्डिका ॥

आकृष्णेनुरजसावर्तमानोनिवेशयन्नमृत
म्मर्त्यञ्च ॥ हिरण्ययेनसवितारथेनादेवो
यातिभुवनानिपश्यन् ॥ १ ॥

अथ चन्द्रमःकण्डिका ॥

इमन्देवाअसपत्नश्चसुबध्वम्महतेक्षत्राय
महतेज्यैष्ठ्यायमहतेजानराज्यायेन्द्रस्ये
न्द्रियाय ॥ इमममुष्यपुत्रममुष्यै पुत्र
मस्यैविशऽएषवोमीराजासोमोस्माकम्ब्रा
ह्मणानाश्चराजा ॥ २ ॥

अथ भौमकण्डिका ॥

अग्निर्मूर्द्धादिवक्त्रकुत्पतिःपृथिव्याऽअ
यम् । अपाश्चरेताश्चसिजिन्वति ॥ ३ ॥

अथ बुधकण्डिका ॥

उद्बुद्धयस्वाग्नेप्रति जागृहित्वमिष्टापुर्ते
सश्चसृजेथामयञ्च ॥ अस्मिन्त्सुधस्थेऽध्यु
त्तरस्मिन्निवश्वेदेवायजमानश्चसीदत ॥ ४ ॥

अथ बृहस्पतिकण्डिका ॥

बहस्पतेऽअतियदुर्योऽअर्हाद्युमद्विभा
तिक्रतुमज्जनेषु ॥ युद्दीदयच्छर्वसऽऋत
प्रजातुतदस्मासुद्रविणन्धेहिचित्रम् ॥ ५ ॥

अथ शुक्रकण्डिका ॥

अन्नात्परिसृतोरसम्ब्रह्मणाव्युपिवत्क्षुत्र
म्पयुं सोमम्प्रजापतिं ॥ ऋतेनसत्यमि
न्द्रियं विपानं शुक्रमन्धसुऽइन्द्रस्येन्द्रि
यमिदम्पयोमृतम्मधु ॥ ६ ॥

अथ शनिकण्डिका ॥

शन्नोदेवीरभिष्टयुऽआपोभवन्तुपीतये ।
शय्योरभिस्रवन्तुनं ॥ ७ ॥

अथ राहुकण्डिका ॥

कयानश्चित्रऽआभुवदुतीसुदावृधुं सर्वा ।
कयाशचिष्ययावृता ॥ ८ ॥

अथ केतुकण्डिका ॥

केतुङ्खण्वन्नकेतवेपेशोमय्याअपेशसे । स
मुषद्भिरजायथाह ॥ ९ ॥ इति ॥

यश्च यस्य यदातुष्टः स तं यत्नेन पूजयेत् । ब्रह्मणै
षांवरो दत्तः पूजिताःपूजयिष्यथ ॥ ग्रहाधीना नरे
न्द्राणामुच्छ्रायाः पतनानिच ॥ भावाऽभावौच जगत
स्तस्मात्पूज्यतमाग्रहाः॥इति । याज्ञवल्क्यस्मृतौ प्रथ-
माध्याये ग्रहशांतिप्रकरणे उक्तम् । अतः षोडशो
पचारैर्गणपत्यादीन् संपूज्य विशेषेण पूजनीयाः
सन्तुष्टाः सन्तश्चते अनिष्टान् शमयन्ति ॥ ३ ॥ प्रा
र्थनेयं विष्णुदत्तस्य ॥

अथ षोडशोपचाराणिज्ञानमालायामुक्तानि ॥ तद्यथा
आवाहनम् १आसनम् २पाद्यम् ३अर्घ्यम् ४आचमनी
यम् ५ स्नानम् ६ वस्त्रम् ७ यज्ञोपवीतम् ८ गंधम् ९
पुष्पम् १० धूपम् ११ दीपम् १२ नैवेद्यं मध्येपा
नीयमुत्तरापोशानं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनम् १३
ताम्बूलम् १४ दक्षिणाम् १५ नमस्कारान्॥१६॥इति
षोडशोपचाराणि एवं गणपत्यादीन्सर्वान्पूजयेत् ॥
अभावेद्रव्यस्य यथाशक्त्योपलब्धवस्तुभिः पुष्पा
क्षतादिभिः श्रद्धायुक्तः पूजयेत् ॥

अथ नवग्रहमङ्गलाष्टकानि ॥भास्वान्काश्यपगोत्र
जोऽरुणरुचिर्यः सिंहराशीश्वरः षट्त्रिस्थोदशशो
भनो गुरुशशीभौमेषुमित्रंसदा । शुक्रोमन्दरिः
कलिङ्गजनितश्चाग्नीश्वरौ देवते मध्ये वर्तुलपूर्व
दिग्दिनकरः कुर्यात्सदामङ्गलम् ॥ १ ॥ चन्द्रः क

कटकप्रभुः सितनिभश्चात्रेयगोत्रोद्भवश्चाग्नेय्यांचतु
रस्रवारुणमुखश्चापोप्युमाधीश्वरः । षट् सप्ताग्नि
दशैकशोभनफलो नोरिर्बुधार्कप्रियः स्वामी या
मनदेशजो हिमकरः कु० ॥ २ ॥ भौमोदक्षिणदिक्
त्रिकोणयमदिग्विश्वेश्वरो रक्तभः स्वामी वृश्चिक
मेषयोः सुरगुरुश्चार्कः शशीसौहृदः । ज्ञोरिः षट्त्रि
फलप्रदश्च वसुधास्कन्दौ क्रमादेवते भारद्वाजकुलो
द्भवः क्षितिसुतः कुर्या० ॥ ३ ॥ सौम्योदङ्मुखपी
तवर्णमगधश्चात्रेयगोत्रोद्भवो वाणेशानदिशः सुहृ
च्छनिभृगुः शत्रुःसदाशीतगुः । कन्यायुग्मपतिर्दशा
ष्टचतुरःषण्नेत्रगःशोभनो विष्णुः पौरुषदेवते श
शिसुतः कुर्या० ॥ ४ ॥ जीवश्चाङ्गिरगोत्रजोत्तरमु
खो दीर्घोत्तरासंस्थितः पीताश्वत्थसमिच्च सिन्धु
जनितश्चापोऽथमीनाधिपः । सूर्येन्दुक्षितिजप्रियो
बुधसितौ शत्रू समाश्वापरे सप्ताङ्गद्विभवः शुभः सुरगु
रुः कुर्या० ॥ ५ ॥ शुक्रोभार्गवगोत्रजः सितनिभःप्रा
चीमखः पूर्वदिक्पञ्चाङ्गोवृषभस्तुलाधिपमहाराष्ट्र
धिपोदुम्बरः ॥ इन्द्राणीमघवानुभौबुधशनीमित्रार्क
चन्द्रौरिपूषष्ठोद्विर्दशवर्जितोभृगुसुतःकुर्या० ॥ ६ ॥ म
न्दः कृष्णनिभस्तुपाश्विममुखःसौराष्ट्रकःकाश्यपःस्वा
मीयोमृगकुम्भयोर्बुधसितौमित्रेसमश्चाङ्गिराः ॥ स्थानं
पश्चिमदिक्प्रजापतियमौदेवौधनष्यासनः षट्त्रिस्थः

(९६)

विवाहपद्धति भा० टी० ।

शुभकृच्छनीरविसुतः कुर्या० ॥ ७ ॥ राहुःसिंहलदे
शजश्चनिर्ऋतिःकृष्णांगसूर्पासनोयः पैठीनसिसम्भव
श्चसमिधोदूर्वामुखोदक्षिणः । यःसर्पाद्यधिदैवतेचनिर्ऋ
तिप्रत्याधिदेवः सदाषट्त्रिस्थः शुभकृच्चसिंहिकसुतः
कुर्या० ॥ ८ ॥ केतुर्जैमिनिगोत्रजः कुशसमिद्राय
व्यकोणेस्थितश्चित्राङ्गध्वजलाञ्छनोहिमगुहाशयोद
क्षिणाशामुखः । ब्रह्माचैवसचित्रचित्रसहितः प्रत्याधिदे
वः सदाषट्त्रिस्थःशुभकृच्चवर्वरपतिःकुर्यात्सदामंगल
म् ॥ ९ ॥ इत्येतद्ब्रह्मङ्गलाष्टनवकंलोकोपकारप्रदं
पापौघप्रशमं महच्छुभकरंसौभाग्यसंवर्द्धनम् । यः
प्रातः (शुद्धः) शृणुयात्पठत्यनुदिनं श्रीकालिदासो
दितस्तोत्रंमंगलदायकंशुभकरं प्राप्नोत्यभीष्टंफलम्
॥ १० ॥ इतिनवग्रहमंगलाष्टकानि ॥ पारस्करगृह्य
सूत्रोक्तं कुशकण्डिकासूत्रम् ॥ अथातो गृह्यस्थाली
पाकानां कर्म परिसमुह्योपलिप्योल्लिख्योद्धृत्याभ्यु
क्ष्याग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य प्रणी
यपरिस्तीर्यार्थवदासाद्यपवित्रेकृत्वाप्रोक्षणीः संस्कृ
त्यार्थवत्प्रोक्ष्यनिरूप्याज्यमधिश्रित्य पर्यग्निःकुर्या
त्क्षुवंप्रतप्यसंमृज्याभ्युक्ष्यपुनःप्रतप्य निदध्यादाज्य
मुद्रास्योत्पूयावेक्ष्य प्रोक्षणीश्चपूर्ववदुपयमनान्कुशा
नादाय समिधोभ्याधाय पर्युक्ष्यजुहुयादेषएवविधि
र्यत्रक्वचिद्धोमः ॥ १ ॥ अर्थात् सर्वत्रहोमएषएवविधि
र्ज्ञातव्यइति ॥

(मन्त्रार्थ आकृष्णेनेति) सुवर्णमय रथसे भुवनोंको देखता-भया अर्थात् कर्मभूमिमें स्थित मनुष्योंके पापपुण्यका साक्षी होकर देखता हुआ । कृष्ण मलिन रात्रिसे वर्तमान प्रतिदिन स्तुत्य सूर्यभगवान् देवताओंको और मनुष्योंको परस्पर व्यापारमें प्रेरता हुआ उदयको प्राप्त होता है ॥

(मन्त्रार्थ इमं देवा इति) इहाँ इम शब्दसे प्रकृत होनेसे सोमका परामर्श है । सम्पूर्ण देवतागण इस चन्द्रमाको उत्पन्न करते भये । कैसेको शत्रु रहित और सौम्य सर्वप्रियको किस प्रयोजनके लिये उत्पन्न करते भये, क्षत्रके लिये अर्थात् लोकपालोंको राजभावके लिये और सर्वोत्तमताके लिये और अतिशय युक्तको इस प्रत्यक्ष दृश्यको (अमुं) नित्यब्रह्मस्वरूप होनेसे परोक्ष दृश्यको । सूर्यके पुत्रका अर्थात् सूर्यकी किरणोंसे चन्द्रमाकी वृद्धि होनेसे सूर्यपुत्र कहा जाता है । अमुष्य दिशाके पुत्रको अर्थात् पूर्व दिशासे उत्पन्न उदय होनेसे पुत्रता है । अत्रिमहर्षिजीके चक्षुसे उत्पन्न तेजको दिशाने धारण किया यह पुराणोंके अभिप्रायसे युक्तार्थ है । किसलिये यह दिशाने धारण किया (अस्यैविशे) प्रजाके अनुग्रह अर्थात् अमृत रसकी उत्पत्ति कांति आनंदके लिये और यह चन्द्रमा हम ब्राह्मण जातिके राजा है ॥

(मङ्गलमंत्रका विनियोग)

अग्निर्मूर्द्धा इस मन्त्रका विरूपाङ्गिरस ऋषि अग्नि देवता गायत्री छन्द अग्निके उपस्थानमें विनियुक्त है (मन्त्रार्थ अग्निर्मूर्द्धेति) यह

(९८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

भौम अत्यन्त तेजवाला होनेसे अग्नि का मूर्धा (मस्तक) है वा अत्यन्त रक्तवर्ण होनेसे और आकाशका (ककुत्) चिह्न है । और वृष्टि करनेमें मुख्यहेतु होनेसे जलका वह स्वामी है (प्र० चल-त्यंगारके वृष्टिरिति) अर्थ मंगलके राश्यन्तर होनेसे वर्षा होती है और पृथिवीका रेत बीजरूप है अर्थात् अपनी शक्तिसे पृथिवी जातको प्रीणन करता है (प्रमा० बृ. जा. अ. २ कालात्मा दिन कृन्मतस्तुहिनगो सत्त्वंकुजोजोगिरः) अर्थात् बलका अधिष्ठाता मंगल है ॥

(बुधमंत्रका विनियोग)

बुधमंत्रका परमेष्ठी ऋषि अग्नि देवता त्रिष्टुप् छन्द चित्तिके उपस्थानमें विनियुक्त है । (मन्त्रार्थ) हे अग्ने उद्बुध्यस्व अर्थात् प्रकाशको हे बुधदेव तुम हमारसे क्रियमाण इस कर्ममें सावधान हो ॥ और बुध अग्नि तुम दोनों इष्टापूर्त नाम यज्ञमें यजमानके संसर्गको करै । यह ग्रहयज्ञमें ऋत्विक्की प्रार्थना है । और सर्वोत्कृष्ट इस पूजास्थानमें यह यजमान और संपूर्ण देवता स्थितहो । सहोपदेन सधमादस्थयोश्छन्दसि इस सूत्रसे सहके स्थानमें सध आदेश भया ।

(बृहस्पतिके मन्त्रका विनियोग)

बृहस्पतिजीके मन्त्रका गृत्समद ऋषि ब्रह्मा देवता त्रिष्टुप् छन्द बार्हस्पत्य ग्रहणमें विनियुक्त है ॥

अर्थ—हे बृहस्पति देव ऋत अर्थात् सत्य ना नष्ट होनेवाली प्रजा (सन्तान) द्रविण (धन) हमको देवो. कैसा धन कि जिस धनसे ईश्वरकी पूजा करै और जो लोकमें प्रकाशहो और दीप्तियुक्त

जिससे यज्ञादि कर्म कियेजाँय और जिसके बलसे रक्षा कीजाय ऐसा गौ वस्त्र सुवर्णादिरूप धनको दीजिये । यह प्रार्थनावाक्य है ।

शुक्रजीके मंत्रका प्रजापति ऋषि अश्विसरस्वती इंद्रदेवता जगती छंद सौत्रामणिनाम यज्ञमें पयके ग्रहणमें विनियुक्त है ।

अर्थ—प्रजापति (ब्रह्मा) हविरूप अन्नसे परिश्रुत रसको पान करता भया । कैसेको क्षत्रको (वा सोमरसको ब्रह्मा पान करता भया) किसद्वारा पानकरता भया (ब्रह्मण) प्रपंचरहित मंत्ररूप वेदसे इस अन्नके सोमरूप रसको जो अन्नसे उत्पन्न भया (विपान) ब्रह्माजीका विशिष्टपान वह शुक्र बीज ना नाश होनेवाला (इंद्रिय) इंद्रियोंका सार देवराज इंद्रका वीर्य पय (क्षीर) अमरमें कारण (मधु) पितृगणकी तृप्तिमें मुख्य हेतु होता भया ॥ परिश्रुतं यह द्वितीयाके अर्थमें प्रथमाविभक्ति है ॥

अर्थ—शनैश्वरजीके मंत्रका दध्यङ्ङाथर्वण ऋषि गायत्री छन्द जलदेवता शांतिकरणमें विनियुक्त है ॥

अर्थ—याज्ञवल्क्यादि विहित आदित्य प्रभव अपोसि अभेदोपचारसे अपशब्दसे शनिका ग्रहण है (आपो देवि) शनिश्वरदेव हमारेको कल्याण हो किस अर्थकेलिये वृद्धिद्वारा तृप्ति हेतु पानके लिये और कल्याणके योग्य जल अभिमुखको प्राप्त हो ॥ अपशब्दको बहुवचनांत होनेसे बहुवचनांत विशेषण जानने ॥

अर्थ—राहुजीके मंत्रका अग्नि ऋषि दुर्वेष्टका देवता अनुष्टुप्छन्द दुर्वेष्टकाके उपधानसे विनियुक्त है ॥

अर्थ—हे दूर्वे प्रतिकांड पर्व प्रतिपुरुष ग्रंथियुक्त, सर्वतो भावसे

(१००) विवाहपद्धति भा० टी० ।

उत्पन्न भई तुम हमारेको शतसहस्र संख्याका पुत्रपौत्रादिसे विस्तृत करो ।

अर्थ—केतुजीके मंत्रका मधुच्छंद ऋषि अग्निदेवता निरुक्ता गायत्री छंद केतुके अभिमंत्रणमें विनियुक्त है ।

अर्थ—हे केतुदेव ध्वजरूपको तुम प्राप्तहो किनसे जन्यमान गृहस्थियोंसे क्या करता भया मनुष्योंको केतुज्ञानको करता हुआ और (पेश) सौंदर्य और सुवर्णको करता भया । निघंटुः—प्रमाण “पेशकारी पेशसो मात्रा मापादयेदिति” कैसे मनुष्योंको जो अज्ञानी और निर्धन कुरूप उनको सुवर्ण रूप सौंदर्य देता भया । कित्तु ज्ञाने इस धातुका केतुरूप है ॥ अकेतवे अपेशसे यह बहुवचनमें एकवचन है ॥

अथ पारस्करगृह्यसूत्रे प्रथमकाण्डे विवाहसूत्रम् ।

तद्यथा ।

• आवसथ्याधानंदारकालेदायाद्यकालएकेषां वैश्यस्य बहुपशोर्गृहादग्निमाहृत्य चातुष्प्राश्यपचनवत्सर्व-मरणिप्रदानमेकेपंचमहायज्ञाइतिश्रुतेरग्न्याधेयदेवता-भ्यः स्थालीपाकं श्रपयित्वाऽज्यभागावष्टाज्याहुती-र्जुहोति ॥ त्वन्नोऽअग्नेसत्त्वन्नोऽअग्नेऽइमंमेवरुण तत्त्वा-

यामि येतेशतमयाश्वाग्नेऽउदुत्तमं भवतन्न इत्यष्टौ
पुरस्तादेवमुपरिष्ठात्स्थालीपाकस्याग्न्याधेयदेवता-
भ्योहुत्वाजुहोति स्विष्टकृतेचायास्याग्नेर्वषट्कृतंयत्क
र्मणोत्यरीरिचं देवागातुविद इति । बर्हिहुत्वा
प्राश्राति ॥ ततोब्राह्मणभोजनम् ॥ २ ॥ षडर्घ्याभ-
वन्त्याचार्यऽऋत्विग्वैवाह्योराजाप्रियःस्नातकइति प्रति
संवत्सरार्हयेगुर्यक्ष्यमाणास्त्वृत्विज आसनमाहार्या
ह साधुभवानास्तामर्चयिष्यामो भवन्तमित्याहरंति
विष्टरंपाद्यंपादार्थमुदकमर्घ्यमाचमनीयं मधुपर्कदधिम
धुघृतमपिहितंकांस्ये कांस्येनान्यस्त्रिस्त्रिःप्राहवि
ष्टरादीनि विष्टरं प्रतिगृह्णातिवष्मोस्मिसमानानामुद्य-
तामिवसूर्यः।इमन्तमभितिष्ठामि योमाकश्चाभिदासती
त्येनमभ्युपविशति पादयोरन्यविष्टर आसीनस्यसव्यं
पादम्प्रक्षाल्यदक्षिणंप्रक्षालयति । ब्राह्मश्चेदक्षिणं प्रथमं
विराजोदोहोसि विराजोदोहमशीय मयिपाद्यायैविरा-
जोदोहऽइत्यर्घ्वप्रतिगृह्णात्यायस्थयुष्माभिःसर्वान्कामा
नवाप्नुवानीतिनिनयन्नभिमंत्रयतेसमुद्रंवःप्रहिणोमिस्वां
योनिमभिगच्छत । अरिष्ठास्माकंवीरामापरासेचिमत्प-
यऽइत्याचामत्यामागन्यशसासः सृजवर्चसा तंमाकुरु
प्रियंप्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनामिति
मित्रस्यत्वेतिमधुपर्कं प्रतीक्षते । देवस्यत्वेति प्रः

तिगृह्णाति सव्येपाणौकृत्वा दक्षिणस्यानामिकयात्रिः
 प्रयौति । नमःश्यावास्यायां नशनेयत्तऽआविद्धं
 तत्तेनिष्कृन्तामीत्यनामिकांगुष्ठेन च त्रिर्निरुक्षप-
 यति तस्यत्रिःप्राश्नाति यन्मधुनोमधव्येनपरमेणरूपे-
 णान्नाद्येन परमोमधव्योन्नादोसानीतिमधुमतीभिर्वा
 प्रत्यृचंपुत्रायान्तेवासिनेवोत्तरतऽआसीनायोच्छिष्टं द-
 द्यात् । सर्ववाप्राश्रीयात्प्राग्वासंचरे निनयेदाचम्यप्राणा
 न्संमृशति वाङ्मऽआस्येनसोःप्राणोक्ष्णोश्चक्षुःकर्ण-
 योःश्रोत्रंवाहोर्विलमूर्वोरोजोरिष्टानिमेद्गानितनूस्तन्वा
 मेसहेत्याचांतोदकायशासमादाय गौरिति त्रिःप्राहप्र-
 त्याह मातारुद्राणांदुहितावसूनाः स्वसादित्यानाममृ-
 तस्यनाभिः ॥ प्रनुवोचंचिकितुपेजनायमागामना
 गामदितिंवाधिष्ट ॥ ममचामुष्यचपाप्माहनः हनोमीति
 यद्यालभेत् यद्युत्सिसृक्षेन्ममचामुष्यचपाप्माहतः । ओ
 मुत्सृजततृणान्यत्त्विति ब्रूयान्नत्वेवामाः सोर्धः स्याद्
 धियज्ञमधिविवाहं कुरुतेत्येवब्रूयाद्यद्यप्यसकृत्संवत्स
 रस्यसोमेनयजेत कृतार्घ्याऽएवैनंयाजयेयुर्नाकृतार्घ्या
 इतिश्रुतेः ॥३॥ चत्वारःपाकयज्ञाहुतोऽहुतःप्रहुतःप्रा-
 शितऽइतिपंचसुबहिःशालायांविवाहेचूडाकरणऽउपन
 यने केशान्तेसीमन्तोन्नयनऽइत्युपलिप्तऽउद्धतावोक्षि-
 तेग्निमुपसमाधायनिर्मथ्यमेकेविवाहऽउदगयनऽआपूर्य
 माणपुण्याहे कुमार्याःपाणिगृह्णीयात्रिषुत्रिषूत्तरादिषु

स्वातौमृगशिरसिरोहिण्यांवातिस्रोब्राह्मणस्यवर्णानुपू-
व्येणद्वेराजन्यस्यैकावैश्यस्य सर्वेषां शूद्राणामप्येके
मंत्रवर्ज्यमथैनां वासःपरिधापयति । जरांगच्छपरिधत्स्व
वासो भवाकृष्टीनामभिशस्तिपावा ॥ शतञ्चजीवशर-
दःसुवर्चरयिंचपुत्राननुसंव्ययस्वायुष्मतीदंपरिधत्स्व-
वासऽइत्यथोत्तरीयं याऽअकृतन्नवयंयाऽअतन्वतयाश्च
देवीस्तंतूनभितोततंथ । तास्त्वादेवीर्जरसे संव्ययस्वायु
ष्मतीदंपरिधत्स्ववासऽइत्यथैनौसमंजयंति समञ्जन्तु
विश्वेदेवाःसमापोहृदयानिनौ ॥ सम्मातरिश्वासंधातास
मुद्वेष्टीदधातुनावितिपित्राप्रत्तामादायगृहीत्वानिष्क्रा
मति यदैषिमनसद्वरंदिशोनुपवमानवा ॥ हिरण्यव
र्णोवै कर्णः सत्वामन्मनसांकरोत्वित्यसावित्यथैनौस
मीक्षयत्यवोरचक्षुरतिपतिष्येधिशिवापशुभ्यःसुमनाःसु
वर्चाः ॥ वीरसूर्देवकामास्योनाशन्नोभवद्विपदेशञ्चतु
ष्पदे ॥ सोमःप्रथमोविविदेगंधर्वोविविद उत्तरः । तृती-
योऽअग्निष्टेपतिस्तुरीयस्तेमनुष्यजाः ॥ सोमोददद्वंध-
र्वायगंधर्वोददद्वग्नेये । रयिंचपुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथो
इमाम्-॥ सानः पूषाशिवतमामेरय सानऽऊरूउशती
विहर यस्यामुशंतः ग्रहरामशेपं यस्यामुकामा
बहवोनिविष्ट्या इति ॥ ४ ॥ प्रदक्षिणमग्निपर्या
णीयैकेपश्चादग्नेस्तेजनींकटंवा दक्षिणपादेनप्रहृत्योप-
विशत्यन्वारब्धआधारावाज्यभागौमहाव्याहृतयः । स-

(१०४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

र्वप्रायश्चित्तं प्राजापत्य २ स्विष्टकृचैतन्नित्य २ सर्वत्र-
प्राङ्महाव्याहृतिभ्यः स्विष्टकृदन्यच्चेदाज्याद्धविः सर्व
प्रायश्चित्तं प्राजापत्यान्तरमतेदावापस्थानं विवा-
राष्ट्रभृतइत्थं जयाभ्यातानांश्चजानन्येनकर्मणेच्छे
दितिवचनाचितंचचित्तिश्चाकुतश्चाकूतिश्च विज्ञातंच
विज्ञातिश्च मनश्चशक्करश्च दर्शश्चपौर्णमासं च बृहच्च
रथन्तरंचप्रजापतिञ्जयानिन्द्राय वृष्णेप्रायच्छदुग्रः पूत
नाजयेषु । तस्मैविशः समनमंतः सर्वाः स उग्रः सइह
व्योबभूवस्वाहेत्यग्निर्भूतानामधिपतिः समावत्विद्रोज्ये
ष्ठानायमः पृथिव्या वायुरन्तरिक्षस्य सूर्योदिवश्चंद्र
मानक्षत्राणां बृहस्पतिर्ब्रह्मणो मित्रः सत्यानां वरुणोपा
समुद्रः स्रोत्यानामन्न २ साम्राज्यानामधिपतिस्तन्माव
तुसोमओषधीना २ सविताप्रसवाना २ रुद्रः पशूनांत्व
ष्टारूपाणांविष्णुः पर्वतानांमरुतोगणानामधिपतयस्ते
मावन्तुपितरः पितामहाः परेवरेतस्ततामहाः । इह
मावन्त्वास्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यांपुरोध्या
यामस्मिन्कर्मण्यस्यांदेवहृत्या २ स्वाहेति सर्वत्रानुष
ज्यत्पिरेतुप्रथमोदेवताना २ सोस्यैप्रजांसुश्चतुमृत्यु
पाशात् ॥ तदय २ राजावरुणोनुमन्यतांयथेय २ स्त्रीपौ
त्रमघन्नरोदात्स्वा० ॥ इमामग्निस्त्रायतांगार्हपत्यःप्रजाम
स्यैनयतुदीर्घमायुः । अशून्योपस्थाजीवतामस्तुमाता
पौत्रमानंदमभिविबुध्यतामिय २ स्वाहा । स्वस्तिनोअग्ने

दिवापृथिव्याविश्वानिधेह्यथायदत्र यदस्यामहिदिवि
 जातंप्रशस्तंतदस्मासुद्रविणंधेहिचित्र २ स्वाहा ॥ सुग-
 न्नःपन्थांप्रदिशन्नएहिज्योतिष्मद्धेह्यजरन्न आयुः।अपै
 तुमृत्युरमृतंनआगान्वैस्वतो नोअभयंकृणोतु स्वाहेतिप
 रंमृत्यवितिचैकेप्राशनान्ते ॥ ५ ॥ कुमार्याभ्राताश
 मीपलाशमिश्राह्लाँजानंजलिनाञ्जलावावपति। तांजुहो
 तिस २ हतेन तिष्ठत्यर्यमणंदेवंकन्या आग्निमयक्षतसनो
 अर्यमा देवःप्रेतोमुञ्चतुमापतेस्वाहा ॥ इयन्नार्युपब्रूते
 अग्नौलाजानावपंती।आयुष्मानस्तुमेपतिरेधन्तां ज्ञात
 योममस्वाहा ॥ इमाह्लाँजानावपाम्यग्नौसमृद्धिकरणं
 ममतुभ्यञ्चसंवन्नंतदग्निंनुमन्यतामिय २ स्वाहा ॥
 इत्यथास्येदक्षिण २ हस्तंगृह्णातिसांगुष्ठंगृभ्णामितेसौभ
 गत्वायहस्तंमयापत्याजरदृष्टिर्यथासः भगोअर्यमास
 वितापुरंधिर्मह्यन्त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः ॥ अमोहम-
 स्मिसात्व २ सात्वमस्यमोऽअहम् ।सामाहमस्मिऋक्त्वं
 द्यौरहंपृथिवीत्वम् । तावेहिविवहावहैसहरेतोदधावहै ।
 प्रजांप्रजनयावहै पुत्रान्विंदावहैबहून् । तेसन्तुजरदष्ट-
 यः सप्रियौरोचिष्णूसुमनस्यमानौ । पश्येमशरदःशतं
 जीवेमशरदःशत २ शृणुयामशरदः शतमिति ॥ ६ ॥
 अथैनामश्मानमारोहयत्युत्तरतोग्नेर्दक्षिणपादेनारोहेम
 मश्मानमश्मेवत्व २ स्थिराभव । अभितिष्ठपृतन्यतो
 वबाधस्वपृतनायतऽइत्यथगाथांगायति । सरस्वतिग्ने

(१०६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

दमवसुभगेवाजिनीव्रति । यांत्वाविश्वस्यभूतस्यप्रजा
यामस्याग्रतः । यस्यांभूतः समभवद्यस्यांविश्वामिदं
जगत् । तामद्यगाथांगास्यामियास्त्रीणामुत्तमंयश इत्य-
थपरिक्रामतस्तुभ्यमग्रेपर्यवहत्सूर्य्यावहतुनासह ॥ पुनः
पतिभ्योजायांदाग्रेप्रजयासहेत्येवंद्विरपरम् लाजादिचतु
र्थः सूर्पकुष्टया सर्वालाजानावपतिभगायस्वाहोतित्रिः
परिणीतांप्राजापत्यः हुत्वा ॥ ७ ॥ अथैनामुदीची २ सप्त
पदानिप्रक्रामयत्येकमिषे द्वेऊर्जे त्रीणिरायस्पोषाय च
त्वारिमायोभवाय पंचपशुभ्यः षड्दुभ्यः । सखे सप्तप
दीभवसामामनुव्रताभव विष्णुस्त्वानयत्वितिसर्वत्रानु-
षजति । निष्क्रमणप्रभृत्युदकुंभ २ स्कंधे कृत्वा द-
क्षिणतोऽग्रेर्वाग्यतः स्थितोभवत्युत्तरत एकेषां तत
एनांमूर्द्धन्यभिपिंचत्यापः । शिवा शिवतमाः शा-
न्ताः शान्ततमास्तास्तेकृण्वन्तुभेषजमित्यापोहिष्टे-
तिचतिसृभिर्ग्यैनाः सूर्यमुदीक्षयति । तच्चक्षुरित्यथा
स्यैदक्षिणाः समाधिहृदयमालभते ममव्रतेतेहृदयंद-
धामि ममचित्तमनुचित्तन्ते अस्तु । ममवाचमेकमनाजु-
पस्वप्रजापतिष्ठा नियुनक्तुमह्यमित्यथैनामभिमंत्रयते
सुमङ्गलीरियंवधूरिमाः समेतपश्यत ॥ सौभाग्यम-
स्यैदत्वायाथास्तं विपरेतनेतितां दृढपुरुषउन्मथ्यप्रा-
ग्वोदग्वानुगुप्तागारआनडुहे रोहिते चर्मण्युपवेशयती

हगावोनिषीदंत्विहाश्वा इहपूरुषाः । इहोसहस्रदक्षिणो
यज्ञ इहपूषानिषीदंत्वितिग्रामवचनंचकुर्युर्विवाहश्म-
शानयोर्ग्रामंप्राविशतादितिवचनात्तस्मात्तयोर्ग्रामप्रमा-
णमिति श्रुतेराचार्यायवरंददाति गौर्ब्राह्मणस्यवरो ग्रामो
राजन्यस्याश्वो वैश्यस्याधिरथ ५ शतं दुहितृमतेस्त-
मितेध्रुवंदर्शयति ॥ ध्रुवमसिध्रुवंत्वापश्यामिध्रुवैधिपो
ष्येमयिमह्यंत्वादादूबृहस्पतिर्मयापत्याप्रजावती संजी-
वशरदःशतमिति । सायदिनपस्येत् पश्यामीत्येवब्रू-
यात्रिरात्रमक्षारालवणाशिनौस्यातामधः शयीया-
ताः संवत्सस्त्रमिथुनमुपेयातां द्वादशगत्रः षड्-
शत्रत्रिरात्रमन्ततः ॥ ८ ॥ उपयमनप्रभृत्यो-
पासनस्य परिचरणमस्तमितानुदितयोर्दध्नातण्डुलैर-
क्षतैर्वाग्नेयस्वाहा प्रजापतयेस्वाहेति सायः सूर्या-
यस्वाहाप्रजापतयेस्वाहेतिप्रातः पुमाःसौमित्राव-
रुणौपुमाः साश्विनावुभौ । पुमानिन्द्रश्चसूर्यश्च
पुमाःसंवर्ततांमयिपुनः स्वाहेति पूर्वागर्भकामा ॥९॥
राज्ञोक्षभेदेनद्धविमोक्ष्ये । यानविपर्यामिन्यस्यां वा
व्यापत्तौ स्त्रियाश्चोद्धहने तमेवाग्निमुपसमाधाय आ-
ज्यःसंस्कृत्येहरतिरितिजुहोति नानामंत्राभ्यामन्यद्या-
नमुपकल्प्य तत्रोपवेशयेद्राजान ५ स्त्रियं वा प्रतिक्षत्रं
इतिजज्ञातेनान्वाहार्यमिति चैतयाधुर्यौदशिणाप्राय-
श्चित्तिस्ततो ब्राह्मणभोजनम् ॥ १० ॥

(१०८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

अथ चातुर्थ्यकर्मणिपारस्करसूत्रम् ।

तद्यथा—

चतुर्थ्यामपररात्रेभ्यन्तरतोऽग्निमुपसमाधाय दक्षिण
तो ब्रह्माणमुपवेश्योत्तरतउदपात्रंप्रतिष्ठाप्यस्थाली
पाकः श्रपयित्वाज्यभागाविष्ट्राज्याहुतीर्जुहोत्यग्नेपा
यश्चित्तेत्वंदेवानांप्रायश्चित्तिरसिब्राह्मणस्त्वानाथकाम
उपधावामि । यास्यैपतिघ्नीतनूस्तामस्यैनाशय
स्वाहा ॥ वायोप्रायश्चित्तेत्वंदेवानां०यास्ये प्रजाघ्नीत
नूस्तामस्यै नाशयस्वाहा ॥ सूर्यप्रायश्चित्तेत्वंदेवानां०
यास्यैपशुघ्नीतनूस्तामस्यैनाशयस्वाहा ॥ चंद्रप्राय
श्चित्ते०यास्यैगृहघ्नीतनूस्तामस्यैनाशयस्वाहा ॥ गंध
र्वप्रा० यास्यैयशोघ्नीतनूस्तामस्यैनाशयस्वाहेतिस्था
लीपाकस्य जुहोति प्रजापतनेस्वाहेतिहुत्वा हुत्वै
तासामाहुतीनामुदपात्रे स २ स्रवान्तसमवनीयततएव
यामूर्द्धन्यभिषिञ्चति यातेपतिघ्नीप्रजाघ्नीपशुघ्नीगृहघ्नी
नशोघ्नीनिंदितातनूर्जारघ्नी । ततएनांकरोमिसाजी
र्यत्वंमयासहासावित्यथैनाः स्थालीपाकं प्राशय
ति । प्राणैस्तेप्राणान्तसंदधाम्यस्थिभिरस्थीनिमाः
सैर्मा २ सानि त्वचात्वचामिति तस्मादेवंविच्छोत्रि
यस्य दारेणनोपहसमिच्छेदुतह्येवंवित्परोभवतिता
मुदुह्ययथर्तुप्रवेशनं यथा कामी वा काममाविजनि

तोःसंभवामेतिवचनादथास्यै दक्षिणाऽसमधिहृदय
मालभतेयत्तेसुशीमे हृदयं दिवि चंद्रमसि श्रियम् ।
वेदाहंतन्मांतद्विद्यात्पश्येमशरदः शतं जीवेमशरदः
शतऽशृणुयामशरदःशतमित्येवमतऊर्ध्वम् ॥ ११ ॥
इति श्रीकूर्परस्थलनिवासि गौतमगोत्र (शोरि अन्व-
यालङ्कृत) दैवज्ञदुनिचन्द्रात्मजपण्डितविष्णुदत्तवैदि-
कसंगृहीतं चतुर्थं प्रकरणं समाप्तम् ॥ शुभमस्तु ॥

श्रीरामचंद्रप्रसादात् ॥

समाप्तमिदं चतुर्थं प्रकरणम् ।

अथ पंचमप्रकरणम् ।

ॐ नमोगणपतये ।

अथविवाहपद्धतिर्लिख्यते । तत्रादौ युग्मकेनमङ्ग-
लाचरणम् ॥

संधिविग्रहमन्त्रेन्द्रो रुद्रदेवतनृद्धवः ।

भूमिपालशिरोरत्नरञ्जितांघ्रिसरोरुहः ॥ १ ॥

भा० टी०—ओंस्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ विवाहपद्धति
की व्याख्या भाषामें कहते हैं ॥ प्रथम (मङ्गलाचरणं शिष्टाचारा-
त्फलदर्शनात् श्रुतितश्चेति) श्रुत्यादि विहित मङ्गलाचरणको होनेसे

(११०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

विघ्नविनाशके लिये लिखते हैं । (गणेशं गुरुं पद्मनाभं महेशं कुमारं
महेंद्रं रमां शारदां च ॥ ग्रहास्तुङ्गगान्वीर्ययुक्तास्तथैव नमस्कृत्य
सर्वान्सुटीकां करोमि ॥ १ ॥ याकृता रामदत्तेन निवाहुंरामशर्म-
णा । तांवलोक्योपकाराय सर्वेषां क्रियते मया ॥ २ ॥ व्याख्या
नृगिरया सैवधर्मकामार्थसिद्धिदा । प्रहृत्यरागद्वेषौ च द्रष्टव्या सुवि-
चक्षणैः ॥ ३ ॥ यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानाच्चकृतमया । विद्वद्भिः क्षम्य-
तां सर्वं बालत्वादयमञ्जलिः ॥ ४ ॥ विवाहपद्धतेर्व्याख्याकृता यत्ना
द्विलोक्यताम् ॥ उल्लमिष्यन्तिदुष्यन्ति सन्तोऽसन्तश्चमृतले ॥ ५ ॥

सन्धिविग्रहकृच्छ्रीमद्रीश्वरसहोदरः । महन्महत्तरः
श्रीमान्विराजतिगणेश्वरः ॥ २ ॥ युग्मकम् ॥

भा० टी०—(सन्धिविग्रह इति) सन्धि जो परस्पर मिलावट
अर्थात् मेल विग्रह अर्थात् युद्ध इनका जो मन्त्र सम्यक् विचार
तिसमें इन्द्र ईश्वर अर्थात् तीक्ष्णबुद्धिद्वारा सन्धिविग्रहके यर्थाथ
ज्ञानमें समर्थ रुद्रदेव जो महादेव तिसका पुत्र प्रमाण जैसे अथर्वणवे०
(नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायणकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरद-
मूर्तये नमः) इति यहाँ यद्यपि तनूद्भवसे औरसपुत्र लियाजाता है
तथापि रूढि (प्रसिद्धि) से क्षेत्रज पुत्रमें भी वर्त्तता है सरसिज
(कमल) वत् भाव यह है कि सरोवरमें जो उत्पन्नहो वह पाटलि
अर्थात् गुलाब जो पृथ्वीपर पैदा होता है इसकोभी कहते हैं ॥ सर-
सिज (कमल) अक्षरार्थसे कहा जाता है तथापि प्रसिद्धिसे प्रमाण

१ पद्धतिः । २ टीका इति शेषः ॥

जैसे (स्थलारविन्दश्रियम्) फिर कैसे हैं भूमिपाल राजालोक इनके प्रतिदिन राजकार्य तिनमें विघ्नका संदेह उसके निवृत्त करनेके लिये प्रणाम कर रहे राजाओंके ऐसे मुकुट रत्नोंसे विचित्रित हुए हैं चरणकमल जिनके ॥ १ ॥

(सन्धि इति) तारक दैत्यके वधमें सन्धि विग्रह करनेवाला श्रीमान् वीरेश्वर अर्थात् वीरपुरुषोंका स्वामी और युद्धमें लगानेवाला जो स्वामिकार्तिकजी इनके भाई और महान् जो व्यास वशिष्ठादि उनमें जो बड़े ब्रह्मादिक उनका पूज्य और गणोंका स्वामी श्रीगणेश भगवान् विराजमान अर्थात् शोभता है ॥ २ ॥ युग्मका लक्षण साहित्यदर्पणमें लिखा है (: द्वाभ्यां तु युग्मकं ज्ञेयं) अर्थ दो श्लोकोंसे एकार्थ कहनेसे युग्म होता है ४

श्रीमतारामदत्तेनमन्त्रिणातस्यसूनुना ।

पद्धतिःक्रियतेरम्याधर्म्या वाजसनेयिनाम् ॥ ३ ॥

भा० टी०—श्रीमान् शोभायुक्त संहिता पद क्रम जटा घन और वेदार्थमें चतुर श्रीगणेशनाम कर स्वपिताके पुत्र रामदत्तजी में शुक्रयजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा वाजसनेयी संहिता कात्यायन सूत्रवाले जो त्रैवर्णिक अर्थात् ब्राह्मण क्षत्री वैश्य इनकी धर्मयुक्त मनाहरतासे शोभित विवाहकी पद्धति प्रगट करते हैं इससे शूद्रका विवाह वेदोक्तमंत्रोंसे नहीं चाहिये. प्रमाण याज्ञ० स्मृतिवाक्य—
'ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रावर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः । निषेकादिश्मशानां तास्तेषां वै मंत्रतः क्रियाः ॥ नतु शूद्रस्य ॥ स्त्रीशूद्रोऽनुपनीतश्च वेद मन्त्रान् विवर्जयेत् ॥'

(११२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

तत्रक्रमः ॥ तावत्पूगीफलोपवीतदानं तत्रकन्याभ्रा
तापुरोधाअन्योब्राह्मणोवाकश्चित् ॥

भा० टी०—(तत्रक्रमः) तिस पद्धतिमें जो शास्त्रक्रम अर्थात् मन्त्रपूर्वक ब्राह्मण सूत्रविहित मर्यादा वही मुख्य है नहीं अपने. मुखसे रचित वा न्यून अन्यथा वेदविरुद्ध होनेसे प्रत्यवायु होता है ॥ अथ कन्यादानका फल लिखते हैं ॥ “भूमिदानं वृषोत्सर्गा दानं गज सुवर्णयोः । उभयतो वदनागौश्च तुलाया दानमुत्तमम् ॥ कन्यादानं जीवदानं शरणागतपालनम् । वेददानं महाराज महादानानि वैदशः ॥ तत्रापि च महाबाहो कन्यादानमनुत्तमम् । कन्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥” यह मार्तण्डमें लिखा है ॥ अर्थ— भूमि १ वृष २ हस्ति ३ सुवर्ण ४ उभयतोमुखी गौ ५ तुला ६ कन्या ७ शरणागतकी रक्षा ८ जीवदान ९ वेददान १० यह महादान हैं तिसमेंभी कन्यादान अधिक है ॥ अन्यच्च विधिवत्कन्यकादानमश्वमेधसमं कलौ ।’ गोविंदराज ऐसे कहते हैं अर्थ अन्य युगोंमें अश्वमेध और कलियुगमें कन्यादान यह दो सदृश हैं ॥ अन्यच्च—“तिस्रः कोट्योर्धकोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत् । दिवि भुव्यंतरिक्षे च कला ते सन्ति जाह्नवी ॥ वेदतन्त्रप्रणीताया यानि मन्त्राणि सर्वशः । वेदमातुर्जपे तेषां फलं प्रोक्तं कलौयुगे ॥” पद्मपुराणमें यह लिखा है । अर्थ सुगमहै ॥ “चिन्तामणीनां गिरयःकल्प वृक्षाः सहस्रशः । ब्रजाश्च कामधेनूनां तत्रगच्छेद्दुहितृदः ॥ कांचनानि च हर्म्याणि नद्यः पायसकर्दमाः ॥ फलान्यमृतकल्पा

नि तत्रगच्छेद्दुहितृदः ॥” यह मार्कण्डेयका वचन है ॥ ऐसा महा-
फलका दाता कन्यादान तीन प्रकारका है ॥ प्रथम वाग्दान अर्थात्
सगाई वा कुडमाई द्वितीय कन्यादान अर्थात् पाणिग्रहण वा विवाह
तृतीय खट्वादि पारिवर्हदान प्रमाणभी जैसे वृद्धमनुजी “वरं स-
म्पूज्य खार्जूरं फलं दत्त्वामुखे तथा । तस्मिन्कालेऽग्निसान्निध्ये
पितातुभ्यं प्रदास्यति ॥ इति प्रतिज्ञयायच्च कन्याभ्रातादिनाचसा ।
वाचायदीयते तुल्ये वाग्दानं प्रथमं स्मृतम् ॥ वरं सम्पूज्य विधिना
वेद्यामग्निं विधाय च । दात्रा प्रदीयते यच्च कन्या संकल्प्य वाग्यतः ॥
द्वितीयं कन्यकादानं तत्तु प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ बधूवरौ च खट्वायां
मण्डपे संनिवेश्य च ॥ पारिवर्हं महद्वत्वा जलेन च विसर्जनम् ।
तृतीयंकन्यकादानं व्यासाद्या मुनयो जगुः” अर्थ सुगम है ॥

(तत्रकन्याभ्रातेति) कन्याका भाई वा पुरोहित अथवा अन्य
ब्राह्मण सगाइ करे मनुजीभी लिखते हैं ॥ “ऋत्विक् पुरोहितः पुत्रो
भार्या भृत्यः सखा तथा । एतद्वारा कृतं यच्च तत्कृतं स्वयमेवहि ॥”
अर्थ—इन द्वारा जो किया जाय वह आपही किया होता है ॥

उदङ्मुखः प्रत्यमुङ्खो वा उपविश्य प्राङ्मुखस्य
वरस्य गन्धाक्षतैरर्चितस्य मुखदत्तखार्जुरादिफलस्य
स्वयं पूगीफलयज्ञोपवीतमादाय ॥

भा० टी०—उत्तराभिमुख वा पश्चिममुख स्थित होकर पूजन
करे इसमें प्रमाण मनुजीका लिखते हैं । “पूज्यश्च प्राङ्मुखो यत्रो-
दङ्मुखः पूजको भवेत् । अर्चयेद्देवमभित इति प्रत्यङ्मुखश्च
सः” यह वाक्य जो है कि प्रत्यङ्मुखंस्थापयेच्च देवं पूज्यं तथैव च।

(११४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

पूजकः सम्मुखस्तत्र इति धर्मानुशासनम्” कहते हैं कि यद्यपि पूज्य होनेसे वरको प्रत्यङ्मुख होना उचित है तथापि (प्रत्यङ्मुखं स्थापयेत्तु देवं पूज्यं वरं विना ॥ वरस्तु प्राङ्मुखः पूज्यः पूजकः स्यादुदङ्मुखः) इस व्यासस्मृतिप्रमाणसे तथा (प्रत्यङ्मुखान् पूजनीय देवां स्तत्सम्मुखः स्थितः । अर्चयेन्नित्यमेवेत्थं विधिरित्येव सम्मतः ॥ स्थित्वाचाभिमुखं नार्चयेच्छंभुं जामातरं तथा । इंद्रं चोदङ्मुखं स्थाप्य स्वयं प्राङ्मुखसंस्थितः ॥ उदङ्मुखोऽर्चयेद्दाता वेदिस्थं प्राङ्मुखं वरम्) ॥ यह पराशरजीके वचनसे वरको प्राङ्मुख बैठाय गन्धाक्षतसे पूजन कर मुखमें खजूर (लुहारे) का फल देवे (नारिकेल फलं चैव तदन्तर्भक्ष्यमुत्तमम् ॥ खजूरादि फलं राजन् विवाहे मङ्गलप्रदम्) ॥ इस भृगुजीके वचनसे विवाहादिक सब मङ्गलकार्यमें खजूरादि फल देना सिद्ध होता है (स्वयमिति) आप पूगीफल (सुपारी) यज्ञोपवीतको लेकर कन्याका भ्राता वा पुरोहितादिमान्य पुरुष जो आगे लिखेंगे वह कहकर वरण करे अर्थात् सगाई वा कुडमाई करे वर कैसे चाहिये वह लिखते हैं (ययोरेव समं वित्तं ययोरेवसमं कुलम् । तयोर्विवाहो मैत्रीच न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥) यह महाभारतमें लिखा है अर्थ—जिनका धन कुल आचरणादि समहो उनका विवाह करना चाहिये लक्षण वरके जैसे गोविंदराजजीने कहे हैं (सुशीलश्चारुबुद्धिश्च व्यवहारपटुःक्षमी ॥ उदारो वाक्पटुर्वाग्मी गुणयुक्तो वरो मतः ॥ परस्पराप्तसंबंधकुलजातो महाकविः । कान्तः सुलक्षणः श्रीमान् मातृपितृयुतोवरः) ॥ इत्यादिलक्षणसंपन्न वर चाहिये ॥

तस्मिन्कालेऽग्निसान्निध्येऽस्नातः स्नाते ह्यरोगिणि ॥ अव्यङ्गेऽ
पतितेऽङ्गीवेपितातुभ्यं प्रदातस्यीतिपठित्वाहस्तेदद्यात् ।

भा० टी०—(तस्मिन्कालेति) तिस्र प्रसिद्धकाल विवाह सम-
यमें अग्निके समीप साक्षिद्वारा वाताश्रमी कुष्ठ मेह महोदर भगन्दर
इत्यादि रोगरहित—यथा ' वाताश्रमी कुष्ठ मेह महोदर भगंदराः ॥
अर्शश्च ग्रहणी चैव महारोगाः सुदुस्तराः ' ॥ इनके भेद चिकित्सा
शास्त्रमें लिखे हैं मूल विरुद्ध होनेसे नहीं लिखे जाते हैं इनसे रहित
और व्यंग जो योनिज और जातिज दोप्रकारका उससे रहित अर्थात्
धृता (धरेल) विवाहिता । दासी यह तीन स्त्री निषिद्ध होती हैं
इनके लक्षण जो विधवा स्त्री प्रीतिपूर्वक सुंदर वाणी और पुष्कल
भोजनद्वारा घरमें स्त्रीभावनासे रक्षितहो उसको धृता (धरेल) कहते
हैं ॥ और जो पूर्व विवाही हो अनन्तर मरजाने पतिके फिर कन्या
भावसे जो विवाही जाय उसको विवाहिता स्त्री कहते हैं ॥ अर्थात्
पुनर्भू ॥ दासी उसको कहते हैं कि प्रथम घरमें भूति (नौकरी)
करतीहो फिर यौवन सुंदरतासे कामवश होकर जो स्वीकार की
जावे ॥ इन स्त्रियोंसे उत्पन्न संततिको अपने कुलमें जो मिलाना
वह योनिव्यंग कहाता है ॥ और अपनी जातिसे हीन जातिके
सम्बन्धको जातिव्यंग कहते हैं ॥ इनसे रहित तुमको और चक्षु
चरण कटि इनका भंग और अंधता पंगु प्रभृति या देहव्यंग उनसे
रहित और अपतितको (ब्रह्महा मद्यपस्त्येनस्तथैव गुरुतल्पगः ।
एतेमहापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत् ॥ ब्रह्महत्यादिके पापे
जातिभ्रंशकरे तथा । वृषलीगमनेत्यर्थ सावित्रीविरहेपिच ॥ अभ-

(११६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

क्षयभक्षणे चैव पतितो भवति ध्रुवम्) इत्यादि कालादर्शादि निरू-
पित पतनादिसे रहित और क्लीब अर्थात् नपुंसकतासे रहितको
प्र०—‘भस्मनि होमकरणात्षण्डे कन्याप्रदानतः । कुलधर्मपारित्यागा-
न्नरके नियतं वसेत् ॥’ याज्ञवल्क्यजी वरके लक्षणमें भी लिखते हैं ॥
(एतैरेव गुणैर्युक्तःसवर्णः श्रोत्रियोः वरः । यत्नात्परीक्षितःपुंस्त्वे युवा
धीमान् जनप्रियः) इति प्रथमाध्याये * अर्थ पूर्वाक्त गुणोंसे युक्त
सवर्णी अर्थात् ब्राह्मणीसे ब्राह्मण क्षत्रियाणीसे क्षत्रिया इत्यादि वेदके
जाननेवाला और यत्नसे पुंस्त्वमें परीक्षा कियाहो । युवा और सर्व
प्रियहो ॥ दोषसे रहित तुम्हारेको पिता कन्यादान देवेगा
यह प्रतिज्ञाको उच्चस्वरसे कहकर वरके हाथ पूर्णाफल यज्ञोपवीत
कन्याका भ्राता अथवा पुरोहित वा ब्राह्मणद्वारा देवे ॥ इति वाग्दान
विधिःसमाप्तः ॥ शुभंभू० श्रीः ॥ श्रीः ॥ भाव यह है कि क-
न्याका भाई आप वा पुरोहितसे अर्थात् जिसपर अपना दृढ़
विश्वासहो उसके द्वारा सगाई करे ॥

और कन्यासे वर द्विगुणा अथवा डेढा अर्थात् कन्या ८
वर्षकी बालक १६ वर्षका होना चाहिये न मिलनेपर ऐसा
तो कन्या ८ वर्षकी बालक १२ वर्षसे कम (न्यून) न होना
चाहिये ॥ अन्यथा जो लोभ मांहादिक वशसे वा धनी देखकर
आठवर्षके बालकके गलेमें १६ वर्षकी कन्याको चमेददेवे उस-
कोभी प्रत्यक्ष फल मालूम होना चाहिये कि बालक पुष्ट नहीं
होता और शुष्कवदन बलरहित प्रजात्पादनमें असमर्थ होता है
उसकी सन्तान उससे निर्बल होती है इत्यादि बहुत दोष हैं जिन

महाशयोंको देखनेकी इच्छा हो वह मैंने एक चिकित्साशास्त्रकी दिनरात्रि ऋतुचर्यादि बहुत प्रकारको युक्त स्वस्थपुरुष नामकर ग्रंथ बनाया है उसको देखलें ॥ प्रार्थनेयं वैदिकविष्णुदत्तस्य ॥

यजु० अध्याय १७ मंत्र ३ ॥

ॐ ऋतवस्थाऽतावृधा ऋजुष्यस्था
 ऋतावृधा । घृतश्च्युतोमधुश्च्युतोविराजो
 नामकामदुघाऽअक्षीयमाणा ॥

इतिपठित्वाशिरस्यक्षतादिकंदद्याद्दरः । भ्रातृव्यतिरिक्तपक्षे
 पितेत्यत्रदातेत्युच्चारयेत् ॥

भा० टी०—(ऋतवस्था इति) भो कन्याके देनेवाले ! तुम ऋतनाम सत्यमें तिष्ठित होनेवाले हो अर्थात् सत्य प्रतिज्ञा युक्त रहो । (ऋजुष्ये सन्मार्गं तिष्ठन्तीति ऋजुष्यस्थाः) अर्थात् सन्मार्गमें स्थितहो (ऋता सत्या अवधयो मर्यादाः समया वा येषां ते) अर्थात् मर्यादा पालक हो ॥ (घृतश्च्युतः) बहुत होनेसे जिसके घरमें घृत गिरता है ॥ (मधुश्च्युतः मधूनि मधुराणि गुडशर्कराणिच्यावयन्ति) अर्थात् बहुत मधुररसवाले तुम होवो (विशेषण राजन्ते इति विराजः) सुशोभित हो कामदुघा कामनाके पूर्ण करनेवाले हो नाम प्रसिद्धहो (अक्षीयमाणाः) नहीं नष्ट भये धनादि जिनके ऐसे आप होवें ॥ इस मंत्रसे वर आशीर्वाद देकर जो वाग्दान करे उसके शिरपर अक्षतोको धरदे ॥

(११८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

अथसर्वभ्योवेदाध्ययनश्रवणक्रियाव्यतिरिक्तक्रियानिवृ-
त्तयेऽक्षतानिदत्त्वा सहस्तस्वरेणाभावे तारस्वरेण वेदो-
च्चारणंकुर्यात् ॥

भा० टी०—(अथ सर्वभ्य इति) ग्रंथके आदिमें मंगल करना चाहिये इस शिष्टाचारसे अथ शब्दका मंगल और निष्कादि संस्कारोंसे अनन्तर यह दो अर्थ है । प्रमाण (अथ मंगलानन्तरारम्भप्रतिज्ञाधिकार समुच्चयेषु) विवाहके आरम्भमें हस्तस्वर सहित वेद उच्चारण करे प्र० याज्ञवल्क्यशिक्षामें (हस्तस्वरेण योधीते स्वरवर्णार्थसंयुतमित्यादि) बहुत लिखा है ॥

अभावमें ऊंचेस्वरसे कण्ठस्वर वा हस्तस्वरसे यथाबुद्धि करना चाहिये । तारस्वरसे उच्चारण करनेभी प्र० याज्ञवल्क्यमें यथा ॥ (स्वरस्तु द्विविधः प्रोक्तो वेदोच्चारणकर्मणि । कण्ठस्वरो हस्तस्वरो गौणमुख्यप्रभेदतः ॥ तारस्वरेण तावेव भवेतामिति निश्चयः । वेदस्योच्चारणं कुर्याद्यथाविधि च वेदवित् ॥ सर्वविघ्नविनाशाय सर्वारम्भेषु सिद्धये ॥) अर्थ—हस्तस्वर और कण्ठस्वर गौणमुख्य न्यायसे दो भेद हैं वह दोनोंही ऊंचे स्वरसे कहे जाते हैं विघ्नके नाश और सर्वसिद्धिके लिये आदिमें वेदोच्चारण करना चाहिये । अक्षत देकर अन्यकार्यसे निवृत्तहो वेदभगवान्का उच्चारण और श्रवण करना सर्व पुरुषकों चाहिये ॥

शुक्लयजुर्वेद० संहिता वाजसनेयी अध्याय २३ मं० १९ ॥

गुणानान्त्वा गुणपतिं हवामहे प्रियाणां

न्त्वाप्रियपतिं हवामहे ॥ निधीनान्त्वां
निधिपतिं हवामहेवसोमम । आहर्मजा
निगर्भधमात्वमजासि गर्भधम् ॥ १ ॥

भा० टी०—(गणानान्त्वेति) (हेममवसो) मेरेधन श्रीग-
णेशदेव (गणानांपतिं) गणोंके स्वामी (त्वां) तुमको (हवा-
महे) बुलावते हैं (प्रियाणां) इंद्रादि देवताका जो (प्रियप-
तिं) तारकादि दैत्योंके वधसे प्रियकार्तिकेयादि उनके विद्वंके
नाश करनेमें समर्थ (त्वां) तुमको (हवामहे) बुलावते हैं
(निधीनान्निधिपतिं) निधी जो धनादि उनमें जा निधि अर्थात्
अनंतफल देनेवाली योगसिद्धि उनके स्वामी तुमको बुलावते हैं
(हेगणपते अहं त्वया अजानि) हे गणेशदेव मुझको तुमने
उत्पन्नकिया । कैसा मैं हूं (गर्भधं) माताके गर्भमें पैदाहुआ
(अज) हे अनादि (त्वं) तुम (गर्भधमासि) गर्भमें नहीं
भये हो । भाव गर्भद्वारा परतंत्रतासे मैं जीव और आप गर्भादि-
रहित स्वतंत्रतासे प्रकाशहुए ईश्वर हैं इसलिये सर्वजगत् बनानेमें
समर्थ हो इति ॥

यजुः शु० अध्याय १६ मंत्र २५ ॥

ॐ नमो गणेशभ्यो गणपतिभ्यश्च वोनमो
नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वोनमो

(१२०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

नमोगृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्चवो न
मोनमोविरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो
नमः ॥

भा० टी०—(नमोगणेभ्यो) तुम गणनाम समूहोंको और गणोंके स्वामी याको नमस्कार है (व्रातेभ्यो) व्रातनाम राशीभूत तुमको और (व्रातपतिभ्यो) राशीभूतोंके स्वामी तुमको प्रणाम है (नमोगृत्सेभ्यो) नमस्कार है विघ्नके करनेवाले को वा विषयमें लम्पटको वा बुद्धिवालों तुमको(गृत्सपतिभ्योनमः)और उनके पालनेवाले तुमको प्रणाम है (नमो विरूपेभ्यो) प्रणाम है अनेकरूपवालों वा कुत्सित रूपवालों वा विशिष्ट रूपवालोंको(विश्वरूपेभ्यश्चवोनमः) संपूर्ण रूपवालो तुमको प्रणाम है ॥ इति गणेशस्तुतिः ॥

शुक्लयजु०अध्याय ३४ मंत्र ४६ ॥

सुहस्तोमाः सुहच्छन्दसऽआवृत्तःसुहृत्प्र
माऽऋषयःसप्तदैव्याः । पूर्वेषाम्पन्थामनु
दृश्यधीराऽअन्वालेभिरे रृत्योनरुश्मीन् ॥

भा० टी०—(सहस्तोमा) (सप्तऋषयः) अर्थात् भरद्वाज १ कश्यप २ गौतम ३ अत्रि ४ विश्वामित्र ५ यमदग्नि ६ वशिष्ठ ७ यह सातऋषि (पूर्वेषां) प्राचीनोंके (पन्थानं) मार्गको (अनुदृश्य) देखकर (अन्वालेभिरे) सृष्टिको उत्पन्न करतेभयेकैसे

ऋषि (सहस्तोमाः) सृष्टिकरनेकी इच्छावाले (सहच्छंदसः) छंद अर्थात् वेदसहित ज्ञानवान् (आवृतः) आशब्दसे कर्म उससे युक्त अथवा अपने जो कर्म श्रद्धा सत्यप्रधान उनसे युक्त अर्थात् तपरूप कर्मोंके अनुष्ठान करनेवाले (सहप्रमाः) यथार्थ ज्ञानयुक्त प्रमाण (यथार्थज्ञानं प्रमा) (दैव्याः) जो ब्रह्माकी प्रथम दैवी सृष्टि है और ईश्वरतासे सृष्टि करनेमें समर्थ (धीराः) ज्ञानसृष्टि युक्त (कथं) कैसे (अन्वालेभिरे) सृष्टि करतेभये (रथ्यो न रश्मीन्) रथ्य जो सारथी जैसे रश्मियोंमें । भाव है कि, उत्तमसारथी वांछितदेशकी प्रातिके लिये और घोड़ोंके बाँधनेके लिये रश्मियोंको बनाता है । तैसे वह ऋषि कारणोंसे सृष्टि करतेभये ॥ इति मङ्गलस्तुतिः ॥

यजु०अध्याय ३४ मंत्र १ ॥

यज्जाग्रतोदूरमुदैति दैवंतदुसुप्तस्यतथैवै
ति । दूरङ्गमञ्ज्योतिपाञ्ज्योतिरेकन्त
न्मेमनःशिवसंकल्पमस्तु ॥

भा०टी०—(यज्जाग्रतः) जो जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंसे (दूरमुदैति) दूरको जाता है कैसा है (दैवं) देवस्वरूप (तदुसुप्तस्यतथैवैति) स्वभावस्थामें भी सूक्ष्मन्द्रियोंसे स्वरचित विषयोंमें भ्रमता है (दूरंगमं) दूरगामी (ज्योतिषां एकं) इन्द्रियोंमें प्रधान ज्योति प्रकाश करनेवाला । प्र० भगवगीताका—(इंद्रियाणांमनश्चास्मि) (तन्मेमनः) ऐसा मेरा मन (शिवसंकल्पमस्तु) सत्वप्रधान वृत्तिवाला अथवा ब्रह्मलोकादिकोंमें बसनेवाला होवे ॥

(१२२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

यजु० अध्याय ३४ मंत्र २ ॥

येनकर्माण्युपसा मनीषिणोयज्ञेकृण्व
न्ति विदथेषुधीरा यदपूर्वं यक्ष्मन्तः
प्रजा नान्तन्मेमनःशिवसङ्कल्पमस्तु ॥

भा० टी०—(येनकर्माणि) (येन) जिस मनकरके
(अपसो मनीषिणः) अप अर्थात् कर्ममें कुशल प्रमाणनिघंटु। २
। १ (अप इति कर्मनाम) (यज्ञेकर्माणि कृण्वन्ति) यज्ञमें कर्मों-
को विस्तृत करते हैं कैसे हैं (विदथेषु धीराः) यज्ञादिकोंमें जो
पण्डित हैं वा यज्ञसाधन ज्ञानमें (यदपूर्वं) जो अपूर्व अर्थात्
नित्य वा अद्भुत (यक्ष्मं) पूजनयोग्य (प्रजानामन्तः) देहोंके
अन्तर वर्तनेवाला वह मन शिवसंकल्प युक्तहो ॥ ६ ॥

यजु० अध्याय ३४ मंत्र ३ ॥

यत्प्रज्ञानमुतचेतोधृतिश्चयज्ज्योतिरन्त
रुमृतम्प्रजासु ॥ यस्मान्नऋतेकिञ्चन
कर्मैकिक्रयते तन्मेमनःशिवसङ्कल्प
मस्तु ॥

भा० टी०—(यत्प्रज्ञानमिति) (यत्प्रज्ञानं) जो मन बुद्धिरूप
(उत) समुच्चयसे (चेतः) चेतनतासे स्मरणात्मक ज्ञान (धृतिश्च)

धैर्यरूप (ज्योतिरन्तः) इंद्रियोंके प्रकाश करनेवाला प्र० (सुख-
दुःखं धृतिरधृतिःसंशयं विपर्ययकामःसर्वं मन एवेति श्रुतिः) (प्रजासु
अमृतं) विनाशी शरीरोमें जो अमृत अर्थात् नित्य (यस्मान्न
ऋतेकिंचनकर्म क्रियंत) जिसके विना कोई काम नहीं किया जाता
वह मेरा मन शिवसंकल्पवाला होवे ॥

शुक्लयजुर्वेद अ० ३४ मन्त्र ४ ॥

येनेदम्भृतं भुवनम्भविष्यत्परिगृहीत
ममृतेनसर्वम् । येनयज्ञस्तायते सुप्त
होतातन्मेमनःशिवसङ्कल्पमस्तु ॥

भा० टी०—(येनेदमिति) (येनेदम्भृतं भुवनं भविष्यत्परिगृ-
हीतं) जिसने वर्तमान भूतभविष्यत् तीनकालमें संपूर्ण भुवनकोश
जाना है क्रमेण (अमृतेन) नित्यने (येन सप्तहोता यज्ञस्तायते)
जिस मनन सप्त हैं होता जिसमें ऐमा अग्निष्टोम नाम यज्ञ विस्तृत
किया वह मेरा मन शिवसंकल्पवाला होवे ॥

यजु० अध्याय ३४ मन्त्र ५ ॥

यस्मिन्नचःसामयजूंषियस्मिन्प्र
तिष्ठितारथनाभाविंवाराः । यस्मिंश्चि
त्तं सर्वमोतम्प्रजानान्तन्मेमनःशिवसं
ङ्कल्पमस्तु ॥

(१२४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

भा० टी०—(यस्मिन्नृचः सामयजूषि) अर्थात् जिसमें ऋक्-यजु सामवेद (प्रतिष्ठिताः) आश्रित हैं (रथनाभौआरा इव) रथकी चक्रकी नाभि ये आरकीन्याई (यस्मिन् सर्वे प्रजानां चित्तं ओतं) जिसमें सम्पूर्ण प्रजाका चित्त सम्बद्ध है ऐसा मेरा मन शिवसंकल्प युक्त होवे ॥

शु० यजुर्वेद अध्याय० ३४ मन्त्र० ६ ॥

सुपारथिरश्वानिवृत्तन्मनुष्यान्नेनीयते
भीशुभिर्वाजिनऽइव । हृत्प्रतिष्ठुन्यदजि-
रअविष्टुन्तन्मेमनःशिवसङ्कल्पमस्तु ॥

भा० टी०—(यन्मनुष्यान्नेनीयते) जो मन मनुष्यलोकसे लेकर सर्वदेव दानव ऋषि इत्यादि स्थूल सूक्ष्म जीवोंको श्रेष्ठ और निषिद्धकर्ममें लगाता है किसकी तरह (सुपारथिर्भीशुभिर्वाजिनः अश्वान् इव) श्रेष्ठमारथी रश्मिसे वेगवाले अश्वोंको मार्गसे निवृत्त और जैसे प्रवृत्त करे (यत्प्रतिष्ठुं) जो मन हृदय गत (अंजिरं) नित्य है (यविष्टुं) अतिशय वेगवाला वह मेरा मन शिवसंकल्प युक्त होवे ॥ इति शिवसंकल्पव्याख्या सम्पूर्णा ॥ शुभम् ॥

अथ स्वस्तिवाचनम् ॥

यजु० अध्याय २५ कं० १८ ॥

स्वस्तिनुऽइंद्रोवृद्धश्रवाःस्वस्तिनः

पूषाविश्ववेदाः ॥ स्वस्तिनस्ताक्षर्यो-
ऽरिष्टनेमिःस्वस्तिनोबृहस्पतिर्दधातु ॥ १ ॥

भा० टी०—बड़ीकीर्तिवाला इन्द्र हमारे अविनाशि शुभको देवे और सर्वधनोंका स्वामी पूषा हमको स्वस्तिदेवे नहीं नष्टभई चक्र-धारा वा पक्ष जिमके ऐसा रथ वा गरुड हमको स्वस्तिको दे और देवताओंका गुरु बृहस्पतिजी हमको स्वस्ति अर्थात् कल्याणको देवे ।

यजु० अध्याय ३६ । कंडिका ३६ ॥

पर्यःपृथिव्याम्पयुऽओषधीषुपयोदिव्य-
न्तरिक्षेपयोधाः । पर्यस्वतीःप्रदिशः-
सन्तुमह्यम् ॥ २ ॥

भा० टी०—हे अग्निदेव तुम पृथिवीमें पय नाम रसको धारण करो और ओषधी अन्नादिमेंभी रसको दे(ओषध्यः फलपाकान्ताः इति) इस प्रकार स्वर्गमें और अन्तर्गिष आकाशमें रसको स्थितकर परन्तु मंगलिय दिशा और विदिशा पयस्वती नाम रसयुक्त हों मैं यह प्रार्थना करता हूँ ॥ २ ॥

यजु० अध्याय ५ कंडि० २१ ॥

विष्णोरुराटमसि विष्णोश्चपत्रेस्तथो
विष्णोश्चसूरसि विष्णोर्द्विवोसि । वैष्णव-
मसिविष्णवेत्वा ॥ ३ ॥

(१२६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

भा० टी०—हे दर्भरूप विष्णु तुम हविर्धान मण्डपके ललाट-स्थानहो हेररात्र्यन्त तुम विष्णुनाम हविर्धान मण्डपके (शनष्त्रे-स्थः) ओष्ठकी सन्धिरूपहो हे लस्यूजनि अर्थात् बृहत्सृची तुम विष्णुनाम हविर्धान मण्डपकी सृचीहो हे रज्जुग्रन्थि तुम हविर्धानकी ध्रुवनाम ग्रन्थिहो हे हविर्धान तुम विष्णुसंबन्धिहो इसलिये अर्थात् विष्णुसंबन्धि होनेसे आपकी स्तुति करताहुआ स्पर्श करताहूँ ॥

यजु० अध्याय १४ कंडिका २० ॥

अग्निर्देवतावातो देवतासूर्यो देवताचन्द्रमा
देवतावसवो देवतारुद्रा देवतादित्या
देवतामरुतो देवताविश्वे देवा देवताबृहस्पतिर्देवतेन्द्रो
देवतावरुणो देवता ॥ ४ ॥

भा० टी०—हे हविर्धान और जो तुम अग्नि वायु सूर्य चन्द्रमा वसु ८ रुद्र ११ आदित्य १२ मरुत ४९ विश्वदेव १३ बृहस्पति इन्द्र वरुण इत्यादि देवतास्वरूपहो इसलिये आपकी स्तुति वा स्पर्श करता हूँ ॥ ४ ॥

यजु० अध्याय ३६ कंडिका १७ ॥

द्यौःशांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवीशा-
तिरापुःशांतिरोषधयुःशांतिः वनस्प-
तयुः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मशा-

न्तिं सर्वं च शांतिं शांतिरेव शांतिं सामा
शांतिरेधि ॥ ५ ॥

भा० टी०—स्वर्गरूप जो शांति और आकाशरूप जो शांति
पृथिवीरूप जो शांति जलरूप जो शांति औषधीरूप जो शांति
वृक्षरूप तथा सर्वदेवरूप और शांतिस्वरूप जो शांति वह मेरेको हे
गणेशदेव ! आपकी प्रसन्नतासे होवे ॥ ५ ॥

यजु० अध्याय ३० अनुवाक १ मंत्र ३ ॥
विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव ॥
यद्द्रन्तन्नऽआसुव ॥ ६ ॥

भा० टी०—हे अन्तर्यामी सूर्यदेव तुम मेरे सम्पूर्ण पापको दूर
लेजाओ अर्थात् नष्ट करो और जो कल्याण है वह मुझको
देवो ॥ सूर्यभगवान्को अन्तर्यामी होनेमें प्रमाण (आदित्यचन्द्रा-
वनिलोऽनलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उभे च
सन्ध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम् इति नीतौ) (सूर्य आत्मा-
जगतस्तस्थुषश्च इति श्रुतिः) ॥ ६ ॥

यजु० अ० १६ अनु० ७ मंत्र ४८ ॥

इमारुद्राय तवसे कपर्दिने क्षुयद्द्वीराय प्रभं
रामहेमतीं ॥ यथाशमसद्विपदे चतुष्प
देविश्वम्पुष्टङ्ग्रामेऽअस्मिन्ननातुरम् ॥ ७ ॥

(१२६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

भा० टी०—हे दर्भरूप विष्णु तुम हविर्धान मण्डपके ललाट-
स्थानहो हेरराट्यन्त तुम विष्णुनाम हविर्धान मण्डपके (शनप्त्रे-
स्थः) ओष्ठकी सन्धिरूपहो हे लस्यूजनि अर्थात् बृहत्सूची तुम
विष्णुनाम हविर्धान मण्डपकी सूचीहो हे रज्जुग्रन्थि तुम हविर्धा-
नकी ध्रुवनाम ग्रन्थिहो हे हविर्धान तुम विष्णुसंबन्धिहो इसलिये अ-
र्थात् विष्णुसंबन्धि होनेसे आपकी स्तुति करताहुआ स्पर्श करताहूं ३ ॥

यजु० अध्याय १४ कंडिका २० ॥

अग्निर्देवतावातोदेवतासूर्यो देवताचु-
न्द्रमादेवतावसवोदेवतारुद्रादेवतादित्या
देवतामरुतोदेवताविश्वेदेवादेवताबृहस्प-
तिर्देवतेद्रोदेवतावरुणोदेवता ॥ ४ ॥

भा० टी०—हे हविर्धान और जो तुम अग्नि वायु सूर्य चन्द्रमा
वसु ८ रुद्र ११ आदित्य १२ मरुत् ४९ विश्वेदेव १३ बृहस्प-
ति इन्द्र वरुण इत्यादि देवतास्वरूपहो इसलिये आपकी स्तुति वा
स्पर्श करता हूं ॥ ४ ॥

यजु० अध्याय ३६ कंडिका १७ ॥

द्यौःशांतिरंतरिक्षंशांतिःपृथिवीशा-
तिरापुःशांतिरोषधयुःशांतिःवनस्प-
तयुः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्मशा-

न्ति॑सर्व॑श्शांति॑शांति॑रेवशांति॑सामा
शांति॑रोधि ॥ ५ ॥

भा० टी०—स्वर्गरूप जो शांति और आकाशरूप जो शांति पृथिवीरूप जो शांति जलरूप जो शांति औषधीरूप जो शांति वृक्षरूप तथा सर्वदेवरूप और शांतिस्वरूप जो शांति वह भेरेको हे गणेशदेव ! आपकी प्रसन्नतासे होवे ॥ ५ ॥

यजु० अध्याय ३० अनुवाक १ मंत्र ३ ॥

वि॒श्वानि॑देवसवित॑र्दुरि॒तानि॑परा॑सुव ॥

यद्भु॑द्रन्तन्न॒ऽआसु॑व ॥ ६ ॥

भा० टी०—हे अन्तर्यामी सूर्यदेव तुम भेरे सम्पूर्ण पापको दूर लेजाओ अर्थात् नष्ट करो और जो कल्याण है वह मुझको देवो ॥ सूर्यभगवान्को अन्तर्यामी होनेमें प्रमाण (आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम् इति नीतौ) (सूर्य आत्मा-जगतस्तस्थुषश्च इति श्रुतिः) ॥ ६ ॥

यजु० अ० १६ अनु० ७ मंत्र ४८ ॥

इ॒मारु॑द्राय॒तवसे॑ क॒पुर्दि॑ने॒क्षय॑र्द्वी॒राय॑प्रभं
राम॑हेमती॑ ॥ यथा॑शम॒सद्वि॑पदे॒चतु॑ष्प
दे॒विश्व॑म्पु॒ष्टद्ग्रामे॑ऽअ॒स्मिन्न॑नातुरम् ॥ ७ ॥

(१२८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

भा० टी०—(तवसे) बलवान् (कपर्दिने) जटिल (क्षय-
द्वीरा) शूरवीरोंयुक्त वा शूरवीरोंके नाश करनेवाले और (द्विपदे)
पुत्रोंके देनेवाले (चतुष्पदे) चौपायनाम पशुओंके देनेवाले जो
महादेव उनसे जैसे इस ग्राममें सुख और संपूर्ण लोक सुखी निरोग
होवें तैसे मतिको समर्पण करते हैं अर्थात् प्रार्थना करते हैं ॥ ७ ॥

यजु० अध्याय २ मन्त्र १२ ॥

एतन्तैदेवसवितर्य्ययज्ञम्प्राहुर्बृहस्पति
येब्रह्मणे ॥ तेनयज्ञमवतेनयज्ञपतिन्ते
नुमामव ॥ ८ ॥

भा० टी०—हे सर्वान्तर्यामी सूर्यदेव यह किया हुआ यज्ञ
तुम्हारे लिये यजमान लोक कहते हैं किञ्च तुम्हारेसे प्रेरित देवोंके
यज्ञमें जो ब्रह्मा बृहस्पति उसके लियेभी कहते हैं और अपना जान
यज्ञरक्षा करो और ब्रह्मारूप जो मैं मुझको भी रक्षा करो ॥ ८ ॥

सुप्रतिष्ठितावरदाभवन्तुदेवाः ॥ १० ॥ इतिस्वस्तिवाचनम् ॥

भा० टी०—सत्कारकिये हुए देवता लोकभी वरके दाता
होवें ॥ १० ॥ इति ॥

अँकारपूर्वहियोगोपासनंयानिनित्यानिकर्माणिइत्यादिश्रुतिसे
अँपूर्वक सर्व मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिये ॥

इति श्रीकर्पूरस्थलनिवासिदैवज्ञदुनिचन्द्रात्मज (शोरि)

पं० विष्णुदत्तकृतटीकायां पंचमप्रकरणं समाप्तिमगात् ॥

(इति पंचमप्रकरणम्)

अथ विवाहविधौ षष्ठं प्रकरणम् ।

ॐस्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ अथविवाहः ॥ तत्रक
न्याहस्तेनपोडशहस्तपरिमितं मण्डपंविधायतदक्षि-
णस्यांदिशिपश्चिमांदिशमाश्रित्यमण्डपसंलग्नमुत्तरा-
भिमुखंकौतुकागारंचमण्डपाद्बहिरैशान्यांजामातृच-
तुर्हस्तपरिमितांसिकतादिपरिष्कृतां वेदिञ्चकारयेत् ॥

भा० टी०—स्वस्तिवाचनके अनन्तर विवाहविधि लिखते हैं
कि, कन्याहस्तपरिमाणके सदृश १६ हाथका मण्डप बनाकर उसकी
दक्षिणकोणमें पश्चिमदिशाको ले अर्थात् निर्ऋतिकोणमें उत्तरा-
भिमुख जाने आनेकेलिये और कुलरीति करनेके लिये कौतुकागार
बनावे और मण्डपके बाहर साथ मिलता ईशानकोणमें जामातृ
(जमाई) के चारहस्त परिमित तुष (तुह) केश (रोम) शर्करा-
दि निषिद्ध वस्तुओंसे रहित अर्थात् शुद्ध अग्निस्थापनके लिये
चार थंभोंवाली वेदीको बनवावे ॥ और विवाहमें तिलकनाम
मण्डल रचना (विवाहादौ लिखेन्नित्यं तिलकं नाम मण्डलम्) इस
कात्यायनजीके प्रमाणसे—तिलकमण्डलका लक्षण लिखते हैं ॥
(सूर्यादयो ग्रहा यत्र राजन्ते मध्यसंस्थिताः । इन्द्रादयः प्रति-
दिशं स्वस्वभावेष्ववस्थिताः । बहिःशिवसुताद्याश्च सर्वतोभद्रमुच्यते ॥
विन्नराजो भवेद्यत्र मध्येनान्यस्तुकश्चन । सुमहत्सुन्दरश्चैव तिलकं
नाम मण्डलम् । गृहारामप्रतिष्ठायां दुर्गाहोमे नवग्रहे । सर्वतो

(१३०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

भद्रकं कुर्यात् मण्डपे तिलकं लिखेत् ॥ २३ ॥) इत्यादि वेदी बनानेकेभी बहुत प्रमाण हैं परंतु विस्तारके भयसे लिखे नहीं जाते ॥

विवाहदिनेकृतनित्यक्रियेण जामातृपित्रामातृपूजापूर्वकमाभ्युदयिकश्राद्धं कर्तव्यम् ॥ कन्यापिताम्यातः शुचिः शुक्लाम्बरधरः कृतनित्यक्रियो मातृपूजाभ्युदयिकेकृत्वा अर्हणवेलायां मण्डपे प्रत्यङ्मुखः प्राङ्मुखं वरमूर्द्धं जानुं तिष्ठंतं संबोध्य ततः स्वस्तिवाचनं गणेशकलशादिपूजनं च कृत्वा ॥

भा० टी०—विवाहके दिन वरके पिताको नित्यक्रिया मंध्योपासन पंचमहायज्ञादि मातृपूजापूर्वक आभ्युदयिक (नांदीश्राद्ध) करना चाहिये ॥ कन्याका पिताभी स्नानकर पवित्रहो नित्यक्रियाकर धौतवस्त्रधार षोडशमातृपूजा नांदीमुखश्राद्धकर पूजनकालमें मंडपमें पश्चिमाभिमुख हो उर्द्धं जानु प्राङ्मुख बैठे वरको संबोधन कर स्वस्तिवाचन कलशपूजन गणेशादिपूजन करे विवाहमें अवश्य नांदीमुखश्राद्धके करनेमें प्रमाण (कन्यापुत्रविवाहेतु प्रवेशेन ववेश्मनि ॥ चूडाकर्मणिवालानां नामकर्मादिके तथा ॥ सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने) इत्यादि बहुत प्रमाण हैं (सर्ववृद्धौ हि पितरः पूजनीयाः प्रयत्नतः) इति शातातपः । इसकी प्रक्रिया श्राद्धविवेकमें लिखी है ॥ याज्ञवल्क्यजी सूक्ष्मतासे लिखते हैं ॥ एवं प्रदक्षिणावृत्को वृद्धौ

नान्दीमुखात्पितृन् । यजेत दधिकर्कन्धूमिश्रान्पिण्डान्यवैःक्रियेति ॥
प्रथमाध्याये श्राद्धप्रकरणे ।

साधुभवानास्तामिति प्रजापतिर्ऋषिब्रह्मादेवता यजु
ऋच्छंदोवरार्चनेविनियोगः । ॐसाधुभवानास्ताम-
र्चयिष्यामोभवंतामितिस्यात् । ॐअर्चयेतिवरेणो-
क्ते वरोपवेशनार्थेशुद्धमासनंदत्त्वाविष्टरमादाय ॐवि
ष्टरो विष्टरो विष्टर इत्यनेनोक्तेऽविष्टरःप्रतिगृह्यतामि-
तिदातावदेत् । ॐविष्टरंप्रतिगृह्णामीत्यभिधायवरो
विष्टरंगृहीत्वा ॥

भा० टी०—साधुभवान् इमं मंत्रका प्रजापति ऋषि ब्रह्मा देवता
यजुच्छंद वरके पूजनमें विनियोग है विनियोग विना मंत्रोच्चारणमें
दोष लिखते हैं (विनियोगविनामंत्रः पङ्केगौरिवसीदति) इसलिये
मंत्रोच्चारणके प्रथम विनियोग करना चाहिये इसका लक्षण जैसे
(ऋषिच्छंदोदेवतानां कर्मणि विनियोजनम् । विनियोगः स आदिष्टो
मंत्रमंत्रे प्रयुज्यते) (मंत्रार्थ) आप साधु—श्रेष्ठवृत्तिवाले हो
हम तुम्हारेको पूजन करते हैं ॥ पूजनीय षट् ६ पुरुष होते हैं जैसे
पारस्करजी लिखते हैं (षडर्घ्या भवन्त्याचार्यऋषिक्रंतृविग्वैवाह्यो
राजा प्रियःस्नातकइति प्रतिसंवत्सरानर्हयेयुर्यक्ष्यमाणास्त्वृत्विजइति)
याज्ञवल्क्यस्मृतिमें जैसे (प्रतिसंवत्सरंत्वर्घ्याः स्नातकाचार्य्य
पार्थिवाः ॥ प्रियोविवाह्यश्च तथा यज्ञंप्रत्यत्विजःपुनः) अर्थात्
स्नातक १ गुरु २ राजा ३ मित्र ४ वर ५ ऋत्विक् ६ यह
पूज्य होते हैं । पूजन करे ऐसे वर कहनेके अनंतर बैठनेकेलिये वरके

(१३२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

शुद्धआसन देकर विष्टरको हाथमें ले (विष्टरो विष्टरो विष्टरः ।) ऐसे कहकर विष्टर ग्रहण कीजिये दाता वरको यह कहे । विष्टरग्रहण करता हूं ऐसे वर कह विष्टर हाथमें ले आगेका मंत्र पढ़े ॥ ॥ विष्टरका लक्षण लिखे हैं (पंचाशताभवेद्ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरः । ऊर्ध्वकेशो भवेद्ब्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः ॥ दक्षिणावर्तको ब्रह्मा वामावर्तस्तु विष्टरः ॥ विष्टरे सर्वयज्ञेषु लक्षणं परिकीर्तितम् ॥)

वर्ष्मोस्मीत्याथर्वणऋषिर्विष्टरोदेवताऽनुष्टुप्छन्दः उ
पवेशनेविनियोगः ॥ ॐवर्ष्मोस्मिसमानानामुद्यता
मिवसूर्यः । इमंतमभितिष्ठामियोमाकश्चाभिदासति ॥
इत्यनेन आसेनउत्तराग्रविष्टगोपरि वरउपविशति ॥

भा० टी०—(वर्ष्मोस्मि)इसमंत्रका अथर्वणऋषि अनुष्टुप्छन्द
विष्टर देवता वरके बैठनेमें विनियोग है ॥ (मंत्रार्थ) जैसे
नक्षत्रतारागणमें मध्यसे सूर्य भगवान् श्रेष्ठ है तद्वत् अपनी जातिसे
हम श्रेष्ठ हैं जो मेरा तिरस्कार करनेको यत्न करता है उसको
और इस विष्टरको पादमें रखकर स्थित हैं इस मंत्रसे उत्तराभि-
मुख विष्टरपर बैठजावे ॥

ॐपाद्यंपाद्यंपाद्यमित्यनेनोक्तेपाद्यं प्रतिगृह्यतामिति
दातावदेत् । पाद्यंप्रतिगृह्णामीत्यभिधायवरः । ॐवि
राजोदोहोसि विराजोदोहममीयमयिपाद्यायैविराजो
दोहः ॥ इतिदक्षिणंचरणंप्रक्षाल्यानेनैवक्रमेणवामच
रणंप्रक्षालनम् ॥

भा० टी०—(पाद्यं पाद्यं पाद्यं) ऐसे अन्यपुरुषके कहने अनन्तर पाद्यग्रहण कीजिये यह दाता कहे पश्चात् पाद्यको ग्रहण करता हूँ यह वर कहे ॥ (विराजो दोहोसि) इस मंत्रका प्रजापति ऋषि अनुष्टुप्छन्द जलदेवता पादको प्रक्षालनमें विनियोगहै (मन्त्रार्थ) हे जल! तुम विशिष्टदीप्ति परमात्माका दोहनाम रस साररूप हो इस लिये हे जल ! आपको ग्रहण करते हैं किंच हे विराजोदोह ! अर्थात् मन्त्रसंस्कृत जल में चरणके प्रक्षालन योग्यहो ॥ मन्त्रपाठसहित दक्षिण पाद धोवे । अनन्तर वामपाद धोवे । यहाँ मन्त्रके अंतमें विधान नहीं ॥ और ब्राह्मण वरका प्रथम दक्षिणपाद प्रक्षालन करना (धोना) और क्षत्री वैश्योंका प्रथम वामचरण प्रक्षालन करना चाहिये, प्रमाण०-गृह्यमंत्रे (सव्यं पादं प्रक्षाल्य दक्षिणं प्रक्षालयति ब्राह्मणश्चेद्दक्षिणं प्रथमं) और भी (ब्राह्मणो दक्षिणं पादं पूर्वं प्रक्षालयेत्सदा । शत्रादिः प्रथमं वामभित्तिधर्मानुशासनम् ॥) यह पद्म-पुराणमें लिखा है ॥

ततःपूर्ववद्विष्टरान्तरंगृहीत्वा चरणयोरधस्तादुत्तरा
ग्रंवरःकुर्यात् । ततो दूर्वाक्षतफलपुष्पचंदनयुतार्घपात्रं
गृहीत्वायजमानः ॥ ॐअर्घइत्यादिविष्णुर्ऋषिस्त्रि
ष्टुप्छन्दोविष्णुर्देवताअर्घदानेविनियोगः । ॐअर्घो
ऽर्घोऽर्घइत्युक्तेऽन्येनार्घःप्रतिगृह्यतामिति दातावदे
त् । ॐअर्घ प्रतिगृह्णामीत्यभिधाय वरो यजमानह
स्तादर्घगृहीत्वा । आपःस्थइत्यादिमन्त्रस्यासिन्धुद्वी
पऋषिरापोदेवता अनुष्टुप्छन्दोऽर्घाक्षतादिधारणेविनि

(१३४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

योगः ॥ ॐ आपःस्थयुष्माभिः सर्वान्कामानवाप्नुवा
नीतिशिरसिकिञ्चिदक्षताधिकं धृत्वा ॥

भा० टी०--पूर्वोक्तवत् और विष्टरको उत्तराय चरणोंके नीचे रखकर इसके अनंतर दूर्वा (नवीन तृण) अक्षत तण्डुल चन्दन पुष्पयुक्त । यजमान अर्घपात्रको लेकर ॥ (ॐ अर्घ०) इस मन्त्रका विष्णुऋषि त्रिष्टुप्छन्द विष्णुदेवता अर्घके दानमें विनियोग है ॥ यथार्थज्ञान होनेसे उत्तम दान होता है इसलिये विष्टर पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदिका तीन तीनवार उच्चारण करना चाहिये प्रमाणभी गृह्यसूत्रमें जैसे लिखा है (अन्यस्त्रिः प्राह विष्टरादीनि) अर्घ ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ है यजमानवाक्यके अनन्तर अर्घको वर स्वीकार कर यजमानके हाथसे लेकर ॥ आपःस्थ इस मन्त्रका सिन्धुद्वीपऋषि आपदेवता अनुष्टुप्छन्द अर्घ अक्षतधारणमें विनियोग है ॥ (मन्त्रार्थ) हे जलदेवता ! जिस हेतुसे तुम अमृत, दुग्ध, दधि, मधु, फल, पुष्प, पत्र, यव, अन्नादि सर्ववस्तुमें व्याप्त हैं इसलिये तुम्हारे आश्रयहो हम सम्पूर्ण कामनाको प्राप्त होवें इस मन्त्रसे किञ्चित् शिरमें अक्षत धारण करे ॥

समुद्रं वदत्यादि मन्त्रत्रयस्याथर्वणऋषिर्बृहतीच्छन्दो वरुणो देवताऽर्घजलप्रवाहे विनियोगः । ॐ समुद्रं वः प्रहिणो मिस्वां योनिमभिगच्छत । अरिष्टास्माकं वीरामापरा सेचिमतपयः ॥ ४ ॥ इत्यर्घपात्रस्थजलमैशान्यान्त्य जन्पठेत् । तत आचमनीयमादाय यजमान आचमनी यमाचमनीयमाचमनीयमित्यन्येनोक्ते आचमनीयं प्र

तिगृह्यतामितिदातावदेत् ॥ आचमनीयंप्रतिगृह्णामी
त्यभिधायवरोयजमानहस्तादाचमनीयं गृहीत्वा ॥

भा० टी० (समुद्रं) इस मन्त्रका अथर्वण ऋषि बृहती छंद
वरुण देवता अर्धजलके गेरनेमें विनियोग है (मंत्रार्थ) हे जल-
देवता ! सिद्ध किया अर्थ जिन्होंने ऐसे तुमको समुद्रमें प्राप्त
करता हूं ॥ अर्थात् कारणताको प्राप्त करता हूं इसलिये मेरे
से प्रेरित तुम (स्वांयोनिं) अर्थात् समुद्रको प्राप्त होवे किञ्च
तुम्हारे प्रसन्नतासे हमारे भाई शूरवीर और हमारे पुत्र
(अरिष्टा) अर्थात् आरोग्य रहे और मेरी पूजाके योग्य ज-
ल मत नष्ट हो अर्थात् सदा रहे और मैंभी
पूजाको प्राप्त हो ॥ ईशानदिकमें जलको त्यागन करता
हुवा इस मंत्रको पढ़े इसके अनंतर आचमनीयको यजमान
लेकर ॥ आचमनीयं इस मन्त्रका आपस्तम्ब ऋषि उष्णिक्छन्द
जलदेवता आचमनीयके देनमें विनियोग है ॥ यह आचमनीय है ३
ऐसे अन्यपुरुषके वचनमें आचमनीय ग्रहण करो यह दाता वरको
कहे । पश्चात् वर आचमनीय ग्रहण करताहूं यह कहकर यजमानके
हाथसे आचमनी लेकर ॥

आमागत्रितिपरमेष्ठीऋषिर्बृहतीच्छन्द आपोदेवता अ-
पामुपस्पर्शनिविनियोगः ॥ ॐआमागन्यशसास २
सृजवर्चसातम्माकुरु प्रियंप्रजानामधिपतिंपशूनाम
रिष्टंतनूनाम् ॥ इत्यनेनसकृदाचामेत्त्रिस्तूर्णींआचा
मेत् । ततोयजमानः कांस्यपात्रस्थदधिमधुघृतानि

समादायान्येन कांस्यपात्रेण पिधाय कराभ्यामादाय
मधुपर्कैति मधुश्छन्द ऋषिर्बृहतीच्छन्दो मधुमुक्
देवता मधुपर्कदाने विनियोगः ॥ ॐमधुपर्को मधुप
र्को मधुपर्क इत्यन्येनोक्ते ॐमधुपर्कःप्रतिगृह्यतामि
तिवदेत् ॐमधुपर्कं प्रतिगृह्णामीत्यभिधायैववरः ।
ॐमित्रस्येति प्रजापतिर्ऋषिःपंक्तिच्छन्दो मित्रोदेव
ता मधुपर्कदर्शने विनियोगः । ॐमित्रस्यत्वा चक्षु
षाप्रतीक्ष्य इति दातृकरस्थमेव मधुपर्कं निरीक्ष्य दे
वस्यत्वेति ब्रह्माऋषिर्गायत्रीच्छन्दःसविता देवता मधु
पर्कग्रहणे विनियोगः ॥

यजुर्वे० अ० ६ मं १ ॥

ॐदेवस्यत्वासवितुःप्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां
म्पुष्णोहस्ताभ्यांप्रतिगृह्णामि । इत्यभि
धायवरोमधुपर्कं गृहीत्वावामहस्तेकृत्वा ॥

भा० टी०—आमागन् इस मन्त्रका परमेष्ठी ऋषि—बृहती छंद
जलदेवता जलके स्पर्शन करनेमें विनियोग है ॥ (मंत्रार्थ) हे वरुणदे
व ! तुम्हारे आश्रित मुझको आप यशस्वी अर्थात् यशसंयुक्त करो
किञ्च ब्रह्मतेजसे युक्त करो अर्थात् क्षत्री वैश्यकोभी स्वतेजसे युक्त
करो ॥ और महात्मा पुरुषोंकी मित्रतासे तथा पशुओंका मालिक
और सुखी करो इस मंत्रसे वर एक आचमन करे फिर दो चुप-
चाप (तूष्णीसे) आचमन करे अनंतर यजमान कांस्यपात्रमें दधि

मधु घृतको पाकर ऊपरसे अन्य कांस्यपात्रसे बंदकर हाथमें लेवे मधुपर्क इसमंत्रका मधुच्छन्दऋषि, बृहती छंद, मधुभुग्देवता, मधुपर्कके देनेमें विनियोग है ॥ मधुपर्कके बनानेमें पराशरजी लिखते हैं कि (सर्पिरेकगुणंप्रोक्तं शोधितद्विगुणं मधु । मधुपर्कविधौप्रोक्तं सर्पिषा च समं दधि) अर्थात् घृत एक गुण शहत द्विगुण दधि एक गुण होना चाहिये । मधुपर्क ग्रहण करे, अनंतर ग्रहण करता हूं यह वर यजमानसे कहे । मित्रस्य इस मंत्रका प्रजापति ऋषि पंक्तिछंद मित्रदेवता मधुपर्कदर्शनमें विनियोग है (मंत्रार्थ) हेमधुपर्क ! तुम्हारेको मित्रदेवके नेत्रोंसे देखता हूं ॥ इस मंत्रसे दाताके हाथमेंही स्थित मधुपर्कको देखे ॥ (देवस्य त्वा) इसमंत्रका ब्रह्माऋषि गायत्रीछन्द सूर्यदेवता मधुपर्कके ग्रहण करनेमें विनियोग है ॥ (मंत्रार्थ) हे मधुपर्क ! सवितानाम देवताकी आज्ञासे हम तुम्हारेको अश्विनी-कुमारकी बाहु तथा पूष्णः अर्थात् सूर्यदेवके हाथोंसे ग्रहण करते हैं ॥ आशय यह है कि सूर्यदेवकी कृपासे अश्विनीकुमारने दिया है बलि जिनको ऐसे बाहुओंसे तद्रत् सूर्यके हाथोंसे ग्रहण करता है इसमंत्रको पढ़कर वर मधुपर्क ग्रहणकर वामहाथमें रखकर ॥

ॐ नमः श्यावेति प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्रीछन्दः सविता देवतामधुपर्कालोडनेविनियोगः ॥ ॐ नमः श्यावा स्यायन्नाशनेयत्तआविद्धंतत्तेनिष्कृन्तामीति अनामि कयात्रिः प्रदक्षिणमालोडय अनामिकांगुष्ठाभ्यां भूमौ किञ्चिन्निक्षिप्यपुनस्तथैवद्विः प्रत्येकं निक्षिपेत् । तत आचारान्मधुपर्ककिञ्चित्कन्यायैद्रष्टुंदद्यात् ॥ ॐ

(१३८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

यन्मधु इत्यस्य कौत्सऋषिर्जगतीछन्दःमधुपर्कौदे
वतामधुपर्कप्राशनेविनियोगःॐयन्मधुनोमधव्यंपर
मंरूपमन्नाद्यम् ॥ तेनाऽहंमधुनोमधव्येनपरमेणरूपे
णान्नाद्येनपरमोमधव्योन्नादोसानि ॥ २ ॥ इत्यनेनवार
त्रयंमधुपर्कप्राशनंप्रतिप्राशनान्तेचैतन्मंत्रपाठः ॥
ततोमधुपर्कशेषमसंचरेदेशेधारयेत् ॥

भा० टी०—(नमःश्यावेति) इसमंत्रका प्रजापति ऋषि गाय
त्रीछन्द सवितादेवता मधुपर्कके आलोडनमें विनियोग है ॥ मंत्रा-
र्थ हेजठरात्रे कपिश ! अर्थात् धूम्रवर्ण है जिसका और अन्नके पचा-
नेवाले तुमको प्रणाम करते हैं और जो मैंने भोजनकालमें निषिद्ध
पदार्थ भक्षण किया वह निकालता हूं ॥ इसमंत्रको पढ अनामि-
कासे तीनवार प्रदक्षिणा क्रमसे आलोडन कर और अनामिका
अंगुष्ठसे पृथिवीपर किंचित् २ तीनवार मधुपर्क गेरे अनंतर लोका-
चारसे मधुपर्क किंचित् कन्यांक लिये देखनेको भेजे ॥ (यन्म
धुन—) इसमंत्रका कौत्सऋषि जगती छन्द मधुपर्कदेवता प्राशन कर-
नेमें विनियुक्त है (मंत्रार्थ) हे देवगणो ! जो मकरंदका परम उत्कृष्ट
रूप (अनाद्यं) अर्थात् अन्नादिवत् प्राणधारक तिसपर उत्कृष्ट
अर्थात् शरीरमें व्याप्त सर्वरूपको प्राप्त हुए रसकरके मैं सबसे श्रेष्ठ
मधुपर्कके योग्य अन्तके भोगनेवाला होवो ॥ इसमंत्रको पढ तीनवार
मधुपर्क प्राशन कर मंत्रपाठके अनन्तर प्राशन करना ॥ शेष
रहा मधुपर्क शुद्धभूमि जिसपर पाद न आवे वहाँ गेरदेवे ॥ इस
स्थान सूत्रकारके बहुत मत हैं कि शेष मधुपर्क जो पूर्वस्त्रीका

पुत्रहो उसको देना वा पूर्वदिशा असंचर स्थानमें गेरदेना वा संपूर्ण आप पीना अथवा शेष अपने विद्यार्थीको देना (यथासूत्रं—मधुमतीभिर्वा प्रत्यृचं पुत्रायान्तेवासिन उच्छिष्टं दद्यात्सर्वं वा प्राश्नीयात्प्राग्वासंचरेविनयेदिति)

ततस्त्रिराचामेद्रः वाङ्मआस्येअस्तु ॥ नसोर्मेप्राणोऽस्तुअक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तुकर्णयोर्मेश्रोत्रमस्तु बाह्वोर्मेबलमस्तुऊर्वोर्मेओजोऽस्तुअरिष्टानिमेऽङ्गानितनूस्तन्वामेसंतु ॥ इतिप्रत्येकंसर्वगात्राणिसंस्पृशेत् ॥

भा० टी०—सजलहाथसे अंगन्यास करे (मंत्रार्थ) वाक् (वाणी) देवता मेरे मुखमें हो और नासिकामें प्राण हो नेत्रोंमें चक्षुरिंद्रिय हो कर्णोंमें श्रोत्रेंद्रिय हो बाहुमें बलहो और ऊरुवोंमें ओजहो तथा मेरे संपूर्ण अंग अरिष्ट अर्थात् आरोग्य हो, इस मंत्रसे एक २ अंगके क्रमसे स्पर्श करना ॥ अब जैसे अंगुलीसे चाहिये वह क्रम लिखते हैं ॥ कराग्र अंगुली तीन १ तर्जनि अंगुष्ठ २ मध्यमा अंगुष्ठ ३ अनामिकांगुष्ठ ४ अंगुष्ठकनिष्ठिका ५ सर्वांगुलि निर्मालन ६ यह क्रमपूर्वक रीति है ॥

ततोयजमानद्वारागौर्गौर्गौरितिपाठः ॥ अत्र वरयजमानाभ्यांतृणच्छेदनमाचारोनतुविधिः ॥ अतएवपद्धतिषु ॥ ततोवरस्तृणंयजमानेनसहगृहीत्वाऽग्रिममंत्रंपठेत् ॥ मातारुद्राणामितिमंत्रस्यब्रह्माऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः शौरिर्देवताभिमन्त्रणेविनियोगः ॥ ॐमातारुद्राणांदुहितावसूनां स्वसादित्यानाममृतस्यनाभिः॥ प्रनु वोचं चिकितुषेजनायमागामनागामदितिं वधि

ष्टममचाऽमुष्यचपाप्माहतः ॥ ॐ उत्सृजततृणान्य
 चूधृत्योत्सृजेदितिब्रूयात् ॥ उत्सृजेत्तुतामितितृणं
 छिन्द्यादित्युत्सृजेत्त्यजेत् ॥

भा० टी०—तदनंतर यजमानद्वारा (गौर्गौर्गौः) यह तीनवार कहाना
 यहाँ वर यजमानका तृणछेदन आचार है विधि नहीं है इसलिये पद्ध-
 तिओंमें वर यजमानके साथ अग्रिम मंत्रपठे ॥ (मातारुद्राणां) इस
 मंत्रका ब्रह्मा ऋषि त्रिष्टुप्छंद सौरि देवता अभिमंत्रणमें विनियोग है
 (मंत्रार्थ) श्रीमहारुद्रजी नन्दिकेश्वररूप कर ऋषियोंसे भयभीत
 हुए गौके गर्भद्वारा प्रकटभये इसलिये रुद्रोंकी माता है ॥ देवदानवोंको
 समुद्र मंथनसे श्रांतहुओंको देखकर विष्णुने समुद्रमंथनद्वारा उत्पन्न
 की ॥ इसलिये विष्णु और विष्णुके अंश होनेसे वसुवोंकी पुत्री
 है ॥ इसलिये वैष्णवी सुरभी माता यह कहते हैं और नाराय-
 णकी पुत्री होनेसे आदित्यनाम देवोंकी भगिनी है ॥ (नारायणा-
 द्वादशादित्या इतिश्रुतेः) अमृत दुग्धकी नाभि अर्थात् उत्पत्ति
 स्थान है ॥ और मेरेकर अवध्य गौ है परंतु मेरे और यजमानके
 पापही नष्टहो । हिंसा करनेमें प्रायश्चित्त लिखा है । (ब्राह्मणं गां
 तथा कन्यां हन्यादज्ञानतोषियः । निरये भुज्यते तावद्यावदिन्द्राश्व-
 तुर्दश) इसलिये त्याग देनी चाहिये ॥ ओं मनमें कहकर (उत्सृ-
 जततृणान्यत्तु) यह ऊंचे स्वरसे कहे। शंका करते हैं कि गवालम्भभी
 गौणपक्ष है तो कैसी व्यवस्था चाहिये । इसपर उत्तर कि गवाल-
 म्भनको अस्वर्ग्य और लोकविरुद्ध होनेसे और यह वार्ता
 नाममात्र कहनेसेभी प्रायश्चित्त होनेसे निषेध है ॥ प्रमाण
 (याज्ञवल्क्य स्मृति । अ० १ अस्वर्ग्य लोक विद्विष्टं धर्म

मप्याचरेन्नतु) अर्थ—जो अन्तमें दुःखदायक और लोकविरुद्ध धर्म-
कोभी न करे और यह महापातक है जैसे मनुजी लिखते हैं (न
परं पातकं घोरं कलौ गोहृत्यया समम्) नाममात्रसे प्रायश्चित्त परा-
शरजी कहते हैं (कलौ वाङ्मात्रगोमेधो निरये प्राप्नुयान्नरम् ।
पितृभिः सहधर्मात्मा नैवकुर्यादतश्चतम्) और कलियुगमें यह वर्जित
है (गोमेधो नरमेधश्च विवाहे गोर्वधस्तथा । परक्षेत्रेसुतोत्पत्तिः कला-
वेतानि वर्जयेत्) ॥ इसलिये गौको त्यागदो यह तृणको भक्षण
करे और हमारेको पुष्टि हो ॥

ततोवेदिकायांतुपकेशशर्कराभस्मादिरहितांचतुरस्र
भूमिकुशैःपरिसमूह्यतानैशान्यांपरित्यज्यगोमयोद्
केनोपलिप्यस्फयेनस्रुवेणवाप्रागग्रप्रादेशमितमुत्त
रोत्तरक्रमेणत्रिरुल्लिख्योल्लेखनक्रमेणानामिकांगुष्ठा
भ्यामृदमुद्धृत्यजलेनाभ्युक्ष्यतत्रतूष्णींकांस्यपात्र
स्थंविहितंवाह्निंप्राङ्मुखःप्रत्यङ्मुखमुपसमाधाय
तद्रक्षार्थकञ्चिन्नियुज्यकौतुकागाराद्वरःकन्यामानी
यमण्डपउपवेश्यअथैनांवासःपरिधापयति ॥

भा०टी०—गौकेउत्सर्गानन्तर कुशकाण्डिका लिखतेहैं—तुष केश
शर्करा (रेत) भस्मादि निषिद्ध वस्तुसे रहित चारों कोणसे हस्त-
परिमाण वेदी बना उसको सवत्सा गौके गोवरसे लेपन कर खड्ग
वा स्रुवेसे पूर्वाभिमुख प्रादेशमात्र दक्षिणसे उत्तरकी तरफ तीनवार
लिख और रेखा क्रमसे तीनवार अनामिका अंगुष्ठसे मृत्तिका नि-
काल शुद्धजलसे अभ्युक्षण कर अनन्तर कांस्यपात्रमें अग्नि रखकर

(१४२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ऊपरसे बन्दकर तूष्णीं हो प्रत्यङ्मुख बैठ प्राङ्मुख अग्निस्थापन कर उसके रक्षाके लिये समिधा रखे। और कौतुकागारसे वर कन्या को लेकर मण्डपमें बैठाल आगेके मन्त्रसे कन्याको वस्त्र पहनावे ॥

ॐ जराङ्गच्छेति मंत्रस्य प्रजापतिर्ऋषिस्त्रिष्टुप् छन्दस्तं
तवो देवता वस्त्रपरिधाने विनियोगः ॥ ॐ जराङ्गच्छ परि
धत्स्ववासो भवा कृष्णीनामभि शस्तिपावां । शतं च
जीवशरदः सुवर्चारयिञ्च पुत्राननुसंव्ययस्वायुष्मती
दं परिधत्स्ववासः ॥ इति मंत्रेण परिधानवस्त्रं परिधाप
येत् वरः ॥ अथोत्तरीयं वासः समादाय वरोऽग्रिमं
त्रेण परिधापयेत् । याऽअकृन्तन्नवयन्या अतन्वत
याश्च देवी इत्यादि मन्त्रस्य प्रजापतिर्ऋषिर्जगती छंदो वि
धात्र्यो देवता वस्त्रधारणे विनियोगः ॥ ॐ या अकृन्तन्नव
यन्या अतन्वत याश्च देव्यस्तन्तूनभितस्ततंथ ॥ ता
स्ता देवीर्जरसे संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्ववासः ॥
इति मंत्रेण अहतवासो धौतं वासौ त्रेणाच्छादयति तिश्रु
त्यनुसारेण वरोप्येता दृशवाससी अत्र परिधत्ते परिधा
स्यै इत्यादि मंत्राभ्याम् ॥

भा० टी०—(जराङ्गच्छ) इस मन्त्रका प्रजापतिर्ऋषिस्त्रिष्टुप्-
छन्द तन्तुदेवता वस्त्रके पहनानेमें विनियोग है। (मन्त्रार्थ) हे आयुष्मती
अर्थात् सम्पूर्णायुयुक्त तुम हमारे साथ निर्दोष जरा अर्थात् बढाप-
नको प्राप्त हो ॥ और मेरे मनको अच्छी प्रतीत होनेवाली हो और

क्रूरता कपटताको त्याग श्वशुरादि संबन्धियोंसे संकुचित होकर सौम्य स्वभाववाली हो ॥ वा स्त्रियोंके मध्यमें तुम श्रेष्ठ हो और शतवर्ष अर्थात् पूर्णायु पर्यंत मेरे साथ प्राणधारण करो यह पूर्वोक्तसे जानना चाहिये ॥ और पतिव्रता हो धर्मसे बड़े तेजवाली होकर धन और पुत्रको प्राप्त हो ॥ यह मेरे करके दिया हुआ वस्त्र धारण कर । यहाँ परिधत्स्वपद प्रथम आशंसामें दूसरा प्रेरणामें होनेसे पुनरुक्ति दोष नहीं ॥ इस मन्त्रसे वर कन्याको अधोवस्त्र पहनावे ॥ १ ॥ या अकृन्तन् इस मन्त्रका प्रजापति ऋषि जगती छंद विधात्रीदेवता वस्त्रके धारणमें विनियोग है (मन्त्रार्थ) जो देवी इस वस्त्रको कातती भई और जो वयति अर्थात् विनती भई और जो २ देवी सूत्रको तनुती भई तुरीयेमादिसे उस २ सामर्थ्यके देनेवाली देवीलोग निर्दाष दीर्घकाल जीवनके लिये तुम्हारेको वस्त्र पहनाती हैं ॥ इस हेतुसे हे आयुष्मति ! इस वस्त्रको उत्तरीय होनेसे धारण करां ॥ इस मन्त्रसे नवीन वस्त्र आप धोता हुआ धारण करावे । न कि रजकादिसे धोया होवे, इस श्रुति अनुसार वर भी अधोवस्त्र उत्तरीयवस्त्रको धारण करे (परिधास्यै) इत्यादिमन्त्रोंसे ॥

परिधास्यै इत्यादिमन्त्रस्याथर्वणऋषिसिद्धिषुप्छन्दः
तन्वोदेवता वासः परिधानेविनियोगः । ॐ परिधा
स्यैयशोधास्यैदीर्घायुष्टायजरदष्टिरस्मि । शतञ्चजी
वामिशरदः पुरुचीरायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये । इति
पठित्वावरः परिधत्ते (अथोत्तरीयमाच्छादयतीति
सूत्रम्) ॐ यशसेत्यादिमन्त्रस्यप्रजापतिऋषिर्जगती

(-१४४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

न्दोविधात्र्योदेवतावासोधारणेविनियोगः ॥ ॐ यश-
सामाद्यावापृथिवीयशसेन्द्राबृहस्पती । यशोभगश्चमा
विदद्यशोमाप्रतिपद्यतामितिपठित्वोत्तरीयंपरिधत्ते ॥

ततः कन्यायावरस्यचद्विराचमनम् ॥

भा० टी०—(परिधास्यै) इस मन्त्रका अथर्वणऋषि त्रिष्टुप
छन्द तन्तु देवता । वस्त्रके धारणमें विनियोग है (मन्त्रार्थ) हे वस्त्र-
देवता ! तुम्हारेको अनेक श्रेष्ठवस्त्र धारणके लिये तथा यशकीर्तिकेलिये
और निर्दिष्ट चिरकाल जीवनके लिये । तुम्हारी कृपासे पूर्णायुके
भोगनेवाला मैं बहुपुत्र धनादियुक्त धनके देनेवाले तुमको धारण
करता हूँ और तुम्हारे संबन्धसे शतवर्ष जीवित रहूँ इसमन्त्रको पढ
कर अधोवस्त्र धारण करे ॥ आगेके मन्त्रसे उत्तरीय जैसे (यशसा)
इस मन्त्रका प्रजापतिऋषि जगतीछन्द विधात्री देवता वस्त्रधारणमें
विनियोग है ॥ मन्त्रार्थ—हे वस्त्रदेवता ! यशसे युक्त आकाश
पृथिवी तथा यशयुक्त इन्द्र बृहस्पति तद्वत् यशयुक्त सूर्य मुझको
जाने और उनसे संपादन किया यश मुझको प्राप्त हो इस मन्त्रसे
उत्तरीय धारण करे अनन्तर कन्या और वरको दांवार आचमन
करना चाहिये एक अधोवस्त्र धारण कर द्वितीय उत्तरीय धारण कर
प्रमाण जैसे याज्ञवल्क्यस्मृति आचा०ध्या० मं० १९६ (आचांतः
पुनराचामेद्वासो विपरिधायच) अर्थ—आचमन कियाहुआ फिर
आचमन करे वस्त्रको धारण करकेभी इति ॥

ततःकन्याप्रदेनपरस्परं समञ्जथामितिप्रेषितयोः पर
स्परंसम्मुखीकरणम् ॥ समञ्जत्वितिमंत्रस्यअथर्वण

ऋषिरनुष्टुप्छन्दो विश्वेदेवा देवता मैत्रीकरणे विनियोगः ॥ ॐ समञ्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानिनौ ॥ सम्मातरिश्वासंधाता समुदेषी दधातुनः ॥ इति वरः पठेत् ॥ ततः कन्याप्रदकर्तृकग्रन्थिबन्धनम् ॥ हस्तलेपने शास्त्रोच्चारणम् ॥

भा० टी०—अनंतर यजमानद्वारा कन्यावरकी मैत्री करानी (समञ्जन्तु) इस मंत्रका अथर्वण ऋषि अनुष्टुप्छन्द विश्वेदेवा देवता मैत्रीकरणमें विनियुक्त है ॥ (मंत्रार्थ) हे कन्ये ! संपूर्ण देवता तथा शुद्ध जलमें तुम्हारे हमारे मनको गुणातिशयद्वारा संस्कार करे अर्थात् दुष्टवासनासे रहित शुद्ध करे तद्वत् अनुकूल प्रजापति और उपदेशके करनेवाली सावित्री (गायत्री) देवताभी हमारी तुम्हारी बुद्धि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षमें लगावे ॥ इस मंत्रको वर पठे ॥ ❀ शंका कहते हैं कि वरको कन्या इस शब्दसे कहना उचित नहीं कि उनकी जो पुरुष स्त्रीको माता वा भगिनी वा कन्या कहे उसको प्रायश्चित्त करना लिखा है। उत्तर—यद्यपि तुम्हारा कथन सत्य है तथा इसकालपर्यन्त और स्त्रियोंकीवत् यह भी कन्याही थी वरकाभी कुछ संबंध नहीं था और वाग्दानके अन्तरभी कन्याही कही जाती है यथा प्रमाण (वरदानोचिताकन्या) फिर पाणिग्रहणके अनन्तर यह वधूशब्दसे कही जावेगी (स्वस्वत्वनिवृत्ति पूर्वक परस्वत्वोपादानात्) इस न्यायसे हम सूत्रकारकाभी प्रमाण देते हैं (सुमङ्गलीरियंवधूरिमा समेतपश्यत ॥ सौभाग्यमस्यैदत्वायथास्तं विपरेतनेति) और नारदस्मृतिकाभी प्रमाण जैसे (दशवर्षा भवे-

(१४६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

त्कन्या सम्प्रदानेवधूर्भवेत् । सांगुष्ठग्रहणेभार्या पत्नीचातुर्थकर्म-
णि) अनन्तर यजमानद्वारा द्रव्य पुष्प अक्षतादि कन्याके
वस्त्रमें रखकर बाँध वस्त्रको वरके वस्त्रसे बाँधे जिसको लोक गठ
चीतन कहते हैं प्रमाणभी जैसे योगि याज्ञवल्क्यजीका (कन्यका-
सु दशेपार्श्वे द्रव्यपुष्पाक्षतानि च । निक्षिप्यतानिसंबध्वा वरवस्त्रेणसं-
युजेत् ॥ वस्त्रैः संयोज्य तौपूर्वकन्यादानंसमाचरेत् । दानेनयुक्तयोः
पश्चाद्विदध्यात्पाणिपिडिनम्) इति । अनन्तर हाथोंमें कन्याके उद्व-
र्तन (उवटन लगाना) ॥

अथकन्यादानम् ॥ दाताशंस्वस्थदूर्वाक्षतफलपुष्पचं
न्दनजलान्यादाय ॥ अथकन्याप्रदःजामातृदक्षिण
करोपरिकन्यादक्षिणकरंनिधाय ॥ दाताऽहंवरुणोरा
जाद्रव्यमादित्यदैवतम् ॥ विप्रोसौविष्णुरूपेणप्रति
गृह्णात्वयंविधिः ॥ इतिदातापठेत् ॥ गोत्रोच्चारणंच
कुर्यात् ॥ विप्रातिरिक्तपक्षेविप्रोसावित्यत्रवरोसावि
तिपठेत् ॥ ॐस्वस्तीतिवचनमुक्त्वाद्यौस्त्वाददातु
पृथिवीत्वाप्रतिगृह्णात्विति मंत्रेणकन्याहस्तंवरः प्रति
गृह्णीयात् ॥ ततःकन्याप्रदःअद्यकृतैतत्कन्यादान
यथोचितफलावाप्तयेकन्यादानप्रतिष्ठार्थमिदं हिरण्य
मग्निदैवतममुकगोत्रायाऽमुकशर्मणेब्राह्मणायवरायद
क्षिणांतुभ्यमहंसम्प्रददे । इतिदक्षिणांगोमिथुनंवादद्या
त् ॥ ततःस्वस्तीतिवरःप्रतिब्रूयात् ॥

(अथ क्षेपकम्)

कन्यादानानंतरंकन्यापितावध्वरौप्रार्थयते ॥ तत्रा
दौवरप्रार्थना ॥ तद्यथा ॥ कन्यां लक्षणसंपन्नांकन
काभरणैर्युताम् । दास्यामिविष्णवेतुभ्यंब्रह्मलोकजिगी
षया ॥ ऋषयः सर्वभूतानांसाक्षिणःसर्वदेवताः । इमां
कन्यांप्रदास्यामिपितृणांतारणायच ॥ कन्यादानंम
हादानंसर्वदानेषुदुर्लभम् ॥ तद्व्यैदवयोगेनत्वंगृहाणवरो
त्तम ॥ गौरींकन्यामिमांविप्रयथाशक्तिविभूषिताम् ।
गोत्रायशर्मणेतुभ्यंदत्तांविप्रसमाश्रय ॥ ममवंशसमु
द्भूताअष्टवर्षाणिपालिता । तुभ्यंविप्रमयादत्तापुत्रपौ
त्रप्रवर्धिनी ॥

अथ कन्यामीश्वरं च प्रार्थयेत् ।

कन्येममाग्रतोभूयाः कन्येमेदेविपार्श्वयोः ॥ कन्येमेपृष्ठ
तो भूयास्त्वदानान्मोक्षमाप्नुयाम् ॥ त्रैलोक्यनाथ
देवेशसर्वभूतदयानिधे ॥ दानेनानेनमेप्रीतोभवशां
तिप्रयच्छमे ॥ श्रुत्वाकन्याप्रदानंचापितरःप्रपिता
महाः ॥ विमुक्ताःसर्वपापेभ्योब्रह्मलोकंव्रजंतिते ॥
इति संप्रार्थ्य प्रतिज्ञावचनं वरेण कुर्यात् ॥ धर्मेचा
र्थेचकामेचत्वयेयमतिचारतः ॥ नत्याज्याज्याहुतिरि
वभूमौसंसारभूतिदा ॥ यस्त्वयाधर्मश्चरितः कर्त
व्यश्चानयासह ॥ धर्मेचार्थेचकामेचत्वयेयंनातिचरि

(१४८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

तव्या ॥ वरः ॥ अहं नातिचरामीहयदुक्तंभवताततः ॥
धर्मार्थकामकैः कार्यैर्देहच्छायेवसर्वदा ॥ नातिचरा
मीतिवरोवदेत् ॥

(अथ दशमहादानमंत्राः ।)

कन्यार्थैकनकं धेनुदासीरथमहीगृहाः । महिष्यश्वग
जाःशय्यामहादानानिवैदश ॥ सुवर्णमंत्रः ॥ हिरण्य
गर्भसंभूतंसौवर्णचांगुलीयकम् । सर्वप्रदंप्रयच्छामि
प्रीणातुकमलापतिः ॥ क्षीरोदमथनेपूर्वमुद्धृतंकुण्डल
द्वयम् । श्रियासहसमुद्धृतं ददेश्रीःप्रीयतामिति ॥ कांच
नंहस्तवलयंरूपकांतिसुखप्रदम् ॥ विभूषणंप्रदास्यामि
विभूषयतुतेसदा ॥ अथधेनुदानमंत्रः ॥ यज्ञसाधनभू
तायाविश्वस्यावौचनाशिनी । विश्वरूपधरोदेवःप्रीय
तामनयागवा ॥ अथदासीदानमंत्रः ॥ इयंदासीमया
तुभ्यंश्रीवत्सप्रतिपादिता । सर्वकर्मकरीभोग्यायथे
ष्टंभद्रमस्तुमे ॥ अथरथदानमंत्रः ॥ रथायरथनाथा
य नमस्तेविश्वकर्मणे । विश्वरूपायदेवायअरुणाय
नमोस्तुते ॥ पृथिवीदानमंत्रः ॥ सर्वेपामाश्रयादेवी
वराहेणसमुद्धृता । अनंतसस्यफलदाअतःशांतिंप्रय
च्छमे ॥ गृहदानमंत्रः ॥ इदंगृहंगृहाणत्वंसर्वोपस्कर
संग्रुतम् । तवविप्रप्रसादेनममसंतुमनोरथाः ॥ गृहंमम
विभूत्यर्थंगृहाणत्वंद्विजोत्तम ॥ प्रीयतामि जगद्योनि

वास्तुरूपी जनार्दनः ॥ अथमहिषीदानमंत्रः ॥ महिषि
यमरूपात्वंविश्वामित्रविनिर्मिते । पूजिताहरमेपापं
सर्वदानफलप्रदे ॥ अथाश्वदानमंत्रः ॥ महार्णवसमु
त्पन्नरुचैः श्रवसपुत्रक । मयात्वं विप्रमुख्यायदत्तोहय
सुखीभव ॥ गजदानमंत्रः ॥ गजेंद्र मत्तमातंगदै
त्यसैन्यविनाशक । तवदानेनमेशांतिः सर्वदास्तु
महत्सुखम् ॥ अथशय्यादानम् ॥ यथानकृष्ण
शयनं शून्यं सागरजातया । तथाशक्त्या ममाप्य
स्त्वशून्यं जन्मनिजन्मनि ॥ इति ॥ अन्यान्यपिदे
यानि ॥ अथताम्रपात्रदानम् ॥ परापवादपैशून्यादभ
क्ष्यस्यचभक्षणात् ॥ उत्पन्नपापं दानेन ताम्रपात्रस्य
नश्यतु ॥ अथ कांस्यपात्रदानम् ॥ यानिपापानिका
म्यानिकामोत्थानि कृतानिच ॥ कांस्यपात्रप्रदाने
न तानिनश्यंतुमेसदा ॥ अथरौप्यपात्रदानम् ॥ अग
म्यागमनंचैव परदाराभिमर्शनम् । रौप्यपात्रप्रदा
नेनतत्पापमेव्यपोहतु ॥

अथ तांबूलदानमंत्रः ॥

पूरितंपूगपूगेन नागवल्लीदलान्वितम् । पूर्णेन चूर्ण
पात्रेण कर्पूरपिष्टकेनच ॥ सपूगखंडनं दिव्यं गंधर्वा
प्सरसांप्रियम् । ददे देव निरातंकं त्वत्प्रसादात्कुरुष्व
माम् ॥ दीपदानमंत्रः ॥ दीपस्तमो नाशयति दीपः

(१५०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

कांतिं प्रयच्छति ॥ तस्माद्दीपप्रदानेन मम वंशप्रवर्धनम् ॥ इति ॥ अत्र अन्येपिकन्याबान्धवाः यथासंभवं द्रव्यं वरवध्वर्थेप्रयच्छन्ति । केचनहोमांतिप्रयच्छन्ति । इयं देशाचारतो व्यवस्था ज्ञातव्येति शम् ॥

इति क्षेपकम् ।

भा०टी—वस्त्रग्रंथि बन्धनं क अनंतर कन्यादान लिखते हैं यजमान शंखमें दुर्वाक्षत फल पुष्प चन्दन जल लेकर दाता वरके दक्षिण हाथपर कन्याका दक्षिण हाथ गखे पूर्वोक्त मन्त्रार्थ—वरुणरूपमें यजमान और सूर्य मंकल्परूप यह द्रव्य विष्णुरूप वर यह विधि ग्रहण करे इस मंत्रको दाता पढे स्वस्ति हो ऐसे कहे मन्त्रार्थ—आकाश तुम्हारेको देता है और पृथ्वी ग्रहण करती है । इस मन्त्रसे कन्याका हाथ वर ग्रहण करे अनंतर आज किये कन्यादानकी शास्त्र विहित स्वर्गादि प्राप्तिके लिये यह सुवर्ण अग्निदेव संबन्धि अमुक शर्मादि वरको दक्षिणां देता है वा गौ दो वत्ससहित देता है ॥ इसके अनंतर तुमको कल्याण हो ऐसे वर कहे और संकल्पकीविधि बृहत्पराशरर्जा लिखते हैं (कन्यादानसमारम्भे दाताशंखे समाददेत् । दुर्वाक्षतफलं पुष्पंचन्दनं जलमेवच) इत्यादि संपूर्ण विधानको विस्तारके भयसे नहीं लिखते ॥ और संकल्प पूर्व कन्यादानका लिखा हुआ है ॥ स्वस्तीति इसस्थानमें आचारसे और संबन्धि पुरुषभी सुवर्ण रजत ताम्र गौ महिषी ग्राम पृथ्वी यौतक होनेसे कन्याको यथाशक्ति देते हैं ॥ कई होमके अनंतर कई २ वधू

वरके विसर्जनके अनंतर खट्वादि दान करते हैं ॥ यह सब अपने २ देशाचारसे व्यवस्था जाननी जिस देशमें जैसे हो तैसेही करना इससे मुनियोंके मतभी बहुत लिखते हैं (कन्याप्रदानन्तुविधायता तस्तदक्षिणांगोमिथुनंसुवणम् ॥ दत्त्वाप्रदद्याद्वरणं वरार्थं वस्त्राणि पात्राणि विभूषणानि ॥ तत्रैवदेयानि बहुश्रुताजगुर्वाल्मीकिजाबालपराशराद्याः । होमान्तआहुर्भृगुनारदाद्या विसर्जनेव्यासमरीचिकौत्साः ॥ इत्यादि) और देशाचारमें प्रमाण (ग्रामवचनंच—कुर्युर्विवाहश्मशानयोर्ग्रामप्राविशतादिति वचनात्तस्मात्तयोर्ग्रामप्रमाणमिति श्रुतेः) ॥ अर्थ कि विवाहके कर्तव्यतामें और श्मशान अर्थात् प्रेतक्रियामें ग्राममें प्रवेश कर ग्रामवचन कर इस श्रुतिसे अपने २ देशरीति और कुलरीति और ग्रामरीति परन्तु जो धर्मविरुद्ध न होंवे उनको करे ॥

यजुर्वेद अध्याय ७ मूल० मन्त्र ४८ ॥

ॐ कौंदात्कस्माऽअदात्कामोदात्का
मायादात् । कामोदाताकामः प्रतिगृही
ताकामैतत्तै ॥ इतिवरः पठेत् ॥

ततस्तांपाणौगृहीत्वा । ॐ यदैषिमनसादूरंदिशोनुपवमानो वा । हिरण्यवर्णोवैकर्णः सत्वामनमन्सां करोतु ॥ श्रीअमुकदेवीइतिपठन्निष्क्रामति ततोवेदिदक्षिणस्यांदिशिवारि पूर्णदृढकलशमूर्ध्वतिष्ठतोमौनिनः पुरुषस्यस्कन्धेअभिषेकपर्यन्तंधारयेत् । ततःपरस्परंसमीक्षेथामितिकन्याप्रैषानंतरम्

(१५२)

विवाहपद्धति भा० टी० ।

ॐ अघोरचक्षुरपतिघ्नेधिशिवापशुभ्यः
सुमनाः सुवर्चाः ॥ वीरसूदेवकामास्यो
नाशुन्नोभवद्विपदेशंचतुष्पदे ॥
सोमःप्रथमोविविदेगन्धर्वोविविदुत्तरः ।
तृतीयोअग्निष्टेपतिस्तुरीयस्तेमनुष्यजाः ॥
सोमोददद्गन्धर्वायगन्धर्वोदददग्रये ।
रुयिंचपुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम् ॥
सानःपूषाशिवतमामेरयसान ऊरु उशती
विहर । यस्यामुशंतःप्रहरामशेपंयस्या
मुकामाबहवोनिविष्ट्यै । इतिवरपठितम
न्त्रातेपरस्परंनिरीक्षणम् ।

भा० टी०कोदादिति (मन्त्रार्थ) प्रश्न—कौन देता है उत्तर-
काम अर्थात् इच्छाही देती है ॥ जिससे कामही देता और काम-
ही लेनेवाला इस लिये यह पत्नी प्रतिग्रह उस काम (संकल्पके
लिये है ॥ बलि है सर्वसे और धन्य है कि जो क्षत्रियादि जो

१ अघोरचक्षु यह मंत्र, अथर्वणवेद, कांड १४ अनु० २ । मंत्र १८ लिखा है ।

२ सोमःप्रथमोविविदे—यह मंत्र, ऋग्वेद, मंडल १० सूक्त ८५ मंत्र ४० है । ३ ऋग्वेद,
मं० १० सूक्त, ८५ मंत्र ॥ ४१ ॥

दान मरणपर्यंतभी नहीं लेते अधिकारके न होनेसे यह उनकोभी दान महाकन्यारूपी देती है ॥ यह इच्छाकी स्तुतिपर मंत्र है ॥ इस मंत्रको प्रथम वर पढे पीछेसे वधूको हस्तसे ग्रहण कर (यदेषि) इस मंत्रको पढे (मंत्रार्थ) प्राच्यादिसे लक्षित वायुकी न्यांई तुम्हारेको पिताके गृहसे दूर लेजाता हूँ वह वायु और हिरण्यवर्ण सूर्य वैकर्ण अग्नि अर्थात् दिक् वायु सूर्य अग्न्यादि देव मुझमें लगा है हृदय जिसका ऐसी तुमको करै । इस मंत्रके अन्तमें वर कन्याका नाम लेवे । (आत्मनाम गुरोर्नामेति) आगे नाम कभी न ग्रहण करै अनंतर दक्षिण दिशामें जलपूर्ण कलश स्कंध (कांधे-पर) रखकर अभिषेकपर्यन्त पुरुष दृढ स्थित रहै ॥ उठकर तुम आपसमें देखें यह यजमान कहे (मंत्रार्थ) हे कन्ये ! तुम सौम्य दृष्टिवाली हो और अपतिव्री अर्थात् पातके अर्थके नाश करनेवाली मत हो इस विवाहसंस्कारके अनंतर पशुवत् जो आश्रित पुरुष उनमें हितकरनेवाली हो और प्रसन्नचित्तवाली सुंदर प्रतापवाली सत्पुत्र और वीरपुत्रोंके पैदा करनेवाली देवकामा (देवान् अग्न्यादीन् पूजार्थं कामयति इच्छंतीति) अर्थात् देवताओंमें तथा पित्रोंमें श्रद्धावाली हो (स्योना) सुखी हमारेको कल्याण देनेवाली हो ॥ सिद्धांत यहहै कि, तुम्हारेसे हमको सर्वदा लाभ हो ॥ कन्यास्तुतिमंत्रका अर्थ—हेकन्ये ! प्रथम रक्षाकरनेवाला चन्द्रमा जन्मदिनसे सार्द्धद्वय वर्ष (अर्थात्) २॥ अठ्ठाई वर्ष पर्यन्त तुम्हारी पुष्टि करता हुआ तिसके अनंतर गंधर्व अर्थात् सूर्य पांचवर्ष पर्यंत तुम्हारेको पढाताहुआ इसलिये सूर्य तुम्हारा दूसरा पति

(१५४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

(पाति रक्षति इति पतिः) अर्थात् रक्षाकरनेवाला अनंतर पांचवर्षसे लेकर साढेसातवर्षतक अग्नि तुम्हारेको शुद्धता सर्वकाममें देता हुआ इससे अग्नि तीसरापति रक्षाकरनेवाला भया ॥ प्रमाण जैसे (पूर्वं स्त्रियः सुरैर्भुक्ताः सोमगन्धर्ववह्निभिः । प्रतिपोष्याध्याप्यसंशोध्यपरित्यक्तां नरो भजेत् ॥) अर्थ—जन्मदिनसे ले साढेसात वर्षमें अढाई २॥ वर्ष क्रमसे सोम चन्द्रमा सूर्य अग्नि देवने क्रमसे (भुक्ता) रक्षा की । (भुज पालनाभ्यव्यवहारयोः) इस धातुसे कप्रत्ययके आनेसे बहुवचनान्त होनेसे भुक्ताः यह शब्द सिद्ध होता है ॥ और क्रममें पुष्टकर तथा पढाकर और शुद्धकरके त्यागकी हुई स्त्रियोंको नर भजते हैं अर्थात् सेवन करते हैं (भज सेवायां) इस धातु से लिङ् लकारके आनेसे यासके स्थानमें ईय तिप आदि आनेसे रूप भजेत् बनता है ॥ इसलिये साढेसातवर्षके अनन्तर ज्योतिषशास्त्रमें विवाह करनेका दोष लिखा है ॥ (मंत्रार्थ) चन्द्रमा ३० मासमें पुष्टकर सूर्यको देता भया सूर्यभी ३० महीनेके अनन्तर दक्षता पांडित्यको देकर अग्निके समर्पण करता भया वह अग्निदेव इस स्त्रीकोसाथ पुत्रोंके धनके धर्मके शुद्धकर मुझे देताहै प्रमाणभी जैसे—“याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय १ सोमः शौचन्ददावा सांगन्धर्वश्च शुभांगिरम् । पावकः सर्वमेध्यत्वं मेध्या वै योषितः स्मृता इत्यादि” अर्थ—पूर्वोक्तही है इसलिये ही सर्व स्त्रियोंको विना पढा ये ऐसी चातुर्यता होती है कि, जो विद्वान् लोक हैं उनकोभी बुद्धि नष्टकर अपने आधीन करलेती हैं और नृत्यादि कलामें ऐसी कुशल होती हैं कि, जो नहीं कही जाती यह विना

सूर्यके अंतःकरणमें उपदेश करनेके कैसे होसक्ता है ॥ अब चन्द्रमाका कार्य देखे कि, जो पुरुष गान्धर्वविद्यामें दिनरात्र अभ्यास करते हैं वही स्त्रीका स्वाभाविक राग श्रवण कर संकुचित होजाते हैं तो कहिये वह किस गन्धर्वकी शिष्य बनकर शिक्षाको प्राप्त होती है इत्यादि बहुत गुण हैं जो पुरुषको जन्मभरमें भी न आवें बुद्धिवान् पुरुष सर्व जानते हैं ॥ इस अपनी तर्कके सिद्ध करनेके लिये शास्त्रके प्रमाण देते हैं “आहारो द्विगुणः स्त्रीणां बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा । षड्गुणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टगुणः स्मृतः ॥ स्त्रियाश्चारित्रं पुरुषस्यभाग्यं देवो न जानाति कथं मनुष्यः ॥ स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु संदृश्यते किमुत याः परिबोधवत्यः । प्रागंतरिक्षगमनात्स्वमपत्यजातमन्यैर्द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति” अर्थ—दुष्यन्तराजा कहताहै कि, विना शिक्षाके चातुर्यता जो पशु पक्षियोंकी स्त्रीहैं उनमें देखते हैं । जैसे कोकिला अपने पुत्रोंको काकादिसे पुष्ट कराती है तो हम मनुष्योंकी स्त्रीमें क्या कहें यह प्रसंग “ शकुंतलानाटक ” में विस्तारसे है ॥ इति ॥

(मंत्रार्थ सान इति) जगत्का चक्षु सूर्यदेव कल्याणयुक्त इसको हमारेमें अनुरक्त करे । यह स्त्री हमारेसे सुख और पुत्रोंको इच्छा करती भई अरु अर्थात् जंघाको पसारे और हम स्त्रीकी योनिसे सुख और पुत्रोंको इच्छा करते भये शेष अर्थात् लिंगको प्रवेशन करे ॥ जिसमें धर्म पुत्र रतिसुखादिरूप बहुत गुण होते हैं (निविष्ट्यै) अर्थात् अग्निहोत्रादि कर्मद्वारा अंतःकरण शुद्ध होनेसे मुक्तिके लिये । भाव यहहै कि, धर्म अर्थ, काम, मोक्ष

(१५६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

का साधन पतिव्रता स्त्री है । प्रमाण याज्ञवल्क्यस्मृति अ० १—
(लोकानंत्यं दिवःप्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः ॥ यस्मात्तस्मात्स्त्रियः से-
व्याःकर्तव्याश्च सुरक्षिताः) ॥ इति ॥

विशेषद्रष्टव्य—जिनको अर्थमें कुछ भ्रान्ति हो वह ऋग्वेदके चिह्नसे भाष्य देखें और सूत्र ब्राह्मण मिलावे तो उनका हमारे पर अत्युपकार होगा और (दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि) इनकोभी देखे तो अच्छाही है अन्यथा हम गप्पाष्टक नहीं मानते और विस्तारके भयसे यहां बहुत लिखते नहीं ॥ विशेषार्थ देखना हो तो विधवाविवाहखंडनमें देखले ॥

ऋग्वेद मंडल १० सू० ८५ मं० २५ ॥

इमांत्वमिन्द्रमीद्वुःसुपुत्रां सुभर्गां कृणु ।

दशास्यांपुत्रानाधेहिपतिमेकादशंकृधि ॥

अर्थ—हे परमेश्वर ! इसकी सौभाग्य पुत्रोंके वृद्धि करे और इसमें दशपुत्र उत्पन्न हों उनको और साथ १० पुत्रोंके सहित ११ में पतिकी धनादिसे वृद्धि करो ॥ इस अर्थमें जिनको संदेह पडे वह ऊपर लिखित चिह्नसे ऋग्वेदमें देखें ॥ इति क्षेपकः ॥

ततोग्निप्रदक्षिणीकृत्य पश्चादग्नेरहतवस्त्रवेष्टितं तृणपू
लकं कटंवानिवेश्य तदुपरिदक्षिणचरणंदत्त्वा वधूं
दक्षिणतः कृत्वातामुपवेश्यपुष्पचंदनताम्बूलान्यादा
य ॥ ओं तत्सदद्यकर्तव्यविवाहहोमकर्माणि कृताऽकृता
वेक्षणरूपब्रह्मकर्मकर्तुममुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मण

मेभिः पुष्पचंदनताम्बूलवासोभिर्ब्रह्मत्वेन त्वामहंवृणे
इतिब्रह्माणंवृणुयात् ॥ वृतोस्मीतिप्रतिवचनम् ॥ यथा
विहितंकर्म कुर्विति वरेणोक्ते करवाणीतिब्रह्माब्रूया
त् ॥ ततोवरोऽग्नेर्दक्षिणतः ब्रह्माणमग्निप्रदक्षिणक्र
मेणानीयअत्रत्वंमे ब्रह्माभवेत्यभिधायकल्पितासनेस
मुपवेशयेत् ॥

भा० टी०--रस्पर निरीक्षणके अनंतर अग्निको प्रदक्षिणा
कर अग्निके पश्चिम भागमें अहत (ना दग्ध) वस्त्रवेष्टन कर तृण
पूलक वा कट (सक) रखकर उसके ऊपर दक्षिण पाद देकर
अर्थात् उल्लंघन ना कर वधूको दक्षिणभागमें लेकर उसका
वामपाद रखकर बिठाय पुष्प चंदन तांबूल (पान) हाथमें ले
आज कर्तव्यविवाहके होमकर्ममें कर्मकी शुद्धि अशुद्धिकी परीक्षा
इत्यादि ब्रह्माका जो कर्म उसके लिये अमुक गोत्र अमुक
ब्राह्मण ब्रह्मा समझकर आपको वरण करताहूं ॥ हमने वरणी
लई यह ब्रह्मा कहें । तुम यथावत् कर्म करो ऐसे वरकथनक
अनन्तर करता हूं ऐसे ब्रह्माजी कहे अनन्तर अग्निप्रदक्षिणा क्रमसे
ब्रह्माको लेजाय तुम कर्मसाक्षी ऽमज्ञको ब्रह्मा हो ऐसे कह अग्नि
दक्षिणभागमें आसनपर बिठलावे अर्थात् वरणवृक्षसे बनेहुए
काष्ठके पीठपर कुशा बिछाय पूर्वोत्तर क्रमसे उसपर कर्मके
तत्त्वको जाननेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठावे यदि ऐसा ना मिले तो
पचास कुशोंका ब्रह्मा रचकर बैठावे ॥

(१५८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ततःप्रणीतापात्रंपुरतःकृत्वावारिणापरिपूर्य कुशैरा
च्छाद्यब्रह्मणोमुखमवलोक्य अग्रेरुत्तरतःकुशोपरिनि
दध्यात् ॥ ततः परिस्तरणंबर्हिषश्चतुर्थभागमादाय
आग्नेयादीशानांतं ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तंनैर्ऋत्याद्वायव्या
न्तमग्निःप्रणीतापर्यन्तंततोऽग्रेरुत्तरतःपश्चिमदिशि
पवित्रच्छेदनार्थंकुशत्रयं पवित्रकरणार्थं साग्रमनंतर्गर्भं
कुशपत्रद्वयं प्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थालीसंमार्जनार्थं कु
शत्रयंसमिधस्तिस्रः सुवआज्यंषट्पञ्चाशदुत्तरमुष्टि
द्वयावच्छिन्नतण्डुलपूर्णपात्रं पूर्वपूर्वदिशि क्रमेणासा
दनीयम् ॥

भा० टी०—ब्रह्माजीके वरणीके अनन्तर प्रणीतापात्रको मुखके
बराबर आगे कर जलपूर्ण कुशासे आच्छादन कर सादी होनेसे
ब्रह्माजीको देख अग्निकी उत्तरकोणमें कुशापर स्थित करदे ।
अनन्तर कुशमुष्टिका चौथा भाग ले अग्निकोणसे ईशानकोणपर्यन्-
न्त ब्रह्मासे अग्नि पर्यन्त नैर्ऋतिकोणसे वायुकोणपर्यन्त पूर्वाग्नि
उत्तराग्र कुशा बिछावे । अनन्तर अग्निकी उत्तर तरफ
पश्चिममें पवित्रच्छेदनके लिये तीन कुशा पवित्र करनेके लिये साथ
अग्रके और मध्यमपत्रसे रहित दो कुशपत्र । प्रोक्षणीपात्र आज्या-
स्थाली संमार्जनके लिये तीन कुशा उपयमनके लिये वेणीरूप तीन
कुशा तीन समिधा सुवा घृत पुष्ट ब्राह्मणतृप्तिकारक वा २५६
मुष्टिप्रमाण तण्डुलपूर्ण पात्र आगे २ पूर्वदिशामें क्रमसे रखने
चाहिये ॥ नीचे लिखे लक्षण पात्रोंके सर्वजानने ॥

(१) प्रणीताका लक्षण—वरुणवृक्षका १२ अंगुलदी-
र्घ ४ अंगुल विस्तार और खोदा हुआ प्रणीतापात्र होता है ॥

(२) प्रोक्षणीपात्र लक्षण—देवलोक्त० प्रणीतानैऋतेभागे
तद्वायव्यगोचरे । वारुणसंविजानीयात्सर्वकर्मसुकारयेत् ॥
सर्वसंशोधनार्थोदपात्रंवारुणमिष्यते । द्वादशांगुलिदीर्घचक
रतलोन्मितखातकम् । पद्मपत्रसमाकारंमुकुलाकारमेववा ॥

(३) आज्यस्थालीका लक्षण—तैजसीमृन्मयीवापि
आज्यस्थालीप्रकीर्तिता । द्वादशांगुलविस्तीर्णाप्रादेशोच्चा
प्रमाणतः ॥

(४) चरुस्थालीका लक्षण—चरुस्थालीतथैवापिदीर्घोच्चा
तुप्रमाणतः । नानयोरन्तरंयस्माद्भव्यसंस्कारणार्थकइति ॥

३१) सम्मार्जनकुशमं प्रमाण—स्रुवसम्मार्जनार्थन्तुकु
शत्रयमुदीरितम् । इति व्यासस्मृतौ

(६) उपयमनकुशाकाप्रमाण—उपयमनार्थमाख्याता स्त्रि
षण्णवमिताःकुशाः । वेणीरूपानिरोधार्थानिरोधेबहुभिस्सुख म
इतिभृगुवचनात् ॥

(७) समिधाश्मं प्रमाण—पालाशजंतुप्रादेशमात्रंदैर्घ्येणस्थूल
ता । कनिष्ठिकासमंध्यात्वाविधिमग्नौक्षिपेच्चतत् इतिपराशरः ॥

(८) स्रुव वा ब्रह्महस्तलक्षण—स्रुवस्तुब्रह्महस्ताख्यः स्क
न्धान्तोबाहुरुच्यते । स्वाहाकारस्वधाकारवषट्कारसमन्वि
तः ॥ दण्डाकारोभवेन्मूलेस्यादरन्त्यांतुतत्समः । सकङ्कण

(१६०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

स्तुदण्डाग्रेहस्ताकारस्ततोबहिः ॥ अष्टांगुलिपरीमाणंमूला
भ्यंतरतस्त्यजेत् ॥ दशांगुलिपरीमाणंमूलाभ्यंतरतस्त्यजेत्
दशांगुलिपरीमाणमारभ्यकंकणाविधि ॥ हस्तमात्रंभवेद्धस्त
स्रुवइत्यभिधीयते ॥ खादिरःशैशिपोवापिह्यन्योवापुण्यवृक्ष
जः ॥ धावकोपिसमाख्यातोहोमार्थमुनिभिःकृतः ॥ इतिका
त्यायनः ॥

(९) घृतलक्षणम्—तथाचस्मृतिः । गव्यमाज्यंजुहुया-
त्तदभावेमाहिषंस्मृतम् ॥ तथाचश्रुतिः ॥ गव्यमाज्यंजुहुया
त्तदभावेमाहिषेयमिति ॥

(१०) चरुलक्षणम्—व्रीहितंडुलसंसिद्धोमुख्यःप्रोक्तःसुर
षिभिः । इत्याचारचंद्रोदये ॥

(११) पर्याग्निकेलक्षणमेश्रुति—पर्याग्निंकुर्वन्ज्वलदु
ल्मुकमादायप्रदक्षिणमाज्यचर्वोःसमंताद्भ्रामयेदिति ॥

(१२) समिधालक्षणं—पलाशखदिराश्वत्थशम्युदुम्बर
जासमित् । अपामार्गाकदूर्वाग्निंकुशाश्चेत्यपरेविदुः ॥
सत्वचःसमिधः स्थाप्या ऋजुश्लक्षणाःसमास्तथा ॥
शस्तादशांगुलास्तास्तु द्वादशांगुलिकास्तुताः ॥
आर्द्राःपक्वाःसमच्छेदास्तर्जन्यंगुलिवर्तुलाः । अपा
टिताश्चविशिखाःकृमिदोषविवर्जिताः ॥ ईदृशीहोम
येत्प्राज्ञःप्राप्नोतिविपुलांश्रियम् ॥ इतिव्यासकात्याय
नवशिष्टगौतमभरद्वाजाः ॥ इति लक्षणानि ॥

अथ तस्यामेवदिश्यसाधारणवस्तून्युपकल्पनीयानि
 तत्र शमीपलाशमिश्राः लाजाः दृषदुपलंकुमारीभ्रा-
 तासूर्यः दृढपुरुषः ॥ अन्यदपितदुपयुक्तमालेपनादि-
 द्रव्यम् ॥ ततःपवित्रच्छेदनकुशैःपवित्रेच्छित्त्वाततःसप
 वित्रकरेणप्रणीतोदकंत्रिःप्रोक्षणीपात्रेनिधाय अनामि
 कांगुष्ठाभ्यां उत्तराग्रेपवित्रेगृहीत्वात्रिरुद्दिग्नंप्रणीतो
 दकेनप्रोक्षणीजलेन यथासादितवस्तुसेचनम् ॥ततोऽ
 ग्निप्रणीतयोर्मध्येप्रोक्षणीपात्रनिधानम् ॥ आज्यस्था
 ल्यामाज्यनिर्वापः ॥ ततोऽधिश्रयणम् ॥ ततोऽज्वलत्तृ
 णादिनाहविर्वैष्टयित्वा प्रदक्षिणक्रमेण वह्नौतत्प्रक्षेपः
 पर्यग्निकरणम् ॥ ततःस्रुवप्रतपनंकृत्वासम्मार्जनकुशा
 नामग्रैरंतरतोमूलैर्बाह्यतः स्रुवंसंमृज्यप्रणीतोदके
 नाभ्युक्ष्यपुनःप्रतप्यस्रुवंदक्षिणतोनिदध्यात् ॥ तत
 आज्यस्याग्रेरवतारणंततआज्येप्रोक्षणीवदुत्पवनम् ॥
 अवेक्ष्यसत्यपद्रव्येतन्निरसनम् ॥ पुनःप्रोक्षणीवदुत्प
 वनम् ॥

भा० टी०—अनंतर तिस दिशामें और सर्ववस्तु स्थापन करनी
 जैसे शमी जंडी पलाशसे युक्त लाजा (फलिया) शिल (बट्टा)
 कन्याका भाई देखनेलिये सूर्य मजबूत पुरुष और भी जो कामकी
 वस्तु हो वहभी पास रखले पवित्र कुशासे पवित्रको छेदन कर फिर
 साथ पवित्रके हाथसे प्रणीताके जलको तीनवार प्रोक्षणीपात्रमें रख-
 कर अनामिका और अंगुष्ठसे उत्तराग्र पवित्र ग्रहण कर तीनवार

(१६२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ऊपरको जल फेकना प्रणीता और प्रोक्षणीका जल मिलाय सर्ववस्तुको सिञ्चन करना अनन्तर अग्नि और प्रणीताके मध्यमें प्रोक्षणीपात्र रखना आज्यस्थालीमें आज्य पाना और अग्निपर रखनी जलसे तृणसे हविर्वेष्टनकर प्रदक्षिण क्रमसे तृणको अग्निमें गेरदेना जलती चमातीसे प्रदक्षिण क्रमसे घृत चरुके चारों पार्श्वमें फेरनी ॥ अनन्तर स्रुव तथा संमार्जन कुशाके अग्रभागसे अनन्तर मूलसे बाहिरसे स्रुवको पाँच प्रणीतोदकसे अभ्युक्षण कर (सिञ्चन) फिर तपाय दक्षिण भागमें रखे । पुनः घृत अग्निसे उतार आज्यका प्रोक्षणीवत् उत्पवन करना यदि निषिद्धवस्तु हो तो निकालदेनी पुनः प्रोक्षणीवत् उत्पवन करना ॥

ततः उपयमनकुशानादायोत्तिष्ठन्प्रजापतिमनसाध्या
त्वातूष्णीमग्नौघृताक्तास्तिस्रः समिधःक्षिपेत् ॥ ततश्च
पविश्यसपवित्रप्रोक्षण्युदकेन प्रदक्षिणक्रमेणाग्निपर्यु
क्षणंकृत्वाप्रणीतापात्रे पवित्रेनिधायपातितदक्षिणजा
तुःकुशेनब्रह्मणान्वारब्धः समिद्धतमेऽग्नौ स्रुवेणाज्याहु
तीर्जुहोति ॥ तत्राघारादारभ्यद्वादशाहुतिषुतत्तदाहु
त्यनंतरंस्रुवावस्थितहुतशेषघृतस्यप्रोक्षणीपात्रेप्रक्षेपः॥
ॐप्रजापतयेस्वाहाइतिमनसा—इदंप्रजापतये० ॥ ओ
मिन्द्रायस्वाहा—इदमिन्द्रा० ॥ इत्याघारौ ॥ ओंअ-
ग्नयेस्वाहा—इदमग्नये० ॥ ओंसोमायस्वाहा—इदंसो
माय०॥इत्याज्यभागौ ॥ ॐभूः स्वाहा—इदमग्नये०॥

ओंभुवः स्वाहा इदंवायवे० ॥ ओंस्वः स्वाहा—इदं
सूर्याय० ॥ एतामहाव्याहृतयः ॥

भा० टी०—अनन्तर उपयमन कुशाको ले उठकर मनसे प्रजापतिका ध्यान करताहुआ चपचापसे घृतयुक्त पूर्वोक्त तीन समिधा अग्निमें गेरदेवे ॥ अनन्तर बैठकर साथ पवित्र प्रोक्षणी जलसे प्रदक्षिणा क्रमसे अग्निको पर्युक्षण कर प्रणीतापात्रमें पवित्र रख दक्षिणजानु निमाय कुशाद्वारा ब्रह्मासे संयुक्त हो बडी जलती अग्निमें खुवसे घृतका आहुति हवन करता है खुवसे लगेहुए घृतको प्रोक्षणीपात्रमें फेकना ॥ प्रजापतये० इदं प्र० यह मनमें कर आहुति देनी ॐइंद्राय० इदमिंद्राय० । यह आधारसंज्ञक है ॐ अग्र० इदम० सोमा० इदंसो० यह आज्यभागसंज्ञक है ॥ ॐभूः इदं अ० ॐभुवः—इदं वा० । ॐ स्वः—इदं सूर्या० यह महाव्याहृति हैं ॥

शुक्लयजु० अध्याय० २१ मंत्र ३ ॥

ॐत्वन्नोऽअग्नेवरुणस्यविद्वान्देवस्यहेडोअ
वयासिसीष्ठाः ॥ यजिष्ठेवह्नितमुःशोशु
चानो विश्वाद्धेषाथंसिप्रमुमुग्ध्युस्मत्स्वा
हा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्याम् ॥

शुक्लयजु० अध्याय २१ मंत्र ४ ॥

ॐसत्वन्नोऽअग्नेऽवमोभवेतीनोदिष्टोऽअस्याउ

(१६४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

षसुव्युष्टौ । अवयक्ष्वनोवरुणश्शरणोवीहिमृ
डीकःसुहवोनएधिस्वाहा । इदमग्नीवरुणभ्यां०

यजुर्वेद मंत्रभाग ॥

ॐ अयाश्वाग्नेस्यनभिशस्तिपा (वा) श्वसत्यमित्व
मयाअसि । अयानोयज्ञंवहास्ययानोभेषजः स्वाहा
इदमग्नये० ॥

यजु० मंत्र ॥

ॐ येते शतंवरुणयेसहस्रंयज्ञियाः पाशाविततामहा
न्तः । तेभिर्त्रोऽअद्यसवितोतविष्णुर्विश्वेमुञ्चतुमरुतः
स्वर्काःस्वाहा ॥ इदं वरुणायसवित्रेविष्णवेविश्वेभ्यो
मरुद्भ्यःस्वर्केभ्यः० ॥

भा० टी०—त्वन्नो और सत्वन्नो इन मन्त्रोंका वामदेव ऋषि
त्रिष्टुप्छन्द अग्नि और वरुणदेवता सर्वप्रायश्चित्तमें विनियोग है ॥
(अयाश्वाग्ने) इस मन्त्रका वामदेवऋषि त्रिष्टुप्छन्द अग्निदेवता
प्रायश्चित्तहवनमें विनियोग है ॥ (येतेशतं) इस मन्त्रका शूनः
शेषऋषि त्रिष्टुप्छन्द वरुण देवता वरुणसंबंधि शापके मोचनमें विनि-
योग है ॥ अब इनके अर्थ क्रमसे लिखते हैं (त्वन्न इति) हे अ-
ग्ने ! तुम इस कर्ममें वैगुण्य होनेसे वरुणदेवके क्रोधको हरण करो
कैसे तुम—सर्वकर्ममें साक्षि चतुर हो और सबसे उत्तम हो और
सब देवताओंको यज्ञका भाग देनेवाले हो प्रकाशमान हो इसको
मन्दबुद्धिवाले हमको जान हमारेसे कीहुई अवज्ञा अनादरको क्षमा

कर सर्वप्रकारसे कल्याण देवो ॥ १ ॥ (मंत्रार्थ—सत्वन्नइति)
हे अग्ने ! तुम सबको पालना करनेवाले हो इसलिये आज दिनके
प्रातःकालसे लेकर मेरी रक्षाकरो । नहिं केवल रक्षा किंतु
हमारे कर बुलाये तुम सुख पूर्वक आकर सुखदेनेवाला चरु यज्ञके
मालिक वरुणदेवताको देकर पूजन करो । जिससे वरुणदेवभी
प्रसन्न हो हमारेको सुख दे ॥

(मं० अयाश्वाग्रइति) हे अग्ने ! तुम सर्वातिर्यामी और प्रायश्चित्त
द्वारा सर्वप्राणीको शुभ करनेवाले और शुभके दाता हमारे किये
हुए यज्ञको कृपालु होनेसे इन्द्रादिदेवताओंको देनेवाले इस लिये
हमकोभी भेषज अर्थात् सुखके देनेवाला दुःखविनाशक अपूर्व
सुख देवो ॥

(मंत्रार्थ येतेशतमिति) हे वरुण ! यज्ञके विघ्नसे पैदाहुये बड़े
भारी महान् कठिन जो तुम्हारे शतसंख्याक और सहस्र
संख्याक पाश हैं वह पापरूप पाश हमारे सविता सूर्य विष्णुरूप
इन्द्र और सर्वदेवता और वायु सुंदरहृदयवाले आदित्य हमारे
पापोंको नष्ट करें ॥ ४ ॥

शुक्लयजु० अध्याय १२ (मूल) मंत्र १२ ॥

उदुत्तमंवरुण पार्शुं मुस्मदबाधुमंविमं
ध्युमधुंश्रथाय अथावयमादित्यव्रते
तवानागसुोअदितयेस्यामस्वाहा । इदं
वरुणाय० ॥

(१६६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

आ० एताःसर्वप्रायश्चित्तसंज्ञकाः ॥ ५ ॥

ततोऽन्वारब्धंविना ॐ प्रजापतयेस्वाहा । इदंप्रजाप
तये ॥ ॐअग्नयेस्विष्टकृतेस्वाहा ॥ इदमग्नयेस्विष्टकृ
ते ॥ उदकोपस्पर्शनम् ॥ अथराष्ट्रभृत्यः ॥

भा०टी०—उत्तम, मध्यम, अधम यह तीन वरुणके पाश हैं
(मंत्रार्थ) हे वरुण ! जो तुम्हारा उत्तम पाश है उससे हमारी रक्षा
करा जो मध्यम पाश है उससेभी हमारी रक्षा करो पाशको शि-
थिल करो हे वरुण ! हम ब्रह्मचर्यसे तुम्हारेसे निरपराध होकर दी-
नतासे रहित होते हैं । “दीनतायां दितिः प्रोक्ता दितिःस्याद्वैत्यमा-
तारि” ॥ इस वचनसे दितिनाम दीनताकाभी है ॥ अनन्तर अन्वा-
रब्धविना । प्रजापतये० । इदं प्र० ॥ अग्नयेस्विष्टकृते० ॥ यह
दो आहुति दे जलको हाथ लगावें ॥ इसके अनंतर राष्ट्र भृत्यनाम
आहुति लिखते हैं ॥

तत्र द्वादश मन्त्रा यथा ॥

शुक्ल यजु० अध्याय १८ मंत्र ३८ ॥

ॐ ऋताषाडुतधांमाग्निर्गन्धुर्वःसर्नऽइद
म्ब्रह्मक्षुत्रम्पातुतस्मैस्वाहावाट् ॥ इदमृ

तासाहेऽतधाम्नेऽग्नयेगन्धर्वाय० ॥

ॐ ऋताषाडुतधांमाग्निर्गन्धुर्वस्तस्यौष

धयोऽप्सरसोमुदोनामताभ्यःस्वाहा ।

(१६८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

र्वस्तस्युक्षत्राण्यप्सरसोभेकुरयोनामता-
भ्यःस्वाहा ॥ इदंनक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्योभे-
कुरिभ्यः ० ॥

यजु० अध्याय १८ मंत्र ४१ ॥

ॐ इषिरोविश्वव्यचावातोगन्धुर्वःसर्नऽइद
म्ब्रह्मक्षत्रम्पातुतस्मैस्वाहावाद् ॥ इदमिषि
रायविश्वव्यचसेवाताय० ॥

यजु० अध्याय १८ मंत्र ४१ ॥

ॐ इषिरोविश्वव्यचावातोगन्धुर्वस्तस्या
पोऽप्सरसुऊर्जोनामताभ्यः स्वाहा ॥ इदं
मद्भ्योऽप्सरोभ्यऊर्भ्यः० ॥

यजु० अध्याय १८ मंत्र ४१ ॥

ॐ भुज्युः सुपर्णोयज्ञोगन्धुर्वःसर्नऽइदम्ब्र
ह्मक्षत्रंपातुतस्मैस्वाहावाद् ॥ इदंभुज्यवे
सुपर्णाययज्ञायगन्धुर्वाय० ॥

यजु० अध्याय १८ मंत्र ४१ ॥

ॐ भुज्युः सुपर्णोयज्ञोगन्धुर्वस्तस्युदक्षि
णाअप्सरसस्तावानामताभ्यःस्वाहा ॥

इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यस्तावाभ्यः० ॥

यजु० अध्याय १८ मन्त्र ४२ ॥

ॐ प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगन्धर्वः स न

इदं ब्रह्मक्षुत्रं पातु तस्मै स्वाहावाट् । इदं प्र

जापतये विश्वकर्माणे मनसे गन्धर्वाय ० ॥

ॐ प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगन्धर्वस्तस्य

ऽऋक्सामान्यंप्सरसुऽएष्योनामंताभ्यः

स्वाहा ॥ इदं ऋक्सामभ्योऽप्सरोभ्य

एषिभ्यः० ॥ इतिराष्टभृत् ॥

भा० टी०—इन द्वादश मंत्रोंके अर्थ यथाक्रमसे जानने यह+
चिह्न हांगा वहां पूर्वाक्त अर्थ समझे ॥ (मंत्रार्थ १) जो सत्यके
सहनेवाला सत्यका स्थान गन्धर्वरूप जो अग्नि उसको दी हुई
आहुति बहुत हो वह अग्नि हमारा ब्रह्मज्ञान और (क्षत्र) वीर्य
बलको रक्षा करे ॥

(२) जो सत्यका स्थान सत्यशील गन्धर्वरूप अग्नि तिसकी
औषधी अर्थात् यव गोधूम माष व्रीहि मुद्गादि सर्व प्राणियोंको
आनंददायक अप्सराहै तिस अग्नि और अप्सराके लिये सुहुत हो
(+) इत्यादि ॥

(३) दिनरात्रिका स्वामी गन्धर्वरूप जो सूर्यभगवान् संपूर्ण
सामवेदके जाननेवाले उनके लिये सुहुत हो (+) इत्यादि ॥

(१७०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

(४) रात्रिदिनपति गन्धर्वरूपी सूर्यजीकी मिश्रित होनेवाली मरीचियां (किरण) रूप अप्सरा हैं सो (+) इत्यादि ॥

(५) निरंतर सदैव आनन्दके देनेवाले गन्धर्वरूपी सूर्यकिरणोंसे वृद्धिको प्राप्त भये जो चन्द्रमा भगवान् जी (+) इत्यादि ॥

(६) तिस गन्धर्वरूपी चन्द्रमाजीकी (ईकुरी) अर्थात् जो एक पिताकी द्विकन्याका एकही पति हो उनको ईकुरी कहते हैं (+) प्रमाणभी जैसे गंगाधरजी लिखते हैं (सपितृकाएकपतिका ईकुर्घ्यस्ता उदीरिताः) ऐसे जो क्षत्र तारका अप्सरा है उसके पति जो (+) इत्यादि ॥

(७) जो वायु गमनस्वभाव और सर्वगत गन्धर्वरूप है (+) इत्यादि ॥

(८) जो वायुरूप गन्धर्व उनका सर्व वस्तुके देनेवाला जल अप्सरा है (+) इत्यादि ॥

(९) जो यज्ञरूप गन्धर्व है पालन करनेवाला और शोभनगतिवाला उसकी जलरूप अप्सरा है उसके (+) इत्यादि ॥

(१०) जो यज्ञरूप गन्धर्व है स्ववनरूप उसकी दक्षिणा नाम अप्सरा है उसके (+) इत्यादि ॥

(११) प्रजाका ईश्वर कि जिसके आश्रय विश्व बनती है ऐसा मनरूप जो गन्धर्व है (+) इत्यादि ॥

(१२) जो मनरूप गन्धर्व उसकी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष (पुत्रादि) की देनेवाली ऋग्वेद सामवेदरूपी अप्सरा है उसके

लिये सुहुत हो वह मन हमारा व्रत, ज्ञान, वीर्य, बल वृद्धि करे
इत्यादि क्रमसे अर्थ जानना यह राष्ट्रभृत् नामसे हवन है ॥

अथ जयाहोमः ॥ ॐचित्तश्चस्वाहा-इदंचित्ताय० १
ॐचित्तिश्चस्वाहा-इदंचित्यै० २ ॐआकूतंचस्वाहा-
इदमाकूताय० ३ ॐआकूतिश्चस्वाहा-इदमाकूत्यै०
४ ॐ विज्ञातंचस्वाहा-इदंविज्ञाताय० ५ ॐविज्ञाति
श्चस्वाहा-इदंविज्ञात्यै० ६ ॐमनश्चस्वाहा-इदंमन
से० ७ ॐ शक्र्यश्चस्वाहा-इदंशकरीभ्यो० ८ ॐदर्श
श्चस्वाहा-इदंदर्शाय० ९ ॐपौर्णमासश्चस्वाहा-इ
दंपौर्णमासाय० १० ॐ बृहच्चस्वाहा-इदंबृहते०
११ ॐ रथंतरंचस्वाहा-इदंरथंतराय० १२ ॐप्रजा
पतिजयानिन्द्रायवृष्णेप्रायच्छदुग्रः पृतनाजयेषु ॥
तस्मैविशःसमनमंतसर्वाः सउग्रः सहइहव्योवभूवस्वा
हा १३ इतिजयाहोमः ॥

भा० टी०—यह १३ त्रयोदशमंत्र जयानाम होम है इनमें द्वादश
(१२) सुगम हैं ॥ (मंत्रार्थ) १३ प्रजापति—प्रजाका स्वामि
शत्रुओंकी सेनाके नाश करनेमें उग्र परमेश्वरजीमें इंद्रका जयानाम
मंत्रोंका उपदेश करते भये । जिन मंत्रोंके प्रभावसे इंद्र सर्वका
राजा और वर्षाके करनेवाला सर्वसे मुख्य (अग्रणी) होता भया
तद्वत् ऐसे कृपाशील परमेश्वर मुझकोभी जय देवें ॥ और हमारेसे
दी हुई आहुति सुहुत हो ॥ १४ ॥ भाव यह है जिन मंत्रोंके

(१७२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

उपदेशद्वारा इंद्र ऐश्वर्यसे युक्त सर्वज्ञे मुख्य भया इस लिये इनका जया नाम है । इति ॥

अथाभ्याताननामहोमः ॥ ओंअग्निर्भूतानामधिपतिःस
मावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यां पुरो
धायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इदम
ग्रयेभूतानामधिपतये ० ॥१॥ ॐइन्द्रोज्येष्ठानामधिप
तिःसमावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां
पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इद
मिन्द्रायज्येष्ठानामधिपतये ० ॥२॥ ॐयमःपृथिव्याऽ
अधिपतिःसमावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्य
स्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥
इदंयमायपृथिव्याअधिपतये ० ॥३॥ अत्रप्रणीतोदकस्प
र्शः ॥ ॐवायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः समावत्वास्मिन्ब्रह्म
ण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्मण्य
स्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इदंवायवेऽन्तरिक्षस्याधिपत
ये ० ॥४॥ ॐसूर्योदिवाअधिपतिः समावत्वस्मिन्ब्रह्मण्य
स्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्मण्य
स्यां देवहृत्या २ स्वाहा । इदंसूर्यायदिवाअधिप ० ॥५॥
ॐचंद्रमानक्षत्राणामधिपतिः समावत्वस्मिन्ब्रह्मण्य
स्मिन्क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्म
ण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इदंचंद्रमसेनक्षत्राणामधि
पतये ० ॥६॥ ॐबृहस्पतिर्ब्रह्मणोधिपतिःसमावत्वस्मि

न्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मि
 न्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इदंबृहस्पतयेब्रह्म
 णोऽधिपतये० ॥७॥ओंमित्रःसत्यानामधिपतिःसमाव
 त्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायाम
 स्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इदंमित्रायस
 त्यानामधिपतये० ॥८॥ओंवरुणोऽपामधिपतिःसमाव
 त्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायाम
 स्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा । इदंवरुणायअ
 पामधिपतये० ॥९॥ ॐसमुद्रःस्रोत्यानामधिपतिःसमा
 वत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधा
 यामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इदंसमु
 द्रायस्रोत्यानामधिपतये० ॥ १० ॥ ॐअन्न २साम्रा
 ज्यानामधिपतिः मावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्था
 माशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २
 स्वाहा । इदमन्नायसाम्राज्यानामधिपतये० ॥११॥ॐ
 सोमओषधीनामधिपतिः समावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मि
 न्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां
 देवहृत्या २ स्वाहा । इदंसोमायओषधीनामधिपतये०
 ॥१२॥ॐसविताप्रसवानामधिपतिःसमावत्वस्मिन्ब्रह्म
 ण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्म
 ण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इदंसवित्रेप्रसवानामधिप

(१७४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

तये० ॥१३॥ ॐरुद्रःपशूनामधिपतिःसमावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इदंरुद्रायपशूनामधिपतये० ॥१४॥ अत्रप्रणीतोदकस्पर्शः॥ॐत्वष्टारूपाणामपतिःसमावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा॥इदंत्वष्टेरूपाणामधिपतये० ॥१५॥ ॐविष्णुःपर्वतानामधिपतिःसमावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इदंविष्णवेपर्वतानामधिपतये० ॥१६॥ ॐमरुतोगणानामधिपतयस्तेमावंत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा॥इदंमरुद्योगणानामधिपतिभ्यः० ॥१७॥ ॐपितरःपितामहाःपरेवरेततास्ततामहाइहमावंत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या २ स्वाहा ॥ इदंपितृभ्यःपितामहेभ्यःपरेभ्योवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यः० ॥ १८ ॥ अत्रप्रणीतोदकस्पर्शः ॥ इत्यभ्याताननामहोमः ॥

भा० टी०—इन अष्टादश १८ मंत्रोंका प्रजापतिक्रषि पंक्ति छन्द मन्त्रोक्तदेवता अभ्यातान नाम होममें विनियोग है ॥ इनका अर्थ यथाक्रमसे जानना ॥

(मंत्रार्थ)—सर्वका स्वामी अग्निदेव मुझको वेदादि अध्ययन कर्ममें और बल वीर्य वर्तमान इस विवाहमें तथा आगे होनेवाली वृद्धिमें तथा देवपूजनादिक कर्ममें मेरी रक्षा करे यह आहुति अग्नि-के लिये सुहुत हो ॥

(२) सबसे बडे जो बृहस्पतिजी उनका जो अधिपति राजा होनेसे इंद्र सो मुझको ० इत्यादि पूर्वाक्त अर्थ जानना १७मन्त्रोंमेंही

(३) मर्त्यलोकके प्राणियोंको दण्ड देनेवाला इसलिये पृथिवीका स्वामी जो धर्मराजजी वह मुझको इत्यादि × यह आहुति देकर प्रणीता जलसे हाथ प्रक्षालन करने ॥

(४) आकाशगामी होनेसे आकाशका स्वामी श्रीवायु देव-तार्जी मुझको × इत्यादि ॥

(५) संपूर्ण अन्धकार नाश करनेसे दिनके स्वामी सूर्यनारा-यण वह मुझको × इत्यादि ॥

(६) अश्विनीसे आदि और दाक्षायण्यादि तारका चंद्रमा-जीकी स्त्रियाँ हैं इस लिये नक्षत्रोंके स्वामी चन्द्रमाजी मुझको + इत्यादि ॥

(७) महादेवजीके शिष्य बन अपार व्याकरणादि जान और अत्युत्तमसंस्कृत उच्चारणादिसे बृहस्पतिजीको वेदोंका पतित्व उचि-तहै वह मुझको + इत्यादि ॥

(८) सत्यपदार्थका स्वामी जो मित्रदेवताजी वह मुझको × इत्यादि ॥ प्रमाण जैसे (मित्रत्वं जायते सत्यात्सत्यादेव प्रवर्द्धते । सत्यात्प्रफलते नित्यं सत्यहेतुर्हि मित्रता)

(१७६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

(९) जलोंका स्वामी वरुणदेवजी मुझको × इत्यादि ॥
प्रमाण जैसे (जलानां जलजन्तूनां पाशी धात्राधिपः कृतः) इति ॥

(१०) स्रोत्यनाम जो नल, नदी, नाले बहनेवाले और गंभीर दुरवगाह उनका मालिक समुद्रजी मुझको × इत्यादि ॥

(११) (अद्यते अत्ति च भूतानि इति अन्नं) अर्थात् जिसको मनुष्यादि भक्षण करे और जो मनुष्यादिको भक्षण करे और उत्पन्न करे तथा पालन करे ऐसा जो अन्न परमेश्वर हस्ति हय (घोडा) गृह वाग वगीचा इत्यादि सर्व वस्तुका स्वामी वह मुझको × इत्यादि ॥

(१२) औषधियोंका स्वामी सोमदेवजी मुझको इत्यादि ॥

(१३) सर्वके उत्पन्न करनेमें समर्थ सविता देवतार्जी मुझको × इत्यादि ॥

(१४) कामधेनुके गर्भद्वारा नन्दिकेश्वरका अवतार होनेसे महादेवजीको पशुओंके स्वामी कहा जाता है वह मुझको × इत्यादि
आहुति देकर प्रणीताजलसे हाथ धोवे ॥

(१५) रूपोंका स्वामी त्वष्टादेवजी मुझको ० ॥

(१६) पर्व जो अमावास्यादि चन्द्रग्रहणादि दर्शपौर्णमासादि यज्ञोंका स्वामी विष्णुपरमात्मा परमेश्वरजी मुझको ० ॥

१७) गणोंके स्वामी मरुत् मुझको ० ॥

(१८) देवऋषि आंगिरस भार्गव ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र और जो पिता पितामह प्रपितामहादि सनातन फिर अग्निष्वात्तादि और आधुनिक जो हमारे गोत्री वह सर्व मुझको × इत्यादि ॥

यहांभी प्रणीताजलसे स्पर्श करना जिन २ देवताकी आहुतीके अनंतर जलस्पर्श करना चाहिये वह प्रमाण लिखते हैं ॥ (यमो रुद्रश्च पितरः कालो मृत्युश्च पंचमः । पंच क्ररा विवाहस्य होमे तच्छान्तिमाचरेत् ॥ प्रणीता अप्सु शान्त्यर्थं मनुःस्वायम्भु-वोऽब्रवीत्) ॥

जिन अभ्यातानमंत्रोंसे देवता असुरोंको मारते भये इसलिये इनकी अभ्यातान संज्ञा भई तथाच श्रुतिः (यद्देवा अभ्यातानैर सुरानभ्यातन्वतः) इति ॥

अथाज्यहोमः ॥ ॐ अग्निरैतुप्रथमो देवताना २ सोस्यैप्र जांमुंचतुमृत्युपाशात् । तदय २ राजावरुणोनुमन्यतां यथेय २ स्त्रीपौत्रमघन्नरोदात्स्वाहा । इदमग्नये ० ॥ १ ॥
 ॐ इमामग्निस्त्रायतां गार्हपत्यः प्रजामस्यैनयतु दीर्घमा युः ॥ अशून्योपस्थाजीवतामस्तुमातापौत्रमानन्द मभिप्रबुध्यतामिय २ स्वाहा ॥ इदमग्नये ० ॥ २ ॥ स्वस्तिनो ऽग्नेदिवापृथिव्या विश्वानिधेह्य ऽयथायजत्रा ॥ यदस्या महि दिविजातंप्रशतदस्मासुद्रविणंदेहिचित्र २ स्वा हा । इदमग्नये ० ॥ ३ ॥ सुगंनुपंथांप्रविशन्नणहिज्योति ष्मद्धेह्यजरन्न आयुः । अपैतुमृत्युरमृतंनआगाद्वैवस्व तोनोऽभयंकृणोतुस्वाहा ॥ इदमग्नये ० ॥ ४ ॥ परंमृत्योऽ नु परेहिपंथांयस्तेऽन्यइतरोदेवयानात् । चक्षुष्मतेऽशृ

(१७८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ण्वतेतेब्रवीमिमानःप्रजा २ रीरिषोमोतवीरान्स्वाहा ॥
इदवैवस्वताय० ॥५॥ अत्रप्रणीतोदकस्पर्शः ॥ ततो
वधूमग्रतः कृत्वा वधूवरौप्राङ्मुखौस्थितौ भवतः ॥
ततो वराञ्जलिपुटोपरिसंलग्नवध्वञ्जलिपुटोपरि संलग्न
वध्वञ्जलिघृताभिघारितवधूभ्रातृदत्तशमीपलाशमिश्रै
र्लाजैर्वधूकर्तृकोहोमः ॥

भा० टी०—अग्निरैतु इत्यादि चार मंत्रोंका प्रजापति ऋषि
त्रिष्टुप् छंद मन्त्रोक्तदेवता घृतहोममें विनियोग है ॥ (मंत्रार्थ)
देवताओंमें आदि अग्निदेवता आकर इस कन्यामें आगे होनेवाली
संतानको मृत्युपाशसे मृत्युसे बचावे वा मृत्युपाशको भस्मकर इसका
प्रजा पुत्रादि वरुणराजाकी आज्ञासे जैसे यह स्त्रीपुत्रसंबंधि दुःखसे
ना रोदन करे ऐसी प्रजापुत्रादि संतानको देवे ॥ १ ॥

(इमामग्नि) अग्निहोत्र संबंधि अग्नि इस कन्याके पुत्रादिको
दीर्घायुको प्राप्तकरे पुत्रोंसे नहीं शून्य गोद (अंक) जिसकी वा
जीवितवत्सा हो यह स्त्री पुत्रपौत्रादि संबंधि आनंदको जाने
अर्थात् भोगे ॥ २ ॥

(स्वस्ति नो) पूजन करनेवालोंकी रक्षा करनेवाले हे अग्ने !
पृथिवीसे आदिले स्वर्गपर्यंत जो कल्याणक्रमको छोड अर्थात्
एकदाही हमारेमें धारण करो ॥ और पृथिवीस्वर्गमें पैदा होनेवाली
महिमा वा यश नानाप्रकारके सुवर्ण, मोती, पद्मराग, मरकत,
प्रवाल, रजतादिद्रव्य सर्व मुझको देवो ॥ ३ ॥

(सुगन्नु) सुखपूर्वक जाना आना जिसमें ऐसा गृह और

सुखपूर्वक चिरकाल जीवन धर्मदानादि करनेसे यशसे मुक्त जरा रोगसे रहित आयु देवो ॥ और अपमृत्यु आदि हमारे नष्ट होवें ॥ अमृत आनंद हमारेको मिले धर्मराजभी हमारेको अभय देवे अर्थात् हमारे पापका जो फल नरकादि क्लेश उनसे तुम्हारी कृपाद्वारा हमको बचावे ॥ यह आहुति अग्निके लिये सुदुत हो ॥

(परमृत्यो) इस मंत्रका संकर्षण ऋषि त्रिष्टुप्छंद मृत्यु देवता आज्यहोममें विनियोग है ॥ हे मृत्युदेव. सर्व व्यापारादिके साक्षी और मुननेवाले जिस कारणसे तुम्हारा देवमार्गसे भिन्न मार्ग है इस लिये अपने मार्गको जावो और हमारेसे आहुति पूजा ले हमारी पुत्र पौत्र भ्रातादि संततिको मतमारो किंतु प्रसन्न हो रक्षा करो हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं ॥ ५ ॥ इस मन्त्रसे आहुति देकर जलस्पर्श करना अनन्तर वरके आगे वधूको करे पूर्वकी तरफ मुख करे हुए वर वधू हवनके लिये स्थित होवें ॥ वरकी अञ्जलीपर वधूकी अञ्जली रखकर कुमारीके भ्राताने दी हुई जो घृत शमीके पत्रोंसे युक्त लाजा (फूलिया) से वधू मंत्र हवन पूर्वक करे ॥

ॐ अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत । सनो अर्यमा देवः प्रेतो
मुञ्चतु मापतेः स्वाहा ॥ १ ॥ इयं नार्युपब्रूते लाजानावपं
तिका । आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॥
॥ २ ॥ इमाल्लौजानावपाम्यग्ने समृद्धि करणं तव । ममतुभ्यं च सं
वननंतदग्निरनुमन्यतामिय २ स्वाहा ॥ ३ ॥ अथास्यै
दक्षिण २ हस्तं गृह्णाति वरः सांगुष्ठम् ॥ ॐ गृह्णामितेसौ

(१८०) विवाहफद्धति भा० टी० ।

भगत्वायहस्तंमयापत्याजरदष्टिर्यथासः । भगोऽर्यमासवि
तापुरंधिर्मह्यंत्वादुर्गार्हपत्यायदेवाः ॥ ४ ॥ अमोहमस्मिंसात्त्व
२ सात्वमस्यमोऽहम् ॥ सामाहमस्मिंक्रवत्वंद्यौरहंपृथीवीत्वम्
॥ ५ ॥ तावेवविवहावहैसहरेतोदधावहैप्रजांप्रजनयावहैपुत्रान्
विद्यावहैबहून् ॥ ६ ॥

भा० टी०—अर्यमणं इत्यादि तीन मंत्रोंका दध्यङ्ङाथर्वणऋषि
अनुष्टुप् छन्द अग्नि देवता लाजाहोममें विनियोग है ॥ (मंत्रार्थ)

(अर्यमणं) यह पूर्वकन्या सूर्य देवकी पूजनादि करती भई
वह सूर्य भगवान् प्रसन्न होकर पितृकुलसे श्वशुरगृह जानेके लिये
मोचन करे नहीं मुझपतिसे भिन्न करे ॥ १ ॥ यह तीन मंत्र वर
कन्यासे कहावे ॥

(इयंनार्य्युप) सन्तानप्राप्तिके लिये सूर्य देवको प्रसन्न कर ।
लाजाको अग्निमें गेरती हुई यह स्त्री पतिको सुन्दर वाणीसे कहती
है ॥ कि मुझको पति वीर्यपुष्टियुक्त चिरायुवाला होवे और
मेरे बांधव ज्ञातिके लोक पित्रादि मातुलादि सब वृद्धिको प्राप्त
होवें ॥ २ ॥

(इमाल्लैजान्) हे पति. तुम्हारी समृद्धिके लिये यह लाजा
अग्निमें गेरती है ॥ और हमारी तुम्हारी प्रीतिको अग्नि सर्वात-
र्यामी अनुमोदन करे अर्थात् तुम्हारी प्रीति हमसे सदा अविच्छिन्न
रहे ॥ ३ ॥

(अनन्तर वर वधूका साथ अंगुष्ठसे हस्तग्रहण करे) (मं-
त्रार्थ) (गृभ्णामि) हे पत्नि ! तुम्हारे हाथको ग्रहण करता हूं)

जिस हाथके ग्रहण करनेसे तुम बहुत वर्ष जीवित रहो ॥ शंका + आप किसकी आज्ञासे पाणिग्रहण कन्याका करते हो । उत्तर गार्हपत्यादि कर्मोंके करनेके लिये भग, अर्यमा, सविता और संतान तथा आनंदके लिये सुन्दररूपवती तुमको मुझे देतेभये इस हेतुसे हम आपको ग्रहण करते हैं ॥ ४ ॥

(अमोहमस्मि) इस मन्त्रका भरद्वाज ऋषि उष्णिक् छन्द विष्णु देवता हाथके ग्रहणमें विनियोग है ॥ अर्थ हे पत्नि ! मैं अमनाम विष्णु वा वेदत्रयात्मक हूं और तुम सा नाम लक्ष्मी वा देवीत्रयरूप अर्थात् ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी है । प्रमाण जैसे (ओंविष्णरःशिवः शोक्तः प्रपंचे अःस्मृतस्तथा) (साचलक्ष्मी बुधैःप्रोक्ता) और 'वेदानां सामवेदोस्मि' इस वाक्यसे मुख्यता होनेसे मैं सामवेद हूं ॥ और ऋक् शब्दको स्त्रीलिंग होनेसे तुम ऋग्वेद हो प्रमाण (स्त्रियामृक् सामयजुषी इत्यमरः) और मैं आकाशरूप तुम पृथिवीरूप हो ॥ भावार्थ कि, जैसे आकाश पृथिवीपर छादित है तद्वत् मैंभी अपने गुणोंसे तुम्हारेपर छादित रहा अर्थात् तुम हमारे अधीन रहे और जैसे पृथिवी छेदन भेदन की हुई और भारसे दबाईहुई अग्निसे दग्ध की हुई शांतिस्वभाव होनेसे कुछ नहीं कहती तद्वत् मेरे घर तुम श्वश्रू (सास) नन्द आदिसे उपालम्भ कटु वचनों प्राप्तभई भी उनको कुछ निषिद्धवाणी न कहे किन्तु उनकी सेवाकरे ॥ इस मंत्रको लेकर दृष्टांत देते हैं यथा “ शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नी

(१८२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः ॥ भूयष्ट
भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहीणीपदं
युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ ” शकुंतलाके श्वशुरकलग
मनकालमें इस वेदमंत्रका आशय लेकर भगवान् कश्यपजी
शकुन्तलाको उपदेश करते हैं कि, हे शकुंतले ! तुम यहाँसे
जाकर अपने श्वशुर सास सौहरा पती सपतयोंहरा इत्यादि जो २
गुरुजन उनकी सेवा करनी और सपत्नीमेंभी मित्रता भगिनीवत्
करनी यदि तुम्हारा भर्ता किसीकारणसे तुमपर क्रुद्ध हो दुर्वचनभी
कहे तो अपने कुछ नहीं कहना परंतु उसका क्रोध मधुरवचनोंसे
निवृत्त करना और जो परिजन नौकर चाकर दास दासी उनमें
चतुर (चुस्त) रहना (और किसीकी उन्नती देख शोच नहीं
करना) इत्यादिक श्रेष्ठ आचारसे स्त्रियां सर्व वस्तुकी मालिक-
प्रिय होती हैं व्यतिरिक्त स्त्रीकुलोंमें एकमानसिक रोग होती तथा
निरादरको प्राप्तहोती हैं इति ॥ आगे भी स्त्रियोंका आचरण कहेंगे.

(मंत्रार्थ—तावेव) तुम हम विवाह अर्थात् ऋषिवाक्य वेद
द्वारा मन्त्रबलसे कन्याको वरके गोत्रमें मिलाना और पतिभाव
करनेको विवाह करते हैं इसको करे ॥ अनंतर विवाहके तुम हम
पुत्रोत्पत्तिके लिये वीर्य धारणकर बहुत पुत्रोंको प्राप्त होवें ॥ ६ ॥

तेसन्तुजरदष्टयः संप्रियैरोचिष्णुसुमनस्यमानौ ॥

पश्येमशरदःशतंजीवेमशरदःशत २ शृणुयामशरदः

शतमिति ॥ ७ ॥ ॐआरोहेममश्मानमश्मेवत्वः

स्थिराभव ॥ अभितिष्ठतपृतन्यतोऽवबाधस्वपृतना
यतइति ॥ अथगाथांगायति ॥ सरस्वतीप्रेदमवसुभ
गेवाजिनीवति ॥ यांत्वाविश्वस्यभूतस्यप्रजायामस्या
ग्रतः । यस्यांभूतः समभवद्यस्यांविश्वमिदंजगत् ।
तामद्यगाथांगस्यामियास्त्रीणामुत्तमंयशइति ॥ अ
थवधूवरौअग्निप्रक्रामयतस्तुभ्यमग्रेइतिमंत्रेणेति ॥

ऋ० मं० १० अ० ७ सू० ८५ मं ३८ ॥

तुभ्यमग्रेपर्यवहनसूर्यावहतुनासुह । पु
नुःपतिभ्योजुयांदाअग्रेप्रजयासु हेतिप
ठन् परिक्रामेत् ॥ १० ॥

भा० टी०—ते सन्तु इस मंत्रोंका प्रजापति ऋषि यजुःछन्द
विष्णु देवता हस्तग्रहणमें विनियोग है ॥ मन्त्रार्थ—वह पुत्रपौत्रादि
चिरंजीवी होवें और तुम हम प्रेमयुक्त सुमन पुत्रादि सहित शत
१०० वर्ष रूपग्रहणमें (देखनेमें) तथा श्रवण करनेमें सामर्थ्य
जीवित रहे ॥ ७ ॥

आरोहेम इस मन्त्रका अथर्वण ऋषि अनुष्टुप् छन्द वधदेवता
अश्म (शिला) के आरोहणमें विनियोग है ॥ (मन्त्रार्थ) हे पत्नि!
तुम पाषाणवत् निश्चल हो और हमारे शत्रुकी सेनाको उद्यमवाली
को निरुद्यम करो ॥ ८ ॥

कन्याके पाषाणपर स्थित होनेमें गाथा गायन करे वर ॥
(सरस्वतीप्रेद) इस मंत्रका विश्वावसु ऋषि अनुष्टुप्छन्द सरस्वती देव

(१८४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ता गाथाके गायनमें विनियुक्त है ॥ (मन्त्रार्थ) हे वाणीरूप सरस्वती ! कल्याणगुणविशिष्ट अन्नादिके देनेवाली अन्नपूर्ण तुम यह वधूरूप इंद्रोंकी रक्षा करो तुमकोही इस पृथिव्यादि सर्व प्रपञ्चजातकी कारणरूप प्रकृति कहते हैं कि, जिसमें विश्व लयको प्राप्त होती है तथा सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होती है प्रमाण सांख्यतत्त्वकौमुदी कारिका ॥ ६२ ॥ तस्मान्न बध्यते ऽसौ न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् । संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ अर्थ—कि पूर्वोक्त जो अनुपकारी पुरुषमें उपकार करनेवाली प्रकृति तिसके अर्थको नष्ट कर आचरण करती है इसलिये पुरुष न बद्ध होता नात्यन्त मुक्त होता न जन्मता मरता है परन्तु प्रकृति नानाश्रय मुक्त करती बंधनकरती उत्पन्न करती है ॥ (असंगोयं पुरुषः) यह सांख्यसूत्रमें भी लिखाहै ॥ विस्तारके भयसे व्याख्या नहीं करते हैं और हम उस गाथाको गान करते हैं जो स्त्रियोंकी उत्तम पतिव्रतादि यश है ॥ ९ ॥

अनन्तर तुभ्यमग्ने इस मन्त्रसे वधू वर अग्निकी परिक्रमा करे तुभ्यमग्ने ॥ इस मन्त्रका अथर्वण ऋषि अनुष्टुप्छन्द अग्निदेवता प्रदक्षिणामें विनियोग है ॥ (मन्त्रार्थ) हे अग्ने ! तुम्हारे लियेही सोमादिदेवता इस कन्याको ग्रहण करते भये अर्थात् दो वर्ष चन्द्रमा पालन कर सौंदर्यताको दे गन्धर्वको देता भया वह २ वर्ष पालन कर सुन्दर कण्ठ वाणीको दे तुम्हारेको देता भया तुमभी तद्वत् पालन कर ६ वर्ष पर्यंत और पवित्रताको

देकर मुझको देवे अर्थात् हे अग्ने ! पालनके अनंतर पुत्रादि दे मेरे भर्ता के साथ मिलावें ॥

एवंपश्चादग्नेः स्थित्वालाजाहोमसांगुष्ठहस्तग्रहणाश्म
रोहणगाथागानाग्निप्रदक्षिणानिपुनरपिद्विस्तथैव कर्त
व्यानीति ॥ एतेननवलाजाहुतयः सांगुष्ठहस्तग्रह
णत्रयेचसंपद्यते । तथाऽऽसनविपर्ययः । ततोऽवशिष्टला
जैः कन्याभ्रातृदत्तैरञ्जलिस्थशूर्पकोणेनवधूर्जुहोति ॥
ॐ भगायस्वाहा—इदं भगाय० ॥ अथाग्नेवरः प
श्चात्कन्यातूष्णीमेवचतुर्थपरिक्रमणंकुरुतः) । ततो
वरउपविश्यब्रह्मणान्वारब्धः आज्येनप्राजापत्यं जुहुया
त् । ॐ प्रजापतयेस्वाहा इदंप्रजापतये० इतिमनसा ॥
अत्रप्रोक्षणीपात्रेआहुतिशेषाज्यप्रक्षेपः ॥ ततआले
पनेनोत्तरकृतसप्तमण्डलेषुसप्तपदाक्रमणंवरःकारयेत् ।
वक्ष्यमाणमंत्रैः ॥

भा० टी०—इस प्रकार अग्निके पीछे स्थित हो लाजा हवन
साथ अंगुष्ठके हस्त ग्रहण अश्मारोहण गाथाका गान अग्निकी
प्रदक्षिणा फिर दोवार करनी चाहिये ॥ अर्थात् पूर्वोक्त
तीन २ वार कर्तव्य है ॥ और आसनका बदलना एकवार
चाहिये शेष कन्याके भ्राताने दीहुई लाजोंसे शूर्पकी कोनसे
वधू हवन करे ' भगायस्वाहा' इस मंत्रसे फिर आगे वर पीछे
कन्या चुपचापसे चतुर्थ परिक्रमण करे ॥ प्रजाप०
इसको मनसे कहै और इस हवनमें आहुति शेष घृतका प्रो

(१८६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

क्षणीपात्रमें प्रक्षेप करै अनंतर आलेपन (वटना) से उत्तरोत्तर क्रम सप्तमण्डलको वधूसे वर आक्रमण करवावे ॥

ॐ एकमिषेविष्णुस्त्वानयतु ॥ द्वेऽर्ज्जेविष्णुस्त्वान
यतु ॥ त्रीणिरायस्पोषायविष्णुस्त्वानयतु । चत्वारि
मायोभवायविष्णुस्त्वानयतु । पञ्चपशुभ्योविष्णुस्त्वा
नयतु । षड्ऋतुभ्योविष्णुस्त्वानयतु ॥ सखेसप्तपदा
भवसामामनुव्रताभवविष्णुस्त्वानयतु ॥ ततोऽग्नेःप
श्चादुपविश्यपुरुषस्कंधे स्थितात्कुम्भादाम्रपल्लवेन
जलमानीयतेनवरोवधूमभिषिञ्चति ॥ ॐ आपःशिवा
शिवतमाःशांताःशान्ततमास्तेकृण्वन्तुभेषजामिति ।
अनेनपुनस्तथैवतस्मादेवकुम्भात्तथैवानीतजलेन
य०अ० ११ मं० ६॥

आपोहिष्णामयोभुवस्तानर्ज्जेदधातन ॥
मुहरणायचक्षसे ॥ योर्वःशिवतमोर
सुस्तस्यभाजयतेहनः ॥ उशुतीरिवमात
रं ॥ तस्माऽअरद्गमामवोयस्यक्षयाय
जिन्वथ ॥ आपोजुनयथाचनह ॥ इति
तिसृभिर्वधूमात्मानंचाभिषिञ्चति ॥ इति

भा० टी०—विष्णुरूपहम तुमको अन्नादि प्रातिके लिये एक-
पद आक्रमण कराते हैं ॥ प्रसन्न हो वधू यह कहै (धनं धान्यं

चमिष्टान्नं व्यञ्जनाद्यंचयद्गृहे । मदधीनंचकर्तव्यं वधूराद्येपदे-
वदेत्) ॥ १ ॥

विष्णुस्वरूप हम बलके लिये द्वितीयपद आक्रमण कराते हैं ॥
फिर वधू यह कहै ॥ (कुटुंबंप्रथयिष्यामितेसदामंजुभाषिणी ।
दुःखेधीरासुखेहृष्टाद्वितीयेसाब्रवीद्वरम् ॥ २ ॥) विष्णुस्वरूप हम
धन पुष्टिके लिये तुम्हारा तृतीय पदाक्रमण कराते हैं ॥ अनंतर वधू
यह कहे (ऋतौकालेशुचिःस्नाताक्रीडयामित्वयासह । नाहंपरपतिं
यायांतृतीयेसाब्रवीद्वरम् । ३)

चतुर्थपदको विष्णुस्वरूप हम सुखकी प्राप्तिको लिये आक्रमण
कराते हैं फिर वधू यह कहै ॥ (लालयामिचकेशान्तंगन्धमा-
ल्यानुलेपनैः । काञ्चनैर्भूषणैस्तुभ्यंतुरीयेसाब्रवीद्वरम् ॥ ४ ॥)
विष्णुस्वरूप हम पशुसुख गो महिषी इत्यादिका दुग्ध दधिघृतभक्ष
णरूप और अश्वादि आरोहणके लिये पंचमपदको आक्रमण
कराते हैं ॥ वधूभी यह वाक्य कहै ॥ (सखीपरिवृता नित्यं गौर्घ्या
राधनतत्परा । त्वयि भक्ता भविष्यामि पंचमे साब्रवीद्वरम् ॥ ५ ॥)
॥ विष्णु स्व० हम छः (षट्) ऋतुओंके सुख भोगनेके लिये
तुम्हारा पदाक्रमण कराते हैं वधूवाक्य जैसे—(यज्ञेहोमेच दानादौ
भवेयंतववामतः । यत्रत्वंतत्रतिष्ठामि पदेषष्टेऽब्रवीद्वरम् ॥ ६ ॥)

मेरी आज्ञामें होकर पतिव्रतादि धर्मशीलसे तुम सप्तलोकमें
प्रख्यात हो जैसे अरुन्धती जानकी इत्यादि पतिव्रता हो अद्यपर्यंत
सप्तलोकमें प्रसिद्ध हैं ॥ ७ ॥ इति सप्तपदाक्रमणमैत्री ॥

(१८८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

अनंतर पश्चिम अग्निके स्थित हो पुरुष स्कंधस्थित घटसे आम्रपत्रसे जल लेकर वर वधूका मस्तक अभिषिंचन करता है (आपः शिवा इत्यादि मंत्रोंसे) आपःशिवा इस मन्त्रका प्रजापतिक्रषि यजुश्छन्द जलदेवता अभिषेचनमें विनियोग है (मंत्रार्थ) कल्याणहेतु अतिशयसे कल्याणकारक और शीतल अतिशयसे शान्ति करनेवाले जलदेव तुमको आरोग्य करें ॥ (आपोहिष्ठादि) तीनमंत्रोंका सिन्धुद्वीपक्रषि गायत्रीछन्द जलदेवता मार्जनमें विनियुक्त है ॥ * (मन्त्रार्थ) हे जलदेव ! प्रसिद्ध यश और अनुभव किये तुम मुझको बलके लिये अन्नादि भोगनेके लिये धारण करे और महान् सुन्दर देखने योग्य अत्यंत कल्याणके देनेवाले बलपुष्टि करनेवाले दुग्ध घृत स्तन्यपानादिसे माताकी न्याई आप मुझको रस देवें और जिस पापके नाशकेलिये उत्पन्न करते हैं तिसरसकेलिये हम शीघ्र जाते हैं ॥ हे जलदेव ! आप मोक्षप्राप्तिके लिये योग्य हमको उत्पन्न करो अर्थात् तुम्हारी कृपा और आचरणसे शौचादिसे हमको मोक्ष हो ॥ प्रमाण जैसे पातंजलदर्शनयोगमूत्रमें (शौचात्स्वांगजुगुप्सापरैरसंसर्गः) इति ॥

तत्सूर्यमुदीक्षसेतिवधूं संबोधयतिवरः ॥ तच्चक्षुरित्यृ
चंपठित्वावधूःसूर्यपश्येत् ॥ मंत्रोयथा ॥

यजु० अध्याय ३६ मन्त्र २४ ॥

तच्चक्षुर्देवहितम्पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । प
श्येमशुरदःशुतञ्जीविमशुरदःशुतश्शृणु

यामशुर्दःशुतम्प्रब्रवामशुर्दःशुतम
दीनाःस्यामशुर्दःशुतम्भूर्यश्चशुर्दः
शुतात्॥

इतिपठित्वासूर्यपश्यति ॥ अस्तंगतेसूर्येध्रुवमुदीक्ष-
स्वइतिप्रैषानन्तरंध्रुवंपश्यामीतिब्रूयात् ॥तत्रवरपठनी-
योमंत्रः ॥ ॐ ध्रुवमसिध्रुवंत्वापश्यामिध्रुवैधिपोष्याम
यिमह्यंत्वादाद्ब्रह्मस्पतिर्मयापत्याप्रजावतीसञ्जीवशरदः
शतमिति पठेत् ॥

भा० टी०—सूर्यको देखो यह वर वधूको कहे तच्चक्षु इस
मन्त्रको पढ वधू सूर्यको देखे तच्चक्षु इस मन्त्रका दध्यङ्ङथर्वण
ऋषि अक्षरातीतिपुरउष्णिक्छंद सूर्य देवता सूर्यके उपस्थानमें
विनियोग है ॥

(मंत्रार्थ) स्वाहा स्वधाप्रभृति संपूर्ण देवता और पितर जिसके
उदय होनेसे तृप्त होते हैं ऐसा देवहित और नेत्रोंसे होनेसे चक्षु जो
सूर्यभगवान् प्रमाण यजु० अध्याय ३१ (चक्षोः सूर्या अजायत)
अर्थ विराट् भगवानके नेत्रसे सूर्य जो भये ॥ आदिमें कामादि और
अविद्यादि दोषरहित उदयको प्राप्त हो ऊर्ध्वको जाता है उस सूर्य
भगवान्को हम शत १०० वर्ष देखें और जीवित रहै कर्णोंसे यशश्रवण
करे वाणीसे श्रेष्ठ स्तुत्यादिकरे और अदीन रहकर शत १०० वर्षसे
अधिक वीश वर्ष जीवित रहै प्रमाण पूर्णायुमें जैसे—बृहज्जातककं
(समाषष्टिद्विघ्नमनुजकरिणांपंचचनिशा) इस प्रमाणसे १२०

(१९०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

वर्ष और पंचरात्रमनुष्यकी पूर्णायु है रात्रिमें ध्रुवजीको दर्शन करे वरमन्त्रको पढे ध्रुवमसि इस मन्त्रका परमेष्ठि ऋषि पंक्ति श्छंद प्रजापति देवता ध्रुवजीके दर्शनमें विनियुक्त है ॥

(मन्त्रार्थ) हे ध्रुव ! तुम सदैव रहनेवाले निश्चलहो इसलिये तुम्हारा दर्शन करते हैं (भाव) जैसे ध्रुवजी निश्चल हैं तद्वत् तुम निश्चल हो और मेरे पुत्रपौत्रादिके पुष्टि करनेवाली हो इसलिये प्रजापति ब्रह्माजी मुझको देते भये मेरेसे युक्त प्रजापति तुम शतवर्ष जीवित रहो ॥ यदि वधूकी दृष्टिमें ध्रुव न आवे तो देखतीहूं यह कहदे ॥ ६ ॥

अथ वरोवधूदक्षिणांसस्योपरिहस्तं नीत्वा तस्याहृदयमालभेत् । मंत्रो यथा ॥ मम व्रते ते हृदयं दधातु ममाचित्तमनुचित्तं तेऽस्तु ॥ मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्वा नियुक्तु मह्यमिति मंत्रेण । अथ वधूमभिमन्त्रयति वरः ॥ सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सौभाग्यमस्यैदत्वायाथास्तं विपरेतनेति ॥ अथ स्विष्टकृद्धोमः ॥ ॐ अग्रये स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्रये स्विष्टकृते ० ॥ अत्र स्रुवावशिष्टाज्यस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ॥ अयञ्च होमो ब्रह्मणान्वारब्धकर्तृकः ॥ अथ संस्रवप्राशनम् । तत आचम्य पूर्णपात्रं दक्षिणां ब्रह्मणे दद्यात् ॥ ॐ अद्य कृतैतद्विवाहहोमकर्मणि आचार्यकर्मप्रतिष्ठार्थं इदं हिरण्यमग्निदेवतद्रव्यं यथानामगोत्रायाऽमुकशर्म

णेब्राह्मणायदाक्षिणांतुभ्यमहंसंप्रददे ॥ ततोब्रह्मग्रंथि
विमोकः ॥

भा० टी०—वरं वधूके दक्षिण अंसपर हस्तको रस्व हृदयको
स्पर्शकरे (ममव्रते) इस मंत्रका परमेष्ठि ऋषि त्रिष्टुप् छन्द प्रजा-
पति देवता हृदयके स्पर्शमें विनियोग है (मन्त्रार्थ) मेरे शास्त्रवि-
हित नियमाचरणमें तुम्हारे हृदयको प्रजापति धारण करे और
मेरे चित्तके अनुकूल तुम्हारा चित्त होवे और मेरे वचनको सुख-
पूर्वक करो । अनन्तर वधूको अभिमंत्रण करे वर (सुमङ्गली) इस
मंत्रका प्रजापति ऋषि अनुष्टुप् छन्द विवाहाधिष्ठातृदेवता अभिमंत्र
णमें विनियोग है (मन्त्रार्थ) हे विवाहाधिष्ठातृदेवता ! गौरी पद्मा
शची प्रभृति यह सुमङ्गलयुक्त वधूको मिले इसको दृष्टिसे देखें
और इसको सौभाग्य पुत्रपौत्रादि देकर पुनः आनेके लिये जाओ
(ॐ अग्र्यं स्विष्टकृते) इस मंत्रसे आहुति देकर सुवालम घृतको
प्रोक्षणीपात्रमें गेरना और यह होम ब्रह्माका अन्वारब्धसे करना
संस्त्रवप्राशन करना अनन्तर आचमन कर पूर्णपात्र दक्षिणा ब्रह्माको
देवे संकल्पकर ब्रह्मा स्वस्ति कहे ॥ अनन्तर ब्रह्मग्रंथि खोलदेनी ॥
अथ पुष्पाञ्जलयः ॥

अत्रग्रामवचनंचकुर्युः ॥ ॐ सुमित्रियानआप ओष
धयःसन्तुइतिप्रणीताजलेनपवित्रेगृहीत्वाशिरः समृज्य
दुर्मित्रियास्तस्मैसन्तुयोऽस्मान्द्वेष्टियञ्चवयंद्विष्मः ॥
इत्यैशान्यांसपवित्रांसजलां प्रणीतान्युब्जीकुर्यात् ॥

(१९२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ततस्तरणक्रमेण बर्हिंरुत्थाप्य आज्येनावधार्यवक्ष्यमाण
मन्त्रेण हस्तेनैव जुहुयात् ॥

यजु० अ० ८ मं० २१ ॥

ॐ देवागातु विदोगातुं वित्वागातुमिंत । म
नसस्पतऽडुमं देवयुज्ञं स्वाहा वाते धाः स्वा
हा ॥ इति बर्हिहोमः ॥

तत उत्थाय वध्वा दक्षिणहस्तेन स्पृष्टैः स्रुवस्थघृतपुष्पफ
लैः पूर्णाहुतिं कुर्यात् ॥ मूर्द्धानमिति मंत्रस्य भरद्वाजऋ
षिर्वैश्वानरो देवता त्रिष्टुप्छंदः पूर्णाहुतिहोमे विनियोगः ॥

यजु अ० ७ मं० २४ ॥

ॐ मूर्द्धानं दिवोऽअरुतिम् पृथिव्या वैश्वान
रमुतऽआजातमुग्निम् । कुविं सुभ्राजुम
तिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवां
स्वाहा ॥

इदमग्नये० ॥ तत उपविश्य स्रुवेण भस्मानाय दक्षिणा
नामिकाग्रेण ।

य० अ० ३ मं० ६२ ॥

त्र्यायुषं जुमर्दग्नेः इति ललाटे । कुर्यपस्य

त्र्यायुषम् इतिग्रीवायाम् । यद्देवषुत्र्यायु
षं इतिदक्षिणबाहुमूले । तन्नो अस्तुत्र्या
युषम् इतिहृदये ॥

अनेनैवक्रमेणवध्वाअपित्र्यायुषंकुर्यात् । तत्रतन्नो
इत्यत्रतत्ते इति विशेषः ॥

भा० टी०—नगरका आचार करे कुलरीति जैसे सुमित्रियान
इस मंत्रका विश्वामित्र ऋषि अनुष्टुप् छंद मित्रदेवता मार्जनमें विनि-
युक्त है ॥ (मंत्रार्थ) जल और औषधी हमारेको परमसुख देवे
इस मंत्रसे शिरको जलसिञ्चन करें ॥ और जो हमारेसे द्वेष करता
जिसको हम शत्रु मानते हैं इसको जल औषधी दुःखको दे इस
मंत्रके साथ जलके प्रणीताको साथ जलसे न्युञ्ज (पुठो) करे
ईशानमें ॥ अनंतर पूर्वाक्त आस्तरणक्रमसे कुश उठाय घृतसे
युक्त कर ' देवागातु ' मंत्रपठ हाथसे हवन करे ॥ (देवागातु इस
मंत्रका अर्थ) ॥ हे देवतालोक ! तुम यज्ञके जाननेवाले हो इसलिये
विष्णुरूप यज्ञको जानकर सुखपूर्वक जाओ । हे अन्तर्यामि ब्रह्म
स्वरूप यह यज्ञफल तुमारे अर्पण कियाजाता है तुम वायुको अर्पण
करो ॥ अनंतर उठकर वधूके दक्षिण हाथसे युक्त सुवपर घृत
पुष्प फल रखकर मूर्द्धानं इस मंत्रसे पूर्णाहुति देवे । मूर्द्धानं इस मंत्रका
भारद्वाजऋषि अग्निदेवता त्रिष्टुप्छंद पूर्णाहुति होममें विनियुक्त है ॥
(मंत्रार्थ) स्वर्गादि लोकसे ऊपर पृथिव्यादि पांचभूतोंसे विरिक्त
ब्रह्माण्डको प्रकाश करनेवाला ईश्वर सत्यरूप जन्मादि षड्भाव

(१९४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

रहित निर्विकार प्रकाशमान् सर्वज्ञ परमानंद तीन कालसे रहित सृष्टिलयसे प्राणियोंका पात्रभूत और जो देवताको उत्पन्न कर स्वस्वव्यापारमें लगता है तिस परमेश्वरके लिये यह आहुति सुहुत हो ॥ बैठकर खुवसे भस्मको ले दाक्षिण अनामिकासे ललाट १ शीवा २ दाक्षिणबाहु ३ हृदयमें ४ यथाक्रम त्र्यायुषं इसमंत्रसे वर लगावै और वधूके लगानेमें 'तन्नो' इस स्थानमें 'तत्ते' यह पढ़े ॥

अथ क्षेपकम् ।

सुमंगलीकरणानंतरं समाचाराद्रधूंवरस्य वामभागेउप
वेशयंति ॥ वरस्यवामांगेउपविष्टाकन्यावरंप्रतिप्रति
ज्ञावचनानिब्रूते ॥ कन्योवाच॥ तीर्थव्रतोद्यापनयज्ञदा
नंमयासह त्वं यदिकिन्नकुर्याः । वामांगमायामितदा
त्वदीयंजगादवाक्यंप्रथमंकुमारी ॥ हव्यप्रदानैरमरा
न्पितृंश्चकव्यप्रदानैर्यदिपूजयेथाः । वामांगमायामित
दात्वदीयंजगादकन्यावचनंद्वितीयम् ॥ कुटुंबरक्षाभ
रणेयदित्वंकुर्याःपशूनांपरिपालनं च । वामांगमाया
मितदात्वदीयंजगादकन्यावचनंतृतीयम् ॥ आयव्य
यौधान्यधनादिकानांपृष्ठानिवेशेप्रगृहंनिदध्याः । वा
मांगमायामितदात्वदीयंजगादकन्यावचनंचतुर्थम् ॥
देवाल्यारामतडागकूपवापीर्विदध्यायदिपूजयेथाः ।
वामांगमायामितदात्वदीयंजगादकन्यावचनंचपंचमम्

॥ देशांतरेवास्वपुरांतरेवायदाविदध्याः ऋयविक्रयौ
त्वम् । वामांगमायामितदात्वदीयं जगादकन्यावचनं च
षष्ठम् ॥ नसेवनीयापरपारकीया त्वयाभवोद्गाविनि
कामिनीति ॥ वामांगमायामितदात्वदीयं जगादक
न्यावचनं च सप्तमम् ॥ वरउवाच ॥ मदीयचित्तानुगतं
चचित्तंसदामदाज्ञापरिपालनं च ॥ पतिव्रताधर्मपरा
यणात्वं कुर्याः सदासर्वमिमंप्रयत्नम् ॥ इति मिथः प्रति
ज्ञांकुर्वीयाताम् ॥ अत्रावसरेवध्वाः सीमंतेवरः सिंदूरं
ददाति ॥

ॐ वाममुद्यसवितुवाममुश्वोदिवेदिवेवाम
मुस्मभ्यं ७ सावी ६ ॥ वामस्य हि क्षयस्य
देवभूरैरयाधियावामभार्जः स्याम ॥

दक्षिणतउहैकउपदधातितदेताः पुण्यालक्ष्मीर्दक्षि
णतोदध्म इति ॥ तस्माद्यस्य दक्षिणतो लक्ष्म भवति
तंपुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षतउत्तरतः स्त्रियाउत्तरत
आयतनाहिस्त्री तत्तत्कृतमेवपुरस्तात्वेवेनाउपदध्या
द्यत्राहैवक्षिरस्तदेवहनूतजिह्वाथैताः पुण्याः लक्ष्मी
मुखतो धत्ते तस्माद्यस्य मुखे लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मी
क इत्याचक्षते ॥ इति वरः पठेत् ॥ अथपतिपुत्रान्वि
ताश्चतस्रः स्त्रियः सुभगास्तस्यैवध्वै सौभाग्यंदध्युः । ॐ

(१९६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

गौर्याः सावित्र्यास्तवसौभाग्यंभवतु इतिवधूदक्षिणकर्णैताभिर्वक्तव्यमिति अत्रैवचविवाहादूर्ध्वचतुर्थीकर्मतः पूर्वअरुंधतीदेवीपूजनीया इरणीदेवताकवंशपात्र (सुहामपिटारी) दानम् ॥

इति क्षेपकम् ।

ततआचारात् शणशंखशमीपुष्पार्द्राक्षतारोपणसिंदूरकरणंवरः कुर्यात् ॥ अथवेदितोमण्डपमागत्य दूर्वाक्षतादिग्रहणम् ॥ ततस्त्रिरात्रमक्षारालवणाशिनौ अधःशायिनौनिवृत्तमैथुनौभवतः । प्राङ्मुखौवधूरौ स्थितौभवतः ॥ इति श्रीपदक्रमजटाघनाद्यखिलवेदवेदाङ्गन्यायमीमांसादिशास्त्रसंपन्न अपारमहिमाविराजितश्रीमच्छ्रीगणेशमूनुश्रीरामदत्तकृता वाजसनेयीयजुर्वेदीयकात्यायनसूत्रवतांविवाहपद्धतिःसमाप्ता॥

शुभंभूयात् ॥ श्रीः ॥

भा० टी०—आचारसे शण शंख शमी पुष्प भोगेचावलको और सिंदूरको मस्तकपर कन्याके चढाना ॥ और ग्रामकं वचनको वर करे ॥ अनन्तर वेदीसे मंडपको आकर दूर्वाक्षत ग्रहण करने बाद तीनरात्र लवण अक्षार भोजन मैथुन नहीं करना और भूमिशयन प्राङ्मुख होकर बैठना होगा ॥ प्रमाण जैसे गृह्यसूत्रमें (त्रिरात्रमक्षारालवणाशिनौ स्यातामधःशयीता* संवत्सरं न मिथुनमुपेयातां द्वादशरात्र*षड्रात्रंत्रिरात्रमन्ततः) इतिश्रीगुरुदेवद्विजगोचर-

णसेवककाव्यनाटकनीतिसाहित्यज्योतिषचिकित्सादिप्रवीण—शिक्षा-
सूत्र—व्याकरण—छन्दोयुक्त—शुक्लयजुर्वेदाध्यायी गौतमगोत्र (शोरि)
ज्ञातिसम्भूत—विपाशाशतद्रूरंतर्गत श्रीमहाराज—जगज्जीतासिंहरक्षित
राजधानी—कर्पूरस्थलनिवासी श्रीघनैयारामशर्मणः प्रपौत्रः श्रीतु-
तसीरामशर्मणः पौत्रः श्रीदैवज्ञदुनिचंद्रात्मजश्रीयुतकरुणासिन्धुश्री-
पण्डितविष्णुदत्तवैदिकस्तेन कृताविवाहपद्धतिटीका विक्रमार्कात् ऋ-
षिवेदांकभूमिते १९४७ वर्षे मधुमासे रामनवम्यां तिथौ रात्रौ समा-
प्तिमगात् ॥ तच्चशुभंभूयात् श्रीरामचन्द्रप्रसादात् विप्राज्ञया च ॥

प्रार्थना ।

यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानाच्चकृतंमया । विद्वद्भिःक्षम्यतां सर्वे बा-
लत्वादयमञ्जलिः ॥ सूर्याचन्द्रमसौ यावत्पृथ्वी विश्वस्य धारि-
णी ॥ विवाहपद्धतेष्टीकातावत्तिष्ठतुमेकता ॥ श्रीः ॥ नमोगणपत-
ये ॥ श्रीः ॥

(इति षष्ठप्रकरणम्)

अथ सप्तमप्रकरणम् ।



ॐस्वस्तिश्रीगणेशायनमः ॥ अथचतुर्थीकर्मप्रारभ्य
ते ॥ तत्रचतुर्थ्यामपररात्रेचतुर्थीकर्म तच्चगृहाभ्यन्त
रएवकार्यम् । ततउद्धर्तनादिकृत्वायुगकाष्ठउपवि
श्यवधूवरौप्राङ्मुखौभवतः ॥ गणपत्यादिदेवतापूज

(१९८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

नम् ॥ ततः कुशकण्डिकाप्रारम्भः॥तत्रक्रमः ॥ जामा
तृहस्तपरिमितावेदीकुशैः परिसमूह्य तान्कुशानैशा
न्यानिक्षिप्यगोमयोदकेनोपलिप्यस्फयेनस्रुवेणवाप्रा
गग्रप्रादेशमात्रत्रिरुत्तरोत्तरक्रमेणोल्लिख्य उल्लेखनक्र
मेणअनामिकांकुष्ठाभ्यामृदमुद्धृत्य । जलेनाभ्युक्ष्यत
त्रतूष्णीकांस्यपात्रेणाग्निमानीयस्वाभिमुखंनिदध्यात्।

भा०टी०—विवाहके अनन्तर चतुर्थीकर्म लिखते हैं—विवाहकी
रात्रिसे चतुर्थरात्रिमें चतुर्थीकर्म गृहके अन्तरमें करना चाहिये ॥
और उद्वर्तन (उवटना) आदि कर्म कर युगकाष्ठ अर्थात् हलपजा-
लीपर बैठ स्नान कर शुद्ध वस्त्रको शुभवस्त्र आदि धारण कर घरमें
प्रवेश हो वधूवर पूर्वमुख होकर बैठें और गणपति षोडश ३६
मात्रा नवग्रहादि विवाहवत् सर्वपूजा करें ॥ अनन्तर कुशकण्डिका
करनी । तिसमें विधि यह है जामातृके हस्त ४ सदृश वेदी
बनाय कुशोंसे समूहन कर वह कुशा ईशानसे प्रक्षेपकर गोमय
जलसे लेप देय स्फय वा स्रुवसे प्रादेशमात्र उत्तर क्रमसे उल्लेखन-
त्रय रेखाकर इसीप्रकार मृत्तिका प्रक्षेपकर जलसे अभ्युक्षण कर
कांस्यपात्रमें तूष्णीं होय अग्निले अपने सन्मुख वेदीमें स्थित करै ॥

ततःपुष्पचन्दनताम्बूलवस्त्राण्यादाय । ॐअस्यांरात्रौ
कर्तव्यचतुर्थीकर्महोमकर्मणि कृताऽकृतावेक्षणरूप
ब्रह्मकर्मकर्तुममुकगोत्रममुकशर्माणंब्राह्मणमेभिः पु
ष्पचंदनताम्बूलवासोभिर्ब्रह्मत्वेनत्वामहंवृणे । इतिब्र

ह्लाणं वृणुयात् । ॐ वृतोस्मीतिप्रतिवचनम् । यथाविहि
तं कर्म कुर्वितिवरेणोक्ते । करवाणीतिब्राह्मणो वदेत् ॥
ततोऽग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमासनन्दत्वात्तदुपरिप्रागग्रान्कु
शानास्तीर्य्यब्रह्माणमग्निप्रदक्षिणक्रमेणानीय ॐ अत्र
त्वं मे ब्रह्मा भव इत्यभिधाय । ॐ भवानीतिब्राह्मणेनो
क्ते । कल्पितासने उदङ्मुखं ब्रह्माणमुपवेशयेत् ॥

भा० टी०—अनन्तर पुष्प चन्दन तांबूल वस्त्र ले । इस चतुर्थ
रात्रिमें करना जो होम उसकी अशुद्धि शुद्धि साक्षीके लिये अमुक-
गोत्र ब्राह्मण तुमको ब्रह्मा समझकर वरण करता हूं । मैंने वराणि ली
फिर यथाविहित आप कर्म कीजिये यह वर कहै । करता हूं
ब्रह्मा कहै । अनन्तर दक्षिण अग्निसे शुद्ध आसन देकर ऊपर
पूर्वाग्नि कुशा बिछाय अग्निकी प्रदक्षिणाकर यहाँ तुम ब्रह्मा हुए ।
हुआ यह ब्राह्मण कहै । फिर उत्तराभिमुख उस आसनपर ब्रह्माको
स्थित करै ॥

ततः पृथुदकपात्रमग्नेरुत्तरतः प्रतिष्ठाप्य प्रणीतापात्रं पु
रतः कृत्वा वारिणापरिपूर्य्य कुशैराच्छाद्य ब्रह्माणो मुख
मवलोक्याग्नेरुत्तरतः कुशोपरिनिदध्यात् ॥ ततः परि
स्तरणम् । बर्हिषश्चतुर्थभागमादाय आग्नेयादीशाना
न्तंब्रह्माणोऽग्निपर्यन्तं नैर्ऋत्याद्वायव्यान्तमग्निः प्रणी
तापर्यन्तम् । ततोऽग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेद
नार्थं कुशत्रयं पवित्रकरणार्थं साग्रमनन्तर्गर्भकुशपत्र
द्वयं प्रोक्षणीपात्रम् । आज्यस्थाली ॥ सम्मार्जनार्थं कु

(२००) विवाहपद्धति भा० टी० ।

शत्रयमुपयमनार्थवेणीरूपकुशत्रयम् । समिधस्तिस्रः ।
स्रुवः । आज्यम् । षट्पञ्चाशदुत्तरवरमुष्टिशतद्वयाव
च्छन्नतण्डुलपूर्णपात्रम् । एतानिपवित्रच्छेदनकुशानां
पूर्वपूर्वदिशिक्रमेणासादनीयम् । ततःपवित्रच्छेदन
कुशैःपवित्रेच्छित्वाप्रादेशमितपवित्रकरणम् ॥

भा० टी०—अग्निसे उत्तर जलसहित पीतलका बड़ा कुंभ स्थापन
कर प्रणीतापात्रको सन्मुखकर जलसे भर कुशोंसे आच्छादित कर
ब्रह्माजीको देख अग्निसे उत्तर कुशामें स्थित करै ॥ अनन्तर
कुशोंका चतुर्थभाग ले अग्निसे ईशानपर्यन्त ब्रह्मासे अग्निपर्यन्त
निर्ऋतिकोणसे वायुकोणपर्यंत और समिद्धत अग्निसे प्रणीता-
पर्यन्त पूर्वोत्तर क्रमसे आस्तरण करै । फिर अग्निसे उत्तर पश्चिम
दिशामें पवित्रच्छेदनार्थ कुशत्रय और पवित्र करनेके लिये गर्भ-
पत्ररहित अग्रसहित दो कुशपत्र प्रोक्षणीपात्र आज्यस्थाली
संमार्जन शुद्धिके लिये तीन कुशा उपयम (हस्तग्रहण) के लिये
वेणीरूप तीन कुशा । तीन समिधा पालाशकी । स्रुव घृत २५६
मुष्टिमित तण्डुलयुक्त पूर्ण पात्र । यह पवित्रच्छेदन कुशके पूर्व २
स्थित करने क्रमसे ॥ अनन्तर पवित्रच्छेदन कुशाके पूर्वस्थित करने
क्रमसे ॥ अनन्तर पवित्रच्छेदन कुशोंसे पवित्रच्छेदन कर प्रादेश-
मात्र पवित्र बनाये ॥

ततःसपवित्रकरणेप्रणीतोदकान्निःप्रोक्षणीपात्रेनिधा
यानामिकांगुष्ठाभ्यामुत्तराग्रे पवित्रे धृत्वा त्रिरुत्पव

नंततःप्रोक्षणीपात्रस्यसव्यहस्तकरणम् । पवित्रे गृही
त्वात्रिरुद्दिगनम् । प्रणीतोदकेनप्रोक्षणीप्रोक्षणम् । ततः
प्रोक्षणीजलेन यथासादितवस्तुसेचनम् ॥ ततोऽग्नि
प्रणीतयोर्मध्येप्रोक्षणीपात्रंनिधाय आज्यस्थाल्या
माज्यनिर्वापः । ततोऽधिश्रयणम् । ततोऽज्वलत्तृणादि
नाहविर्वैष्टयित्वाप्रदक्षिणक्रमेणपर्याग्निकरणम् । ततः
स्रुवंप्रतप्यसम्मार्जनकुशानामग्रैरन्तरतोमूलैर्बाह्यतःस्रु
वसंमार्जनम् ॥ प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्यपुनःप्रतप्य स्रुवं
दक्षिणतोनिदध्यात् ॥

भा० टी०—अनन्तर सपवित्र हस्तसे प्रणीताके जलको तीनवार
प्रोक्षणीपात्रमें प्रक्षेप कर अनामिका अंगुष्ठसे उत्तराग्र पवित्रोंका धारण
कर तीनवार उर्ध्वको पवित्रसे जल फेंकना फिर प्रोक्षणीपात्रको
वामहस्तमें स्थित कर पवित्र ग्रहण कर तीन वार उद्दिगन करे ॥
और प्रणीताजलसे प्रोक्षणीपात्रको प्रोक्षण कर फिर प्रोक्षणी-
जलसे सर्व वस्तु सिंचन करे अनन्तर अग्नि प्रणीतामध्यमें प्रोक्ष-
णीपात्र धरदे आज्यस्थालीमें घृत डाल अग्निमें रख ज्वलत्तृणसे
हवि वेष्टन कर प्रदक्षिणक्रमसे पर्याग्निकरण अर्थात् अग्निमें प्रक्षेप
करे तृणको फिर स्रुवको तपाय सम्मार्जन कुशाके अग्रभागसे
मध्यसे साफ करे और मूलसे ऊपर साफ कर फिर अग्निमें तपाय
दक्षिणमें स्थित करे ।

ततआज्यस्याग्नैरवतारणम् । ततआज्येप्रोक्षणविदु
त्पवनम् । अवेक्ष्यसत्यपद्रव्येतन्निरसनम् । पुनःपूर्वव

(२०२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

त्प्रोक्षण्युत्पवनम् । उपयमनकुशान्वामहस्तेनादाय
उत्तिष्ठन्प्रजापतिं मनसा ध्यात्वा तूष्णीं घृताक्ताः समिध
स्तिस्रः क्षिपेत् ॥ तत उपविश्य प्रोक्षणीजलेनाग्निं प्रदक्षि
णं पर्युक्ष्य पवित्रं प्रोक्षणीपात्रे घृत्वा ब्रह्मणान्वारब्धः
पातितदक्षिणजानुर्जुहुयात् । तत्राघारादारभ्याहुति
चतुष्टये तत्तदाहुत्यनन्तरं स्रुवावस्थिताज्यं प्रोक्षण्यां
क्षिपेत् । ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये० इति
मनसा । ॐ इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय० । इत्या
घारौ । ॐ अग्नये स्वाहा । इदमग्नये० । ॐ सोमाय स्वा
हा ॥ इदं सोमाय० ॥ इत्याज्यभागौ ॥ ततः पंचाज्याहुति
षु स्थालीपाकाहुतौ च प्रत्याहुत्यनन्तरं स्रुवावस्थितहुत
शेषघृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ॥

भा० टी०—घृतको अग्निसे उतार घृतको भी प्रोक्षणीवत् उत्प
वनकर यदि कुत्सित द्रव्य घृतमें होय तो निकाल फिर पूर्ववत् प्रो-
क्षणीका उत्पवन कर उपयमनकुशा वामहस्तमें ले उठकर प्रजाप-
तिका मनमें ध्यान कर तूष्णीं हो घृतयुक्त तीन समिधा अग्निमें
प्रक्षेप करे फिर बैठकर प्रोक्षणीजलसे अग्निको प्रदक्षिणक्रमसे
पर्युक्षण कर पवित्री प्रोक्षणीपात्रमें रख ब्रह्मासे अन्वारब्ध अर्थात्
कुशा मिलाय दक्षिणजांघको निमायकर स्रुवसे हवन करे और चार
आहुतिके अनन्तर स्रुवमें अवशिष्टघृतको प्रोक्षणीपात्रमें प्रक्षेप करे ।
प्रजापतिकी आहुति मनसे कहे इन्द्र, अग्नि, सोम यह क्रम-

से चार आहुती हवन करे फिर घृतसे जो पांच आहुति और स्था-
लीपाक आहुतिके अनन्तर स्रुवमें अवशिष्टघृतको प्रोक्षणीपात्रमें
प्रक्षेप करना ॥

ततोब्रह्मणान्वारब्धंविना । ॐअग्नेप्रायश्चित्तेत्वंदेवानां
प्रायश्चित्तिरसि । ब्राह्मणस्त्वानाथकामउपधावा
मियास्यैपतिघ्नीतनूस्तामस्यैनाशयस्वाहा ॥ १ ॥ इदम
ग्रये न मम । ॐवायोप्रायश्चित्तेत्वंदेवानांप्रायश्चि
त्तिरसिब्राह्मणस्त्वानाथकामउपधावामियास्यै प्रजा
घ्नीतनूस्तामस्यैनाशयस्वाहा ॥ २ ॥ इदंवायवे न
मम ॥ ॐसूर्यप्रायश्चित्ते त्वंदेवानांप्रायश्चित्तिरसि
ब्राह्मणस्त्वानाथकामऽउपधावामियास्यै पशुघ्नीतन
स्तामस्यैनाशयस्वाहा ॥ ३ ॥ इदंसूर्यायनमम ॥
ॐचन्द्रप्रायश्चित्तेत्वंदेवानांप्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण
स्त्वानाथकामउपधवामियास्यै गृहघ्नीतनूस्ताम
स्यैनाशयस्वाहा ॥ ४ ॥ इदंचंद्रमसेनमम ॥ ॐगन्ध
र्वप्रायश्चित्तेत्वंदेवानांप्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वाना
थकामउपधावामियास्यैयशोघ्नीतनूस्तामस्यै नाश
यस्वाहा ॥ ५ ॥ इदंगन्धर्वाय नमम ॥

भा० टी०—(मंत्रार्थ-अग्नेप्रायश्चित्ते) हे अग्निदेव ! प्रायश्चित्त
स्वरूप देवताओंके दोषनाशक ! तुमकोही स्तुतिपूर्वक मैं ब्राह्मण
प्राप्त होता हूँ कि, इस स्त्रीका पतिविरोधक अर्थात् पतिना

(२०४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

शक अंगलक्षण शरीरको नाश करो अस्यै यह चपुथ्यर्थमें षष्ठी विभक्ति है ॥

२ (मन्त्रार्थ—वायोप्रायश्चित्ते) हे वायुदेव ! इस स्त्रीका जो प्रजाघ्नी सन्तानविरोधि अर्थात् पुत्रनाशक शरीर (वा अंगविशेष) उसका नाश करो ॥

३ (मन्त्रार्थ—सूर्यप्रायश्चित्ते) हे सूर्यदेव ! इस स्त्रीका जो पशु-विरोधि अर्थात् पशुनाशक शरीर वह नाश करो ॥

४ (मन्त्रार्थ—चन्द्रप्रायश्चित्ते) हे चन्द्रमादेव ! इस स्त्रीका जो गृहविरोधि अर्थात् गृहनाशक शरीरहै वह नाश करो ॥

५ (मन्त्रार्थ—गन्धर्वप्रायश्चित्ते) हे यशके प्रकाशक ! गन्धर्व देव ! इस स्त्रीका जो यशविरोधि अर्थात् यशनाशक शरीर उसका नाश करो ॥

चरुमभिघार्यततःस्थालीपाकेन जुहुयात् । ॐ प्रजा
पतये स्वाहा । इदं प्रजापतये० ॥ इति मनसा । अ
ग्न्याहुतिनवकेहुतशेषघृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ।
अयंच होमो ब्रह्मणान्वारब्धकर्तृकः ॥ तत आज्यस्था
लीपाकाभ्यां स्विष्टकृद्धोमः ॥ ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वा
हा । इदमग्नये स्विष्टकृते० ॥ तत आज्येन । ॐ भूः
स्वाहा । इदमग्नये० ॥ ॐ भुवः स्वाहा । इदं वायवे ।
ॐ स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय० ॥ एतामहाव्याहृतयः ॥

भा० टी०—चरुको ततकर स्थालीपाकसे हवन करे ॐ प्रजा-
पतये स्वाहा यह मंत्र मनसे कहें ॥ अग्नये स्वाहा इस आहुतिसे

नव आहुतिपर्यन्त हुतशेष घृतका प्रोक्षणीपात्रमें प्रक्षेप करे ॥ यह होम ब्रह्माके अन्वारब्धकर्तृक होम है ॥

शुक्लयजुर्वेद अध्याय २१ मंत्र ३॥

ॐ त्वन्नोऽग्नेवरुणस्यविद्वान्देवस्युहेडोऽ
अर्वयासिसीष्टाः ॥ यजिष्ठोवह्नितमुःशो
शुचानोव्विश्वाद्वेषाँसिप्रमुमुग्ध्युस्म
त्स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्याम् ० ॥ १ ॥

शुक्लयजु० अध्याय २१ मंत्र ४ ॥

ॐ सत्वन्नोऽग्नेवमोर्भवोतीनेदिष्ठोऽअ
स्याऽउपसोव्युष्टौ ॥ अर्वयक्ष्वनोवरुणँ
रराणोव्वीहिर्मृडीकँसुहवोनऽएधिस्वा
हा ॥ इदमग्नये ० ॥ २ ॥

शुक्लयजु० अध्याय मंत्र ॥

ॐ अयाश्चाग्नेस्यनमिशस्तिपाश्चसत्यमि
त्वमयाऽअसि । अयानोयज्ञंव्वहास्ययानो
धेहिभेषजँस्वाहा ॥ इदमग्नये ० ॥ ३ ॥

शुक्लयजुर्वेद अध्याय मंत्र ॥

ॐ येतेशतम्वरुणयेसहस्रंयज्ञियाःपाशा

(२०६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

विततामहान्तः । तेभिन्नोऽद्यसवितो
तविष्णुर्विश्वेमुञ्चन्तुमरुतःस्वर्काः स्वा
हा ॥ इदंवरुणायसवित्रेविष्णवेविश्वेभ्यो
देवेभ्योमरुद्भ्यःस्वर्केभ्यः ॥ ४ ॥

शुक्लयजुर्वेद अध्याय २१ मंत्र १२ ॥

ॐ उदुत्तुमम्बरुणपाशंमुस्मदबाधुमंवि
मध्यमंश्रंथाय । अथाव्ययमादित्यत्र
तेतवानांगसोऽदितयेस्यामस्वाहा ॥ ५ ॥
इदंवरुणायएताः ॥ ५ सर्वाःप्रायश्चित्तसं
ज्ञकाः ॥

भा० टी०—त्वन्नो आर सत्वन्नो इत मंत्रोंका वामदेव ऋषि
त्रिष्टुप् छन्द अग्नि और वरुणदेवता सर्व प्रायश्चित्तमें विनियुक्त है ॥
और (येते शतं) इस मंत्रका शुनःशेषऋषि त्रिष्टुप् छंद वरुणदेवता
वरुणसंबंधि पाशके मोचनमें विनियुक्त है ॥ (मंत्रार्थ त्वन्नोऽअग्ने-
इति) हे अग्निदेव ! तुम इस कर्ममें वैगुण्य होनेसे वरुणदेवके क्रो-
धको दूर करो कैसे तुम सर्वकर्ममें साक्षी चतुर हो ॥ और सबसे
उत्तम हो और सर्व देवताओंको यज्ञका भाग देनेवाले हो प्रकाशमान
हो इसलिये मंदबुद्धिवाले हमको जानकर हमारेसे कीहुई अवज्ञा
(अनादर) को क्षमाकर सर्व प्रकारसे कल्याण देओ ॥ १ ॥
(मंत्रार्थ सत्वन्नइति) हे अग्ने ! तुम सर्वकी पालना करनेवाले हो

इस लिये आजदिनके प्रातःकालसे लेकर मेरी रक्षाकरो । नहीं केवल रक्षाही किन्तु हमसे बुलाये तुम सुखपूर्वक आकर मुख देनेवाला चरुयज्ञके स्वामी वरुणदेवताको देकर पूजन करो । जिससे वरुणदेवभी प्रसन्न हों हमको सुख दें ॥ २ ॥ (मंत्रार्थ अयाश्चाम्नइति) हे अग्ने ! तुम सर्वातर्यामी और प्रायश्चित्तद्वारा सर्वप्राणियोंको शुद्धकरनेवाले और शुभके दाता हमारे कियेहुए यज्ञको कृपालु होनेसे इंद्रादि देवताओंको देनेवाले इसलिये हमकोभी भेषज अर्थात् सुखके देनेवाला विविध दुःखविनाशक अपूर्व मुख देवो ॥

(मंत्रार्थ—येतेशतमिति) हे वरुणदेव ! यज्ञके विघ्नसे उत्पन्न ए बड़े २ भारी महान् कठिन जो तुम्हारे शतसंख्यक और सहस्रसंख्य पाश हैं । वह पाश पापरूप हमारे सविता सूर्य विष्णुरूप इन्द्र और सर्व देवता और वायुदेव ४९ सुन्दर हृदयवाले आदित्य १२ हमारे पापोंका नष्ट करें ॥ ४ ॥ (मंत्रार्थ—उदुत्तमिति) उत्तम, मध्यम, अधम यह तीन वरुणजीके पाश हैं ॥ हे वरुणदेव ! जो तुम्हारा उत्तम पाश है उससेभी हमारी रक्षा करो और जो मध्यम पाश है उससे भी हमारी रक्षा करो पाशको शिथिल करो हे वरुणदेव । हम ब्रह्मचर्यसे तुम्हारेसे निरपराध होकर दीनतासे रहित होते हैं ॥ (दीनतायां दितिः प्रोक्त्वा

(१) १ आध्यात्मिक २ आधिभौतिक ३ आधिदैविकभेदसे दुःख तीन प्रकारका है इनके भेदप्रत्युपभेद मत्कृतरामगीताविषमपदीटीकामें सविस्तृत लिखे हैं ।

(२०८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

दितिःस्याद्वैत्यमातरि) इस वचनसे दितिनाम दीनताकाभी है ॥ ५ ॥
यह आहुति सर्वप्रायश्चित्तमें है ॥

ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये ० । इति मनसा ॥
इदं प्राजापत्यं ततः संस्रवप्राशनम् । आचम्य । ॐ अ
स्यां रात्रौ कृतैतच्चतुर्थीहोमकर्माणि कृताऽकृतावेक्षणरूप
ब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदेवतममुकगो
त्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय दक्षिणां तुभ्यमहंसंप्रददे ॥
॥ इति दक्षिणां दद्यात् ॥ स्वस्तीतिप्रतिवचनम् ॥
ततो ब्रह्मग्रंथिविमोकः ततः सुमित्रियानऽआपऽओ
षधयः सन्तु इति पवित्राभ्यां शिरःसंमृज्य । ॐ दु
र्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टियञ्च वयं द्विष्मः ।
इत्यैशान्यां दिशि प्रणीतान्युब्जीकुर्यात् । ततः स्तर
णक्रमेण बर्हिरुत्थाप्य घृताक्तं हस्तेनैव जहुयात् ॥

शुक्लयजुर्वेद अध्याय ८ मंत्र २१ ॥

ॐ देवां गातुविदो गातुं विवत्वा गातुमित ।
मनसस्पतऽइमन्देवयुज्ञठस्वाहाव्वाते
धा स्वाहा ॥

भा० टी०—प्रजापतये यह मनसे कह प्रजापतिसंबंधि हव-
नकर फिर संस्रवप्राशन करे ॥ इस रात्रिमें कृत चतुर्थी कर्मकी
सांगतासिद्धिके लिये अमुकगोत्र ब्राह्मणको दक्षिणा देता हूं ब्राह्म

ण स्वस्ति कहै । फिर ब्रह्माकी ग्रन्थी खोल देवै (सुमित्रियान आप ओषधयःसन्तु) इस मन्त्रसे शिरको जलसे मार्जन करे (दु-र्मित्रिया) इस मन्त्रसे प्रणीताको ईशानकोणमें न्युब्ज करे फिर आस्तरणक्रमसेही कुशाले घृत लगाय देवागातु इस मन्त्रसेही हवन करे (मंत्रार्थ देवागात्विति) हे देवतालोक ! तुम यज्ञके जाननेवाले हो इसलिये विष्णुरूपयज्ञको जानकर सुखपूर्वक जाओ हे अन्तर्यामी ब्रह्मस्वरूप ! यह यज्ञका फल तुम्हारे अर्पण कियाजाता है तुम वायुको अर्पण करो ॥

आम्रपल्लवेनजलमादायमूर्ध्निवरोवधूमभिषिञ्चति । ॐ
यातेपतिघ्नीप्रजाघ्नीपशुघ्नीगृहघ्नीयशोघ्नी निदितातनूर्जा
घ्नीततएनां करोमिसाजीर्यत्वंमयासहश्रीअमुकदेव्या
इतिमंत्रेणाततोवधूंस्थालीपाकंप्राशयतिवरः । ॐप्राणै
स्तेप्राणान्संदधामि ॥ ॐअस्थिभिरस्थीनिसंदधामि॥
ॐ मां सैस्तेमां सानिसंदधामि ॥ ॐ त्वचातेत्व
चंसंदधामि ॥ इतिमंत्रचतुष्टयेनप्रतिमंत्रान्तेअन्नं
प्राशयेत् ॥ ततोवधूहृदयंस्पृष्ट्वा वरःपठेत् ॥ ॐयत्ते
सुशीमेहृदयंदिविचन्द्रमसिश्रियम् । वेदाहंतन्मांतद्वि
द्यात्पश्येमशरदःशतंजीवेमशरदःशतंशृणुयामशरदः
शतमिति ॥

भा० टी०—आम्रके पत्रसे जल लेकर वर वधूको यातेपतिघ्नी
इस मन्त्रसे मार्जन करे ॥ (मंत्रार्थ—याते) हे स्त्री ! जो तुम्हारा

(२१०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

पतिनाशक पुत्रनाशक पशुनाशक गृहनाशक यशनाशक निन्दित शरीर है सो जीर्ण (नाश) को प्राप्त होय मेरी भी जो स्त्री पुत्र पशु गृह यश नाशक शरीर है उसके साथ और मैं तुमको जारके नाश करनेवाली अर्थात् पतिव्रता करता हूं ॥ अनन्तर वधूको वर 'प्राणैस्ते' इन चार मन्त्रोंसे स्थालीपाक प्राशन करवाये ॥ (मंत्रार्थ प्राणैस्ते) हे वधू ! तुम्हारे प्राणोंके साथ मैं अपने प्राण और अस्थियोंसे अपनी अस्थि मांससे मांस त्वचासे त्वचा स्थित करता हूं अर्थात् तेरे और मेरेमें कुछ भेदबुद्धि नहीं है अनन्तर वरवधूके हृदयको स्पर्श कर (यत्ते सुशीमे) यह मंत्र पढ़े ॥ (मंत्रार्थ-यत्ते सुशीमे) हे वधू ! जो तुम्हारे हृदयमें चंद्रमसि शोभा लक्ष्मीमें जानता है वह मुझको प्राप्त हो उसको मैं शतवर्षपर्यन्त देखा और शतवर्ष जीवित रहा और शतवर्षही श्रवण करा ॥ भावार्थ यह है कि; तुम्हारे साथ रोगरहित शतवर्षपर्यन्त सुखपूर्वक प्राणोंको धारण करूं ॥

अथकंकणमोक्षणादीनियुतग्रन्थिविमोकादीनिआचारा
त्प्राप्तानिकर्तव्यानि ॥ मंत्रः—कंकणंमोचयाम्यद्यरक्षां
सिनकदाचन ॥ मयिरक्षांस्थिरांदत्त्वास्वस्थानंगच्छकं
कण ॥ ततउत्थायवधूदक्षिणहस्तस्पृष्टस्रुवेणघृतफलपु
ष्पपूर्णेनपूर्णाहुतिञ्जुहुयात् ॥

यजु० अध्याय ७ मंत्र २४ ॥

ॐ मूर्ध्नि नन्दिवो अरुति म्पृथिव्या वैश्वा

नरमुतआजातमुग्निम् । कुवि॑त्सुम्रा
जुमतिथि॑अनानामुसन्नापात्रंअनयन्त
देवाः॑स्वाहा ॥ इदमग्रये० ॥

ततःस्रुवेणभस्मानीयदक्षिणानामिकयात्र्यायुषंकुर्यात् ।

यजु० अध्याय ३ मंत्र ६२ ॥

ॐत्र्यायुषंजुमदग्नेः॑ । इति ललाटे ॥ ॐ
करु॑यपस्यत्र्यायुषम् । इति ग्रीवायां ॥ ॐ
यद्दे॒वेषु॑त्र्यायुषम् । इतिदक्षिणबाहुमूले ॥
ॐतन्नो॑अस्तुत्र्यायुषम् । इतिहृदये ॥

एवंवध्वाअपित्र्यायुषंकुर्यात् । तत्रतन्नोइत्यस्यस्था
नेतत्तइतिविशेषः । ततआचार्यायदक्षिणांदद्यात् ॥
भूयसींदद्यात् ॥ इति श्रीचतुर्थीकर्म समाप्तम् ॥

भा० टी०—कंकणमोक्षण और युतग्रंथि (खड्गचितावा) मोक्षण
आचारसे (मंत्रार्थ) मैं आज कंकणको त्यागता हूं राक्षस दूर
होवें हे कंकण ! मेरेमें दृढ रक्षा दे अपने स्थानको यथासुख जाओ ॥
फिर उठकर वधूका दक्षिण हाथ स्रुवके साथ लगाय वृत फलपुष्प
युक्त पूर्णाहुति वर हवन करै । (मूर्धानं)इसमंत्रसे (मंत्रार्थ-मूर्धानमिति)
स्वर्गादि सप्तलोकसे ऊपर पृथिव्यादि पांचभूतोंसे विरिक्त (रहित)
ब्रह्माण्डको प्रकाश करनेवाला ईश्वर सत्यरूप जन्म आदि षड्भाव
रहित निर्विकार प्रकाशमान् सर्वज्ञ परमानन्द तीनकालसे रहित

(२१२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

सृष्टि (उत्पत्ति) लय (नाश) से प्राणियोंका पात्रभत आधार और जो देवताओंको उत्पन्नकर स्व २ व्यापारमें लगाता है तिस परमेश्वरके लिये यह आहुति सुहुत हो बैठकर सुवसे भस्म ले दक्षिण अनामिकासे ललाट १ ग्रीवा २ दक्षिणबाहुमूल ३ हृदयमें ४ यथा क्रम त्र्यायुषं इस मंत्रसे लगावे इसीप्रकार वधूकेभी लगावे तन्नोके स्थानमें तत्ते यह वधूको कहना ॥ इतना विशेष है ॥ अनंतर आचार्यको दक्षिणा भयसी देवे ॥

इति श्रीकूर्पूरस्थलनिवासिगौतमगोत्र (शोरि) अन्वयालं-
कृतादैवज्ञदुनिचन्द्रात्मज पं० विष्णुदत्तवैदिककृतचतुर्थी कर्म
टीका अद्विवेदांकभूमिते १९४७ मधुमासे कृष्णपञ्चम्यां गुरु-
दिने समाप्तिमगात् । सा चशुभावहास्यात्कलदेव्याः प्रसादात्
देवगुरुद्विजाशीभिः ॥

॥ श्रीः ॥ शुभम् ॥ समाप्तञ्चेदं सप्तमं प्रकरणम् ॥

(विशेषद्रष्टव्यम्)

अथयाज्ञवल्क्यस्मृतौ विवाहप्रकरणम् ।
गुरुवे तु वरं दत्त्वा स्नायीत तदनुज्ञया ॥ वेदव्रतानि वा
पारं नीत्वाह्युभयमेव वा ॥ १ ॥ अविप्लुतप्रज्ञचर्यो-
लक्षण्यांस्त्रियमुद्रहेत् । अनन्यपूर्विकां कान्तामस-
पिण्डायवीयसीम् ॥ २ ॥ अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमाना-
र्षगोत्रजाम् । पञ्चमात्सप्तमादूर्ध्वं मातृतःपितृतस्तथा ॥
॥ ३ ॥ दशपूरुषविरव्याताच्छोत्रियाणामहाकलात् ॥

स्फीतादपिनसंचारिरोगदोषसमन्वितात् ॥ ४ ॥ एतै
रेवगुणैर्युक्तःसवर्णःश्रोत्रियो वरः ॥ यत्नात्परीक्षितः
पुंस्त्वे युवाधीमाञ्जनप्रियः ॥ ५ ॥

भा० टी०—ब्रह्मचारी गुरुजीको गुरुदक्षिणा देकर वेदोंको वेदको वा व्रतको अथवा वेदव्रत दोनोंको समाप्तकर ब्रह्मचर्यको न नष्टकर उक्त लक्षणयुक्त स्त्रीसे विवाह करे ॥ जो प्रथम विवाही- न हो मुंदर हो सपिंडा और आयुसे अधिक न हो अर्थात् छोटी हो मातृ (माताकी संतान) कुलसे पंचम पितृ (पिताकी संतान) कुलसे मतम अर्थात् भगिनी भगिनीभाता भ्रातृपुत्री पितृव्य चाचा ताया । एवं पितादि७से ऊपर जिसको इससमय अंग बोला जाता है वह न मिले यह प्राचीन संप्रदाय है पिताकुल माताकुल पिताके नानाके माताके नानाके यह ७ भये ॥ यह मतमिले ॥ पांच मातासे पांच पितासे १० पुरुष (पेस्तर) से कुल प्रसिद्ध हो श्रोत्रियोंकी बड़ी कुलसे ॥ परंतु रोग और दोषयुक्त कुल न होय ऐसी कुलकी कन्या इन पूर्वोक्त गुणों- से युक्त समानजाति वर युवाजनको प्यारा बोलनेवाला बुद्धिमान् यत्नसे पुंस्त्वमें परीक्षित (पुल्लिंग) होना चाहिये ॥

यदुच्यतेद्विजातीनांशूद्रादारोपसंग्रहः । नैतन्मममतं
यस्मात्तत्रायंजायतेस्वयम् ॥ ६ ॥ तिस्रोवर्णानुपूर्वे
ण द्वैतथैकायथाक्रमम् । ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्या

(२१४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

स्वा शूद्रजन्मनः ॥ ७ ॥ ब्राह्मोविवाह आहूय दीयते
शक्त्यलंकृता ॥ तज्जःपुनात्युभयतःपुरुषानेकविंशति
म् ॥ ८ ॥ यज्ञस्थऋत्विजेदैवआदायार्षस्तुगोद्वयम् ।
चतुर्दशप्रथमजःपुनात्युत्तरजश्चषट् ॥ ९ ॥ इत्युक्त्वा
चरतांधर्मसह या दीयतेऽर्थिने । सकायः पावयेत्तज्जः
षट्षड्रुवंश्यान्सहात्मना ॥ १० ॥ आसुरोद्रविणादानाद्वा
धर्वःसमयान्मिथः ॥ राक्षसोयुद्धहरणात्पैशाचः
कन्यकाच्छलात् ॥ ११ ॥

भा०टी०—जो द्विजातियोंको शूद्रकी कन्यासे विवाह अन्य ऋषि कहते हैं यह मेरेको ईप्सित नहीं कारण वह फिर उस शूद्रामें पुत्ररूप होकर पैदा होता है प्र० (आत्मा वै पुत्रनामासि) ऐसी तिहै ॥ ब्राह्मणको ब्राह्मणी १ क्षत्रिया २ वैश्या ३ शूद्रा ४ और क्षत्रीको क्षत्रिया १ वैश्या ३ शूद्रा ३ वैश्यको वैश्या १ शूद्रा २ भार्या लिखी है शूद्रको शूद्राही १ भार्या लिखी है ॥ ब्राह्म विवाह वह होता है जो यथाशक्ति अलंकृत कन्या श्रेष्ठ वरको बुलाकर संकल्प दी जाती है उससे उत्पन्न संतान २१ कुलोंको १० पिताके १० माताके और १ आपको पवित्र करता है ॥ ८ ॥ जो यज्ञमें ऋत्विक्को दीजाय वह दैवविवाह होता है ॥ यह १४ कुलको पवित्र करता है ॥ ९ ॥ जो दो गौ लेकर कन्या देवे वह आर्ष विवाह ६ कुलको पवित्र करता है ॥ जो अर्थीको धर्माचरण करो यह कहकर दीजाय वह प्राजापत्य विवाह होता है वह १२ कुल पवित्र करता है ॥ १० ॥ जो द्रव्य

लेकर कन्या देवे वह आसुरी विवाह होता है जो वरकन्या आप-
समें विवाह चाहे वह गांधर्व विवाह होता है ॥ जो जबरदस्ती
युद्धमें जीत कन्या ली हो वह राक्षसी विवाह और छलसे कन्या
ले तो पैशाच विवाह होता है ॥ ११ ॥

पाणिर्ग्राह्यःसवर्णासुगृह्णीयात्क्षत्रियाशरम् ॥वैश्याप्रतो
दमादद्याद्रेदनेत्वग्रजन्मनः ॥ १२ ॥ पितापितामहो
भ्रातासकुल्योजननीतथा ॥ कन्याप्रदः पूर्वनाशेप्रकृ
तिस्थःपरःपरः ॥ १३ ॥ अप्रयच्छन्समाप्नोतिभ्रूण
हत्यामृतावृतौ ॥ गम्यंत्वभावेदातृणां कन्याकुर्यात्स्व
यंवरम् ॥ १४ ॥ सकृत्प्रदीयतेकन्याहरंस्तांचोरदण्ड
भाक् । दत्तामपिहरेत्पूर्वाच्छ्रेयांश्चेद्भ्राजजेत् ॥१५॥
अनाख्यायदददोषंदण्डउत्तमसाहसम् । अदुष्टांतुत्य
जन्दण्डचोदूषयंस्तुमृषाशतम् ॥ १६ ॥

भा० टी०—सवर्णोंमें अर्थात् ब्राह्मण ब्राह्मणीसे इत्यादि
विवाहमें हाथ ग्रहण करना लिखा है यदि ब्राह्मण क्षत्रियाको
विवाहे तो क्षत्रिया बाण हाथमें पकड़े वैश्या प्रतोदको—शूद्रा
वस्त्रको हाथसे पकड़े ॥ कन्याके अधिकारी क्रमपूर्वक यह हैं
कि, पिता पितामह भ्राता कन्याका अपने कुलका माता
यह क्रमपूर्वक एकके अभावमें वा उन्मादादि रोगयुक्त होनेसे
पिछला २ होता है ॥ यदि विवाहयोग्य कन्याको न विवाहे तो
मास २ में गर्भहत्याके दोषको प्राप्त होता है यदि कन्यादाता कोई
न हो वा (कन्याही योग्य पतिको चाहती है) तो स्वयंवर कर

(२१६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

एकही बार कन्याका दान होता है यदि फिर देकर कन्याका हरण करै तो चौरदण्डको प्राप्त होता है ॥ यदि पुनः पूर्ववरसे अधिक गुणयुक्त श्रेष्ठवर आजाय तो अवश्य विवाह दे परन्तु सप्तपदीसे पूर्वही दान होता है पीछे नहीं ॥ जो कन्याका दोष अन्धत्वादिना कहकर विवाह देता है वह उत्तम साहसके दंडको प्राप्त होता है ॥ जो दोषरहित स्त्रीको त्यागे वा झूठी तोहमत लावे वहभी दंडयोग्य होता है ॥

अक्षताच क्षताचैव पुनर्भूः संस्कृतापुनः । स्वैरिणी
या पतिं हित्वा सवर्णं कामतः श्रयेत् ॥ अपुत्रां गुर्व
नुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रो वा
घृताभ्यक्तऋतावियात् ॥ आगर्भसंभवाद्गच्छेत्पतित
स्त्वन्यथा भवेत् ॥ अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोस्य
सुतो भवेत् । हृताधिकारांमलिनां पिण्डमात्रोपजीवि
नीम् । परिभूतामधःशय्यां वासयेद्व्यभिचारिणीम् ॥ सोमः
शौचं ददावासां गंधर्वश्च शुभांगिरम् ॥ पावकः सर्वमेध्य
त्वमेध्यावैयोषितो ह्यतः ॥

भा० टी०—पतिके जीते वा मरपर जो स्त्री फिर विवाही जाय वह पुनर्भू होती है ॥ जो स्त्री अपने पतिको छोड़कर सवर्णी अन्य पुरुषको अपनी इच्छासे सेवन करे वह स्वैरिणी स्त्री कहलाती है ॥ अपुत्रा स्त्रीको अपने बड़ोंकी आज्ञासे पुत्रकी इच्छा रख सपिण्डी वा सगोत्री घृत शरीरपर मर्दन कर ऋतुकालमें संभोग करे जबतक गर्भ न हो तबतक गमन करै अन्यथा पति-

त हो जाता है ॥ इस विधिसे उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता है परन्तु यह वाक्य वहां है जहां बडाभाईकी सगाई हो वह मरजावे वा यदि उसकी सगाईको विवाह ले तो यह विधान करे इसमें मनुजीका वाक्य है ॥ (यस्याग्निप्रेतकन्यायावाचासत्येकृतेपतिः । तामनेनविधानेननिजोर्विदेतदेवरः ।) अर्थ पूर्वही लिखा है ॥ जो स्त्री व्यभिचारिणी होजाय उसके पाससे भूषणादि छीन मलिन वस्त्र पहिराय केवल अन्नमात्र दे और पृथिवीपर शयन करवावे उससे भोग करना प्रायश्चित्तनिवृत्तिपर्यंत छोडदे ॥ और तिरस्कार करता रहै परंतु घरसे बाहिर मत निकाले यह स्त्री अल्पही प्रायश्चित्तसे शुद्ध होती है कारण सोम इनको पवित्रता देता भया गंधर्व शुभ वाणी अग्नि शुद्धि सो स्त्री शुद्ध है ॥

व्यभिचारादृत्तौशुद्धिर्गर्भेत्यागोविधीयते ॥ गर्भभर्तृव धादौचतथामहतिपातके ॥ सुरापीव्याधिता धूर्ता वंध्यार्थघ्न्यप्रियंवदा । स्त्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्यापुरुषद्वे षिणी तथा ॥ अधिविन्नातुभर्तव्यामहदेनोन्यथा भ वेत् । यत्रानुकूलंदम्पत्योस्त्रिवर्गस्तत्रवर्धते ॥ मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति ॥ सेह कीर्तिम वाप्नोति मोदते चोमया सह ॥ आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम् । त्यजन्दाप्यस्तृतीयां शमद्रव्यो भरणं स्त्रियाः ॥

(२१८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

भा० टी०—जो स्त्री मनमें पराये मनुष्यके साथ संभोग करनेकी इच्छा करती है इस प्रायश्चित्तसे मासपीछे ऋतु आनेपर शुद्ध होजाती है यदि परपुरुषसे स्त्रीको गर्भ होजाय वा अपने पतिके गर्भ करे वा पतिको नाश करना चाहे सत्य २ और ब्रह्महत्यादि दोषदूषित होय तो उस स्त्रीका त्याग लिखा है ॥ यदि स्त्री मद्यपीवे वा व्याधियुक्त हो वा दुष्टा धूर्ता हो वा वंध्या धनके नाश करनेवाली कटुवचन सदैव कहै वा कन्याही उत्पन्न करे अथवा पतिसे मनमें विरोध रखे यह सत्य २ मालूम कर इनके जीनेपर अन्य स्त्रीसे विवाह करावे ॥ और जो प्रथम स्त्री है उसकोभी भूषण वस्त्र अन्नसे पालन करे अन्यथा बडा पाप है ॥ जहां स्त्रीपुरुषकी अनुकूलता है वहां धर्म अर्थ काम बढ़ता है ॥ जो मनुष्य कामवशहो आज्ञामाननेवाली चतुर पुत्रोंको उत्पन्न करनेवाली प्रिय वाक्य कहनेवालीको छोडता है वह अपनी धनसे तीसरा हिस्सा उस स्त्रीको दे यदि धन ना हो तो उसको अन्न वस्त्र भूषण दे रक्षा करे ॥ जो स्त्री पतिके मृत होनेपर वा जीवितपर अन्य मनुष्यके साथ भोग नहीं करती वह इस संसारमें कीर्तिको प्राप्तहो अंतकालमें पार्वतीके साथ आनंद करती है ॥

स्त्रीभिर्भर्तृवचः कार्यमेष धर्मः परःस्त्रियाः ॥ आशुद्धेः
संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ॥ लोकानंत्यं दिवः प्रा
प्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः । यस्मात्तस्मात्स्त्रियः सेव्याः कत
व्याश्च सुरक्षिताः ॥ षोडशर्तुर्निशाः स्त्रीणां तस्मिन् युग्मा
सुसंविशेत् ॥ ब्रह्मचार्यैर्वर्षवण्याद्याश्च तस्त्रैश्च वर्जयेत् ॥

एवंगच्छन्त्रियंशामां मघांमूलंचवर्जयेत् । सुस्थइंदौस
कृत्पुत्रंलक्षण्यंजनयेत्पुमान् ॥

भा० टी०—स्त्रियोने भर्ताका वचन परिपालन करना यही परम धर्म है ॥ यदि भर्ता महापातकसे युक्त है तो शुद्धिपर्यंत प्रतीक्षा करे ॥ अनेक चिर वंशकी स्थिति और पुत्रपौत्रादिसे स्वर्गप्राप्ति स्त्रीमूल होनेसे स्त्रीका सेवन अवश्य है ॥ स्त्रीकी १६ रात्रि ऋतुकालसे ले गर्भ होनेकी है उनमें ८ । १४ । १५ । ३० । ११ तिथि मघा मल छोड श्रेष्ठ चंद्रमामें युग्म दिन ४ । ६ । ८ । १० । १२ में भोगकर लक्षणयुक्त श्रेष्ठ पुत्रको उत्पन्न करे ॥

यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणांवरमनुस्मरन् ॥ स्वदारनि
रतश्चैव स्त्रियोरक्ष्या यतः स्मृताः ॥ भर्तृभ्रातृपितृज्ञा
तिश्वश्रूश्वशुरदेवरैः । बंधुभिश्चस्त्रियः पूज्याः भूषणाच्छाद
नाशनैः ॥ संयतोपस्करादक्षाहृष्टाव्ययपराङ्मुखी ॥
कुर्याच्छशुरयोः पादवंदनं भर्तृतत्परा ॥ क्रीडांशरीर
संस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् । हास्यं परगृहे यानं
त्यर्जेत्प्रोषितभर्तृका ॥ रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां
पतिः पुत्रास्तु वार्धके ॥ अभावेज्ञातयस्तेषांनस्वातंग्यं
क्वचित्स्त्रियाः ॥

भा० टी०—इंद्रने दिया जो वर कि तुम्हारी कृपा (इच्छा) नष्ट करनेवाला पातकी होता है इसको स्मरण करता हुआ यथा कामीभी

(२२०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

हो सक्ता है ॥ कारण अपनी स्त्रीमें ही संभोग करे और स्त्रीकी रक्षा करे ॥ भर्ता भ्राता पिता बांधव सास सौहरा देवर इनकरके स्त्रीलोग भूषण वस्त्रादिसे पूजनीय है और स्त्री घरकी उपकरण सामग्री अच्छी तरह राखे चतुर प्रसन्न धनका खर्च मत करे और सास श्वसुरके चरण पर वंदना करे परंतु प्रीति भर्ता में राखे जिस स्त्रीका पति परदेश गयाहो वह खेलना शृंगार समाज सभा मेला मत देखे हास्य मत करे पराये घरोंमें मत गमन करे ॥ कन्याकी पिता युवतीकी पति वृद्धाकी पुत्र रक्षाकरे अभावमें बांधव रक्षा करे स्त्रीको स्वतन्त्र होना नहीं लिखा ॥

पितृमातृसुतभ्रातृश्वश्रूश्वशुरमातुलैः ॥ हीनानस्याद्वि
नाभर्तागर्हणीयान्यथाभवेत् ॥ पतिप्रियहिते युक्ता
स्वाचारा विजितेंद्रिया । सेह कीर्तिमवाप्नोतिप्रेत्य
चानुत्तमांगतिम् ॥ सत्यामन्यांसवर्णायांधर्मकार्यनका
रयेत् ॥ सवर्णासुविधौधर्म्यैज्येष्ठयानविनेतरा ॥ दाह
यित्वाऽग्निहोत्रेण स्त्रियंवृत्तवतीं पतिः । आहरेद्विधि
वदारानग्नींश्चैवाविलंबयन् ॥

भा० टी०—स्त्री विना भर्ताके पिता माता पुत्र भ्राता सास सौहरा मामा इनके अलग ना रहै अन्यथा निन्दित होजातीहै ॥ जो स्त्री पतिके हितमें हो श्रेष्ठ आचारवाली जितेन्द्रिया हो वह यहां यशको अंतमें उत्तम लोकको प्राप्त होतीहै ॥ जिस मनुष्यकी बहुत स्त्री हों वह सवर्णाके विना अन्यवर्ण स्त्रीसे धर्म ना करावे यदि

समान वर्णकी अनेक स्त्रियें हों तो प्रथमस्त्रीके साथ धर्मकार्य करे
 यदि व्रतवती स्त्री मृत्युको प्राप्त हो तो उसको अग्निहोत्रकी अग्निसे
 दाहकर विधिपूर्वक शीघ्रही स्त्रीको और अग्निको ग्रहण करे अन्य
 था अग्निहोत्रका अभावसे दोष है ॥ इति श्रीदैवज्ञदुनिचन्द्रात्मज
 पण्डित विष्णुदत्तवैदिककृतनवरत्नविवाहपद्धतिधृतविवाहविधानं
 भाषाटीकासहितंसमाप्तम् ॥ शुभम् ॥

प्रीयताञ्चानेन श्रीरामचन्द्रः ।



अथ विवाहमंत्राणां सूचीपत्रम् ।

संख्या	मंत्र	पृष्ठ	संख्या	मंत्र	पृष्ठ
१	साधुभवानास्ताम्	१३१	१९	यदैषिमनसा	"
२	वष्मोस्मि	१३२	२०	अघोरचक्षुः	१५२
३	विराजोदोहोसि	"	२१	त्वन्नो अग्ने	१६३
४	आपःस्थयुष्माभिः	१३४	२२	सत्वद्धो अग्ने	"
५	समुद्रं वः	"	२३	अयाश्वाग्नेः	१६४
६	आमागन्यशसा	१३५	२४	येतेशतम्	"
७	देवस्यत्वा	१३६	२५	उदुत्तमम्	१६५
८	नमःश्यावास्यायाम्	१३७	२६	ऋताषाडृतधामा	१६६
९	यन्मधुनोममव्यम्	१३८	२७	सङ्ग्रहितो	१६७
१०	गौर्गौर्गोः	१३९	२८	सुषुम्णः	"
११	प्रातारुद्राणाम्	"	२९	इषिरोविश्वव्यचा	१६८
१२	उत्सृजन्तृणानि	१४०	३०	भुज्युःसुपर्णः	"
१३	जरांगच्छ	१४२	३१	प्रजापतिर्विश्वकर्मा	१६९
१४	याअकृतन्	"	३२	चित्तञ्चेति (द्वादश)	१७१
१५	परिधास्यै	१४३	३३	प्रजापतिर्जयानिद्राय	"
१६	यशसामाद्यावा	१४४	३४	अग्निर्भूतानाम्	१७२
१७	समंजंतुविश्वेदेवाः	१४५	३५	इन्द्रोज्येष्ठानाम्	"
१८	कोदात्	१५१	३६	यमःपृथिव्या	"

संख्या	मंत्र	पृष्ठ	संख्या	मंत्र	पृष्ठ
३७	वायुरंतरिक्षस्य	१७२	५७	अर्यमणंदेवम्	१७९
३८	सूर्योदिवा	"	५८	इयंनार्घ्युप	"
३९	चन्द्रमानक्षत्राणाम्	"	५९	इमाल्लौजानावपामि	"
४०	बृहस्पतिर्ब्रह्मणो	"	६०	गृभ्णामिते	"
४१	मित्रःसत्यानाम्	१७३	६१	आरोहेममश्मानं	१८२
४२	वरुणोऽपाम्	"	६२	सरस्वतीप्रिदम	१८३
४३	समुद्रःस्रोत्यानाम्	"	६३	तुभ्यमग्ने	"
४४	अन्नं साम्राज्यानाम्	"	६४	एकमिषेद्रेऊर्जेइत्यादि	१८६
४५	सोमओषधीनाम्	"	६५	आपःशिवाः	"
४६	सविताप्रसवानाम्	"	६६	आपोहिष्ठा	"
४७	रुद्रःपशूनाम्	१७४		सप्त	१८७
४८	त्वष्टारूपाणाम्	"	६७	तच्चक्षुः	१८८
४९	विष्णुःपर्वतानाम्	"	६८	ध्रुवमसि	१८९
५०	मरुतोगणानाम्	"	६९	ममव्रतेते	१९०
५१	पितरःपितामहाः	"	७०	सुमंगलीरियम्	"
५२	अग्निरैतु	"	७१	सुमित्रियादुर्मि-	
५३	इमामग्निस्त्रायताम्	"		त्रिया	१९१
५४	स्वस्तिनो अग्ने	"	७२	देवागातु	१९२
५५	सुगन्धुपन्थाम्	"	७३	मूर्धानम्	"
५६	परंमृत्यो	"	७४	व्यायुषम्	"

(२२४)

सूचीपत्रम् ।

संख्या	मंत्र	पृष्ठ	संख्या	मंत्र	पृष्ठ
	अथ चतुर्थीकर्ममंत्राः		९	त्वचात्वचमिति	१०९
१	अग्नेप्रायश्चित्ते	१०३	१०	यत्तेसुशीमेइति	"
२	वायोप्रायश्चित्ते	"		अथक्षेपकमंत्राणि	
३	सूर्यप्रायश्चित्ते	"	१	तत्त्वायामि ।	
४	चन्द्रप्रायश्चित्ते	"	२	भवतन्नः ।	
५	गंधर्वप्रायश्चित्ते	"	३	इमंमेवरुण ।	
६	प्राणैस्तेप्राणान्	१०९		यहतीनमंत्रसूत्रकारने	
७	अस्थिभिरस्थीनि	"		लिखे हैं	
८	मांसैस्तेमांसम्	"		पद्धतियोंमें नहीं हैं ॥	

इति विवाहमंत्राणांसूचीपत्रम् ।

अथाष्टमप्रकरणम् ।

(स्त्रीणामाचारे)

ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरवे नमः ॥

लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः ॥

यस्मात्तस्मात्स्त्रियः सेव्याः कर्तव्याश्च सुरक्षिताः ॥

भा० टी०—याज्ञवल्क्यस्मृति और मन्वादि धर्मशास्त्र और श्रुतियोंमें स्त्रियोंका स्वीकार रक्षा यह सिद्ध है इस लिये पुत्र पौत्र प्रपौत्रादिद्वारा स्वर्गादि प्राप्तिके लिये स्त्रियोंका पाणिग्रहण करना चाहिये और स्त्रियोंको उपदेश करना आचारका तथा भर्ताका पूजन अवश्यकर्तव्य है और यहभी याज्ञवल्क्यस्मृति प्रथम अध्यायमें लिखा है कि (पतिप्रियहितेयुक्तास्वाचाराविजितेन्द्रिया । सेहकीर्तिमवाप्नोतिप्रेत्यचानुत्तमांगतिम्) अर्थात् जो स्त्री पतिके प्रियमें तत्पर और शुद्ध आचारयुक्त और इन्द्रियजित ऐसी स्त्री इस लोकमें कीर्ति यश और परलोकमें उत्तमगतिको प्राप्त होती है और भी लिखा है (स्त्रीभिर्भर्तृवचःकार्यमेषधर्मः परःस्त्रियाः) अर्थात् भर्ताका वचन मानना यही स्त्रीका परम धर्म है ॥ अन्यच्च (गुरु-रग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः । पतिरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः) अर्थात् ब्राह्मणोंका अग्नि गुरु, वर्णोंका ब्राह्मण गुरु, स्त्रीका एक पतिही गुरु होता है अभ्यागत सर्वका गुरु है इत्यादि अनेक प्रमाणोंसे स्त्रियोंका पतिही गुरु है इसलिये

(२२६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

पतिकी सेवा और आज्ञा करनी आचार शुद्ध रखना यही स्त्रीका मुख्य धर्म है इसलिये कुछ यत्किंचित् स्त्रियोंका आचार धर्मशास्त्रोक्त लिखते हैं ॥ जो सौभाग्यवती स्त्रीमात्र हैं उनको प्रातःकाल सूर्योदयके प्रथम चार घड़ीके तडके (प्रातःकाल) उठकर नेत्रोंको प्रथम जलस्पर्श करना अनन्तर अपने पतिके चरणोंपर शिरको धर प्रणाम कर प्रथम पतिके मुखका दर्शन करना पश्चात् शुद्ध (साफ) दर्पणमें अपना मुख देखना पीछेसे भूमिको प्रोक्षण (छिडकन) सम्मार्जन (बुहारी) लेपनादिसे घरको शुद्ध करे और पृथिवीकी पूजा कर फिर शूद्रकमलाकरोक्त मंगलपाठ पढ़कर पतिकी सेवा पादप्रक्षालन आदि कर फिर वेणी (गूत) को कंकपत्र (कंघी) से शुद्धकर और पुष्पादिक धारण कर भाल (मस्तक) में तिलक लगाय हस्त कर्ण बाहुके भूषणादि धारण कर फिर जिस प्रकार केशादिक जलसे क्लिन्न (गीले) ना होवें तद्वत् स्नान करे इसमें प्रमाण भी जैसे सौभाग्यकल्पद्रुममें लिखा है ॥

यथा—बुद्धाब्राह्मेमुहूर्तेनिजपतिचरणौसंप्रणम्यास्यमस्य
प्रेक्ष्यप्रेम्णाथनैजंशुभमुकुरतलेभूमिमभ्यर्च्यपत्नी ॥
प्रातःस्मृत्यादिकृत्वापतिपरिचरणंसंविधायैववेणीं
संरच्याधायभालेतिलकमथगलाघोनिमज्जेत्सभूषा ॥

और स्कांदमेंभी लिखा है (प्रसुतं च सुखासीनं रममाण यह च्छया । आतुरेष्वपि कालेषु पतिं नोत्थापयेत्कचित्) अर्थात् पति शयन अवस्थामें हो वा मुखपूर्वक आराममें होय वा

स्वेच्छापूर्वक आनन्द लेताहो ॥ अर्थात् अपनी तकलीफमें भी होय तबभी पतिको ना उठावे ॥ और पतिको सर्वप्रकारसे प्रसन्न करे ॥ और हरिद्रा (हलदी) का मर्दन केशरका स्वीकार सिंदूर कज्जल कूर्पासक (चोली) ताम्बूल यह स्त्रियोंको मंगल दायक भूषण है और केशोंका संस्कार कर्णके आभूषण तथा हस्तोंके भूषण भर्ताकी आयुकी वृष्टिकी इच्छावाली स्त्री इनको मत त्यागे ॥

प्रमाणम् । हरिद्राकुंकुमंचैवकस्तूरीकज्जलंतथा । कूर्पासकंचतांबूलंमांगल्याभरणंस्त्रियाः ॥ केशसंस्कारकबरीकरकर्णविभूषणम् । भर्तुरायुष्यमिच्छंतीदूरयेन्नक्वचित्सती ॥

और नियम काजल और पत्रपुष्प आदि जो आज्ञा करे पति वह आगे रखंद ॥ और भर्ताका उच्छिष्ट सेवन करे और तीर्थस्नानकी इच्छावाली स्त्री पतिका पादोदक पान करे और शंकर विष्णुसे अधिक स्त्रीको पति होता है ॥

प्रमाणम्। प्रसुतं च सुखासीनं रममाणं यदृच्छया। आतुरेष्वपि कालेषु पतिं नोत्थापयेत् क्वचित् ॥ हरिद्राकुंकुमंचैव सिंदूरं कज्जलंतथा । कूर्पासकंचतांबूलं माङ्गल्याभरणं स्त्रियाः ॥ केशसंस्कारकबरीकरकर्णविभूषणम् । भर्तुरायुष्यमिच्छन्तीदूरयेन्नक्वचित्सती । नियमोदकवर्हिचपत्रपुष्पादिकंचयत् । सेवेत भर्तुरुच्छिष्टमिष्टमन्नं फलादिकम् ॥ तीर्थस्नानार्थिनी नारी प-

(२२८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

तिपादोदकंपिबेत् । शंकरादपिविष्णोर्वापतिरेकोऽधिकः
स्त्रियाः ॥

श्रीमद्भागवते ।

स्त्रीणांचपतिदेवानांतच्छुश्रूषानुकूलता ॥ तद्बन्धुष्व
नुवृत्तिश्चनित्यंतद्वतधारणम् ॥ सम्मार्जनोपलेपाभ्यां
सेकमण्डलवर्तने ॥ स्वयंचमण्डितानित्यंपरिमृष्टपरि-
च्छदा ॥ कामैरुच्चावचैःसाध्वीप्रश्रयेण दमेनच ॥
वाक्यैःसत्यैःप्रियैःप्रेम्णाकालेकालेर्चयेत्पतिम् ॥ संतु-
ष्टालोलुपादक्षाधर्मज्ञाप्रियसत्यवाक् ॥ अप्रमत्ताशुचिः
स्निग्धापतित्वपतितंभजेत् ॥ यापतिंहरिभावेनभजेच्छी
रिवतत्परा ॥ हर्यात्मनाहरेर्लोकेपत्याश्रीरिवमोदते ॥
दुःशीलोदुर्भगोवृद्धोजडो रोग्यधनोपिवा । पतिःस्त्री
भिर्नहातव्योलोकेप्सुभिर्पातकी ॥ अस्वर्ग्यमयश
स्यंचफलगुकृच्छ्रंभयावहम् । जुगुप्सितंचसर्वत्रऔप-
पत्यं कुलस्त्रियाः ॥

भावार्थ—

स्त्रीलोगोंका पतिही परम देव है इसकाही पूजन करना और आज्ञामें रहना और पतिके बंधु माता पिता इनकी सेवा करनी पतिव्रत धारण करना और पृथिवीकी शुद्धि संस्कार पूजन और अपने शरीरमें भूषण पुष्प धारण करने श्रेष्ठ कार्यों और वचनोंसे पतिव्रता स्त्री पतिकी सेवा करे और काल अर्थात् ऋतुकालमेंही पतिसे

संभोग करे अन्यथा अतिविषयासक्त ना होवे । और सदैव संतुष्ट रहै और सावधान पवित्र स्नेहवती रहै जो स्त्री हरिभावसे लक्ष्मीवत् पूजन करती है विष्णुलोकमें वह स्त्री पतिके साथ विष्णुजीवत् आनंद भोगती है ॥ यदि पति दुष्ट निर्द्धन वृद्ध मूर्ख जड रोगीभी होय वह लोक परलोकमें सुख इच्छावती स्त्री न तिरस्कार करे और स्वर्गके ना देनेवाला यशका नाश करनेवाला संपूर्ण शास्त्र वेदोंमें निन्दित उपपति अर्थात् जार स्त्रीको होताहै इसलिये स्त्रियोंको परपुरुषसे एकांतभाषण हास्य विहार अतिनिषिद्ध है । और इसमें याज्ञवल्क्यजीभी लिखते हैं ॥

पितृमातृश्वसृभ्रातृजामिसम्बंधमातुलैः ॥ हीना नस्या
द्विनाभर्त्रा गर्हणीयान्यथा भवेत् ॥

अर्थ—पिता माता बहन भ्राता बन्धुओंकी स्त्री सम्बन्धी मातुल इनसे रहित विना भर्ताके स्त्री ना होवे यदि होय तो विना भर्ताके निन्दित होती है ॥

पतिप्रियहितेयुक्तास्वाचाराविजितेन्द्रिया ॥ सेहकीर्ति
मवाप्नोतिमोदतेचोमयासह ॥ रक्षेत्कन्यांपितावित्रांपतिः
पुत्रास्तुवाद्धके । अभावेज्ञातयस्तेषांनस्वातंत्र्यंक्वचि
त्स्त्रियाः ॥

आरै जो स्त्री पतिके प्रियमें हित आचार शुद्ध विजित इंद्रिय सो इस लोकमें सुखको प्राप्त होती है मरनेबाद पार्वतीके लोकमें आनन्द पार्वतीसे करती है ॥ और कन्याको पिता रक्षा करे विवाहीकी पति रक्षा करे वृद्धाकी पुत्र रक्षा करे इनके अभावमें

(२३०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ज्ञाति रक्षा करै अर्थात् स्वतंत्र स्त्री ना हो और वशिष्ठसंहितामें लिखा है ॥

पितारक्षतिकौमारेभर्तारक्षतियौवने । पुत्राश्चस्थाविरेभवे
नस्त्रीस्वातंत्र्यमर्हति ॥ असत्यंसाहसंमायामात्सर्यंचलचिं
त्तता । निर्गुणत्वमशौचत्वंस्त्रीणांदोषाःस्वभावजाः ॥

अर्थात्—झूठ बोलना साहस माया क्रोध चञ्चलता निर्गुण
अपवित्र रहना यह स्त्रियोंके स्वाभाविक दोषहैं ॥

अन्यच्च । पानंदुर्जनसंसर्गःपत्याचविरहोटनम् ।

स्वप्नश्चान्यगृहेवासोनारीणांदूषणानिषट् ॥

अर्थ—मद्यका पीना १ बुरी सोहबत (कुसंगत) २ पतिसे
वियोग ३ देश स्थानोंमें भ्रमण ४ और दूसरेके गृहमें शयन ५
अन्यके गृहमें वास ६ यह षट् दोषोंसे स्त्री दुष्ट होजाती है कारण
इसमें स्वतन्त्रता है इसलिये स्त्रियोंका अपने वशमें रखना उचित है
और मांसका भक्षण स्त्रीका बड़े रोगादि करनेवाला होनेसे वर्जनी-
य है जैसे चिकित्साशास्त्र भावप्रकाशमें लिखाहै (आमिषस्याशनं-
यत्नात्प्रमदा परिवर्जयेत्) अर्थ—मांसका भक्षण स्त्री अवश्य छोड-
दे ॥ और द्वारदेशमें बैठना अर्थात् प्रतिदिन अपने द्वारपर बैठ
और सर्व बातमें हास्य (हंसना) और गवाक्ष (झरोखे) से देखना
बहुत प्रलाप (वृथा वाद करना) यह कुलस्त्रियोंके दोषहैं इसको
व्यासजी लिखते हैं ॥

द्वारोपवेशनंनित्यंगवाक्षेणनिरीक्षणम् ।

असत्प्रलापोहास्यंचदूषणंकुलयोषिताम् ॥

अन्यच्च—

स्त्रीशूद्रोऽनुपनीतश्चवेदमंत्रान्विवर्जयेत् ॥

अर्थ—स्त्रीशूद्र यह वेदमंत्रोंको त्यागदे ॥ इससे पुराण श्रवणा-
ध्ययन तुलसीपूजन हरितालिकाव्रत गौरीपूजन यह शूद्रकमला
करमें देख अवश्य कर्तव्य है और भगवान् पराशरजी लिखतेहैं ।

ऋतुस्नातातुयानारीभर्तारंनोपसर्पति ।सामृतानरकंया
तिविधवाचपुनःपुनः॥ ऋतुस्नातांतुयोभाय्यासन्निधौ
नोपगच्छति।घोरायांभ्रूणहत्यायांयुज्यतेनात्रसंशयः॥

अर्थ—जो स्त्री ऋतुस्नानके अनन्तर अपने भर्तासे संभोग नहीं
करती वह मरनेबाद नरकको प्राप्त होती है और बारंबार विधवा
होती है इसी प्रकार ऋतुकालमें स्वस्थ हो जो पुरुष स्त्रीको नहीं प्राप्त
होता वहभी घोर जो भ्रूणहत्या अथवा गर्भहत्या उसको प्राप्त होताहै
यदि रोगयुक्त हो तो न जानेसे दोष नहीं होता अन्यथा प्रमादसे
जो ना प्राप्त होवे वह पापका अधिकारी अवश्यहै इस लिये ऋतु-
कालमें स्त्रीको भर्तासे संभोग आवश्यक है अन्यथा स्वेच्छासे है ।

पराशरः ।

दरिद्रं व्याधितं धूर्तं भर्तारं यावमन्यते ।

साशुनी जायते मृत्वासूकरी च पुनः पुनः ॥

अर्थ—जो स्त्री निर्धन वा रोगयुक्त वा मूर्ख भर्ताका प्रमादसे तिर-
स्कार करती है वह स्त्री मरकर शुनी (कुत्ती) सूकरीके बारंबार

(२३२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

जन्मके प्राप्त होती है ॥ इसलिये भर्ताका अपमान स्त्रीमात्रको कदाचित् न करना चाहिये ॥

स्मृतिपाराशरः ।

पत्यौजीवतियानारीह्युपोष्यव्रतमाचरेत् ।

आयुष्यंहरतेपत्युःसानारीनरकं व्रजेत् ॥

अर्थ—जो सौभाग्यवती अर्थात् पतिवती स्त्री उपवासका व्रत आचरण करती है वह पतिकी आयुको नष्ट कर मरकर नरकको प्राप्त होती है ॥

मनुः ।

अपृष्टाचैवभर्तारंयानारीकुरुतेव्रतम् ।

सर्वतद्राक्षसान्गच्छेदित्येवंमनुरब्रवीत् ॥

अर्थ—जो स्त्री भर्ताकी आज्ञाविना व्रत नियम दानादि करती है उसका फल राक्षसोंको मिलता है ऐसे मनुजी कहते हैं इस स्मृतिमें मनुजीका आशय है ॥

पाराशरी ।

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतितेऽपतौ ।

पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

अर्थ—नष्ट मृत संन्यस्त क्लीब पतित इन पांच आफतमें स्त्रीको अन्य पति विधान किया है ॥ शंका है कि, एक पतिके मरने पर द्वितीयपति उसके मरनेपै तृतीय चतुर्थ आदि असंख्य स्त्रीको पति कर्तव्य हैं क्योंकि पराशरजी स्वयं लिखते हैं नष्टे मृते इत्यादि उत्तर यह है कि, पति शब्दका क्या अर्थ है यदि तुम कहो

कि पति अर्थात् पाणिग्रहण जिससे करा हो तो हम कहते यह हैं की (पतौ) यह रूप सिद्ध कैसे होता है यदि कहै कि पतिशब्दकी विभक्तिमें (अच्चेः) इस सूत्रसे विसंज्ञक डिको (औत् वीको अत्) हांकर पतौ सिद्ध भया तो हम कहते हैं कि (पतिःसमास एव विसंज्ञः) अर्थात् पतिशब्दकी समासमेंही वि संज्ञा होती है तो यहां समास नहीं एकही शब्द है ॥ और केवल पतिशब्दका समर्था विभक्तिमें (पत्यौ) यह शब्द बनता है ॥ इसलिये यहां अमिद्ध असंस्कृत पति शब्दके प्रयोगसे भगवान् पराशरका यही आशय है कि, असंस्कृत अर्थात् जिसका पाणिग्रहण न हो केवल बाहुमान से पतिहां अर्थात् बाग्दान मात्र कियाहो उस पतिको नष्ट मृत संन्यस्त क्रीव होनेपर और पति स्त्रीको कर्तव्य है ॥ और यह बात आचारसेभी सनातन सिद्ध है ॥ यदि आप यह शंका करें कि भगवान् पराशरजीने यह अशुद्ध (पतौ) प्रयोग लिखा क्यों वह हमारे तुम्हारे सदृश थे वह तो आचार्य धर्मशास्त्रके मुख्य हैं तो इसका उत्तर देते हैं कि यह जो आपको पूर्वाक्त कहा है सो उनका आशय इस (पतौ) शब्दमेंही मालूम होता है ॥ महाशय वह भगवान् पराशरजी तो ठीक २ लिखगये परन्तु आपकी समझमेंही गडबड है ॥ पराशरजीने नञ् तत्पुरुष समास पति शब्दकी संज्ञा कर (अपतौ) यह शब्द सिद्ध संस्कृत लिखा है ॥ यथा न पतिः अपतिः तस्मिन् अपतौ पतिभिन्ने पति-सदृशे ईषत्पतावित्यर्थः ॥ तस्मिंश्च नष्टे मृते सति स्त्रीणामन्यः

(२३४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

पतिर्विधेय इति ॥ ऐसे पराशरजी अपने आशयको लिखते हैं यदि तुम कहौ कि वहाँ तो 'क्रीवे च पतिते पतौ' ऐसा लिखा है अपति तो लिखा नहीं ॥ उत्तर—महात्मन् यहां पररूप 'एङः पादान्तादति' इस सूत्रसे (पतिते अपतौ) अकारका पररूप भया है ॥ और आगे द्वितीय श्लोकमें भी इस स्मृतिश्लोकको प्रगट करते हैं ॥

मृतेभर्तारियानारीब्रह्मचर्यव्रतेस्थिता ।

सामृतालभतेस्वर्गयथातेब्रह्मचारिणः ॥

अर्थ—जो स्त्री पतिकी मृत्युपर ब्रह्मचर्य व्रतको धारण करती है वह मृत्यु होनेपर ब्रह्मचारीवत स्वर्गको प्राप्त होती है इसलिये पतिशब्दसे असंस्कृत अर्थात् वाग्दान राज कहा है ॥ तो उक्तदोष न भया नहीं तो पूर्वाक्त व्यर्थ होता है ॥ और इस वाक्यकी दृढताके लिये और भी प्रमाण देते हैं ॥

तिस्रःकोट्योर्धकोटीचयानिलोमानिमानवे

तावत्कालं वसेत्स्वर्गं भर्तारियानुगच्छति ॥

व्यालग्राहीयथाव्यालंबलादुद्धरतेविलात्

तद्भर्तारमादाय तेनैव सहमोदते ॥

पुरुषेणापिचोक्त्वायादृष्टावाकुद्धचक्षुषा

सुप्रसन्नमुखी भर्तुः सानारीधर्मभाजनम् ॥

चितौपरिष्वज्यविचेतनंपतिं

प्रियाहियासुञ्चतिदेहमात्मनः ।

कृत्वापिपापंशतलक्षमप्यसौ पतिंगृहीत्वासुरलोकमाप्नुयात् ॥

इत्यादि अनेक प्रमाण सतीविधानके व्यर्थ होते हैं और 'दरिद्रं व्याधितंधूर्त' (पत्यौजीवति) इत्यादि (इमानारीरविधवा ऋ० मंडल १.० सू० ८५) इत्यादि अनेक वेदमंत्रोंसे विधवाविवाह और उपपतिर्स्वीकार (जारसे मैत्री) निषिद्ध है यह मने विवाहका अंग समझकर साथ प्रमाणोंके स्पष्ट भाषामें नवीपकारके लिये स्त्रियोंका आचार दिङ्मात्र लिखा है जिन महाशयोंको विशेष आकांक्षा हो वह मन्वादि धर्मशास्त्र ऋग्वेदादिमें अच्छीतरह देखलें ॥ विस्तारभयसे बहुत नहीं लिखा ॥ इसका प्रचार अवश्य धर्माभि-
लार्थी पुरुषोंको उचित है ॥ इतिश्रीकपूरस्थलनिवासिगौतमगोत्र
(शोर्गि) अन्वयालंकरण-द्वयज-दुनिचन्द्रात्मज-पण्डितविष्णुदत्तवैदि
ककृतःस्त्रीणामाचारःसमाप्तः ॥ शुभम् ॥ इत्यष्टमप्रकरणंसमाप्तम् ॥

अथ नवमंप्रकरणम् ।

(रजस्वलाकृत्यम्)

अथ रजस्वलास्वरूपम् ।

भावप्रकाशे—द्वादशाद्वत्सरादूर्ध्वमापञ्चाशत्समाः स्त्रियाः । मासिमासिभगद्वारात्प्रकृत्यैवातर्वंसवेत् ॥ आर्तवस्त्रावदिवसादृतुः षोडशरात्रयः । गर्भग्रहणयोग्यस्तु सएवसमयःस्मृतः

(२३६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

याज्ञवल्क्येनाप्युक्तम् ।

षोडशर्तुनिशाःस्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत् । ब्रह्म
चार्यैवपर्वण्याद्याश्चतस्रश्चवर्जयेत् ॥ एवंगच्छन्स्त्रियंक्षा
मामघामूलंचवर्जयेत् । सुस्थइन्दौसकृत्पुत्रंलक्षण्यंज
नयेत्पुमान् ॥ सर्वासामेवचतुर्वर्णस्त्रीणांसर्ववादिसम्म
तःपूर्वोक्तःसमयः । ग्रंथांतरेविशेषः । तद्यथा । स्नान
दिवसादूर्ध्वं द्वादशपरिमितरात्रावधिर्ब्राह्मण्याः । दश
रात्रावधिः क्षत्रियायाः । अष्टरात्रावधिर्वैश्यायाः । षडा
त्रावधिःशूद्रायागर्भधारणेशक्तिरिति । रजस्वलास्व
रूपमुक्त्वानियमानाहभावमिश्रःप्रकाशे ॥ आर्तवस्त्राव
दिवसादहिंसाब्रह्मचारिणी । शयीतदर्भशय्यायांपश्येद
पिपतिंनचाकरेशरावपर्णेवाहविष्यंत्र्यहमाचरेत् । अ
श्रुपातंनखच्छेदमभ्यंगमनुलेपनम् ॥ नेत्रयोरञ्जनंस्ना
नंदिवास्वापंप्रधावनम् । अत्युच्चशब्दश्रवणंहसनंवहु
भाषणम् ॥ आयासंभूमिखननंप्रवातञ्चविवर्जयेत् ।
इममेवाशयंयथाहभगवान्धन्वन्तरिःसुश्रुते ॥ ऋतौ
प्रथमदिवसात्प्रभृतिब्रह्मचारिणी दिवास्वप्नाश्रुपातस्ना
नानुलेपनाभ्यङ्गलंकारमाल्यनखच्छेदनप्रधावनहसन
कथनातिशब्दश्रवणांबरलेखनायासान्परिहरेत् । दर्भ
संस्तरशाशिनीं करतलशरावपर्णान्यतमशरावभाजनांह
विष्याशिनींत्र्यहं चभर्तासंरक्षेदिति ॥ एतान्नियमानुल्लंघ्य
यावर्ततेताम्प्रतिदोषमाहभावप्रकाशेभावमिश्रः ॥ यथा—

अज्ञानाद्वाप्रमादाद्बालोभाद्वादेवतश्चवा । साचेत्कुर्या
 त्रिषिद्धानिगर्भोदोषांस्तदाप्नुयात् ॥ एतस्यारोदना
 द्वर्भोभवेद्विकृतलोचनः । नखच्छेदेनकुनखीकुष्ठी
 त्वभ्यंगतोभवेत् ॥ अनुलेपात्तथास्नानाद्दुःशीलोऽ
 भ्यञ्जनादहृक् । स्वापशीलोदिवास्वापाच्चञ्चलः
 स्यात्प्रधावनात् ॥ अत्युच्चशब्दश्रवणाद्बधिरःखलुजा
 यते । तालुदन्तोष्ठजिह्वासुश्यावोहसनतोभवेत् ॥ प्रत्या
 पीभूर्गिकथनादुन्मत्तस्तुपरिश्रमात् । स्वलतेभूमिख
 ननादुन्मत्तोवातसेवनात् ॥ अथचतुर्थदिवसानंतरंस्व
 तिरक्तेगच्छतःपुरुषस्य दोषमाह भगवाञ्छुश्रुतः ॥
 किञ्चतत्रप्रथमदिवसे ऋतुमत्यां मैथुनगमनमनायुष्यं
 पुंसांभवति । यश्चतत्राधीयतेगर्भःसोऽप्रसवमानोवि
 मुच्यतेप्राणैः ॥ द्वितीयेत्येवं (सूतिकागृहेवा) तृतीये
 प्येवमसम्पूर्णाङ्गोऽल्पायुश्चभवति ॥ यथानद्यांप्रति
 स्रोतः द्रव्यंप्रक्षिप्तंप्रतिनिवर्तते नोर्द्ध्वंगच्छति तद्वेदेव
 द्रष्टव्यम् ॥ तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रंपरिहरेत् ॥
 चतुर्थेतुसम्पूर्णाङ्गोदीर्घायुश्चभवति ॥ इममेवाशयं
 भावप्रकाशे भावमिश्रांपि भर्तृकृत्येविशिनष्टि दृष्टा
 न्तेन ॥ यथा—प्रवहत्सलिलेक्षिप्तंद्रव्यंगच्छत्यधोय
 था ॥ तथावहतिरक्तेतुक्षिप्तंवीर्यमधोव्रजेत् ॥ (अतः)
 आयुःक्षयभयाद्भर्ताप्रथमेदिवसेस्त्रियम् । द्वितीयेपि
 दिनैरत्येत्यजेद्वतुमतींतथा ॥ तत्र यश्चाहितोगर्भोजा

(२३८)

विवाहपद्धति भा० टी० ।

यमानोनजीवति । आहितोयस्तृतीयेह्निस्वल्पायुर्वि
कलाङ्गकः ॥ अतश्चतुर्थीषष्ठीस्यादष्टमादशमीत
था । द्वादशीवापियारात्रिस्तस्यांतांविधिनाभजेत् ॥
विधिनागर्भाधानोक्तविधानेनेत्यर्थः ॥ अत्रोत्तरोत्तरंविद्या
दायुरारोग्यमेवच । प्रजासौभाग्यमैश्वर्यबलंचाभिग
मात्फलम् ॥ धर्मशास्त्रेप्रथमरात्रिचतुष्टयगमनेनिषेधमा
हपराशरः ॥ प्रथमेऽहनिचाण्डालीद्वितीयेब्रह्मघातिनी ।
तृतीयेरजकीपुंसायथावज्यांतथाङ्गना ॥ व्याधिमतीच
वज्यां ॥ तत्रस्त्रीणांव्याधयःप्रदरादयस्तद्युक्ता निषिद्धा ।
तत्रापिविशेषाद्योनिरोगिणी अशुद्धगर्भदोषमाविष्करो-
तिप्रकाशेभावमिश्रः ॥ दम्पत्योःकुष्ठबाहुल्याद्दुष्टशो
णितशुक्रयोः । यदपत्यंतयोर्जातंज्ञेयंतदपिकुष्टि-
तमिति ॥ गर्भाधानेऽयोग्यंपुरुषंस्त्रियश्चाहसएव ॥
अत्याशितोऽधृतिःक्षुद्रान्सव्यथाङ्गःपिपासितः । बालो
वृद्धोऽन्यवेगार्तस्त्यजेद्रोगीचमैथुनम् ॥ रजस्वला
व्याधिमतीविशेषाद्योनिरोगिणी । वयोधिकाचनि-
ष्कामामलिनागर्भिणीतथा ॥ एतामांसङ्गमात्पुंसां वैगु
ण्यानिभवन्तिहि ।

युग्मरात्रीणांफलमाह ।

युग्मासुपुत्राजायन्तेस्त्रियोऽयुग्मासुरात्रिषु ॥ तत्रस्त्रीपु
रुषयोःसंभोगोयादृगुक्तस्तादृगुच्यते ॥ स्नातश्चंदनलि
प्ताङ्गःसुगन्धिःसुमनोर्चितः । भुक्तवृष्यःसुवसनःसुवेषः

समलङ्कृतः ॥ ताम्बूलवदनस्तस्यामनुरक्तोऽधिकस्म
रः । पुत्रार्थीपुरुषोनारीमुपेयाच्छयनेशुभे ॥ भार्यापि
पुरुषस्यगुणैर्युक्ताविहितन्यूनभोजना॥नारीऋतुमतीपुं
सासंगच्छेत्सुतार्थिनी॥पूर्वपश्येदतुस्नाता यादृशं नरमं
गना ॥ तादृशञ्जनयेत्पुत्रमतःपश्येत्पतिंप्रियम् ॥
प्रियमितिभर्तय्यासन्नेपुत्रादिकमपिपश्येत् ॥ अतःकिं
सिद्धम् ॥ पतिंस्नेहदृष्ट्यातथापुत्रंपश्येत् । असामीप्ये
एषांभास्करंपश्येत् । एवमंगलशब्दञ्चाश्रौषीत् ।
मधुगन्धंभक्षयेत् ॥ भूपणवस्त्रादिकंसंधार्य्यरात्रौविहि
तन्यूनभोजनासुतार्थिनीस्त्रीसुमुहूर्तेसंगच्छेत् ॥ ए
तेनदिवसगमनंनिषिद्धंकर्मकाण्डचिकित्साशास्त्रे ॥ य
थाचगृह्यसूत्रेभगवान्पास्करः ॥ (यदिदिवामै
थुनंत्रजेत्क्रीवाऽल्पवीर्याअल्पायुषश्चप्रमूयन्तेतस्मादे
तद्दर्जयेत्प्रजाकामोगृहीति) भावप्रकाशचिकित्सा
शास्त्रेभावमिश्रोप्याह । आयुःक्षयभयाद्विद्वान्नाहि
सेवेतकामिनीम् । अवशोयदिसेवेततदाग्रीष्मवस
न्तयोः । ग्रीष्मवसन्तयोरित्यत्रभोगार्थं सेवेतनतुसुता
र्थम् अन्यथातस्मादेतद्दर्जयेत्प्रजाकाम इतिव्यर्थस्या
त् ॥ आवश्यकेभोगमपि ॥ गर्भाधानोक्तविधिनास
ङ्गच्छेदित्युक्तेगर्भाधानमुहूर्तमाहमुहूर्तचिंतामणौरामः
यथा—

हस्तानिलाश्विमृगमैत्रवसुध्रुवाख्यैः शक्रान्वितैः शुभ

(२४०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

तिथौशुभवासरेच ॥ स्नायादथार्तववतीमृगपौष्णवायु
हस्ताश्विधातृभिरंलभतेचगर्भम् ॥ यथाहस्तस्वा
तीअश्विनीमृगशिरअनुराधाउत्तरभाद्रपदारोहिणीज्येष्ठा
शुभतिथिरिक्तावर्जितशुभवारसौरारार्किविरहितदिनेषु
जस्वलायाःस्नानंविधेयम् ॥ सुस्नातावस्त्रभूषणसंयुता
रात्रौमृगशिररेवतीस्वातिहस्तअश्विनीरोहिणीएषुभेषुन
मनात्स्त्रीगर्भलभते ॥

(गमनेनिषेधमाहसएव)

गण्डान्तंत्रिविधंत्यजेत्रिधनजन्मक्षेत्रमूलान्तकं दास्रंपौ
ष्णमथोपरागदिवसंपातंतथावैधृतिम् ॥ पित्रोःश्राद्धदिनं
दिवाचपरिघाद्यर्द्धस्वपत्नीगमे भान्युत्पातहतानिमृत्यु
भवनंजन्मक्षतः पापभम् ॥

तद्यथा ।

गण्डान्तंचतुर्घटिकात्मकंज्येष्ठाशतभिषारेवतीतेषांतथा
तिथिगण्डान्तंद्विघटिकात्मकंतथालग्रगण्डान्तंनवांशा
र्द्धघट्यात्मकम् ॥ जन्मक्षतअष्टमनक्षत्रंनिधनसंज्ञकंमू
लांत्यमश्विनीरेवतीतथोपरागः सूर्यचन्द्रग्रहणम् ।
(उपरागोग्रहोराहुग्रस्तेत्विन्दौचंपृष्णिच) व्यतीपातवै
धृतियोगौपितुःश्राद्धदिनं तथा दिनेपरिघाद्यर्द्धमेतानिनक्ष
त्रयोगादिवसानि स्वस्त्रियंसंतानार्थं गच्छतापुरुषेणअव
श्यंवर्जनीयानि ॥ ऋतुमतीस्त्रीमनसापिमैथुनचितनंन

कुर्यात्। उक्तञ्च बृहन्नारदीये। मैथुनं मानसं वापि वाचिकं दे-
वतार्चनम् । वर्जयेच्च नमस्कारं देवतानां रजस्वलेति ॥
अथ रजस्वलायाः ऋतुशुद्धयन्तरं पतिरेव द्रव्यः असमीपे
पत्युः पुत्रमुखं द्रष्टव्यं वा सूर्यदर्शनं विधेयं नान्यपुरुषं मनसा
वाचास्मरेत् च क्षुपापि न पश्येत् ॥ उक्तमिदं बृहन्नारदी-
ये ॥ स्नात्वान्यं पुरुषं नाग्निं पश्येच्च रजस्वला । ईक्षेत्
भास्करं देवं ब्रह्म कूर्चैततः पिबेत् ॥ ब्रह्म कूर्चैः पंचगव्यं स्नाना-
नन्तरं शुद्धयर्थं पातव्यम् ॥

भाषामें रजस्वला स्त्रीका कर्तव्य लिखते हैं—भावप्र० में लिखा है कि, बारह वर्षके उपरांत १० वर्षतक स्त्रीके मास २ में भगद्वारा स्वभावमेही रुधिर ऋतु आता है ॥ और ऋतुके प्रथम दिनसे ले १६ रात्रिपर्यन्त गर्भ होनेके दिन होते हैं ॥ इसलिये उन दिनोंमें पर्वणि ८ । १४ । ११ । १५ अनावस यह तिथि और मघा मूल नक्षत्र छोड़ चंद्रानुकूल हो तो गमन करे और रजस्वला स्त्री ३ तीन दिनपर्यन्त यह नियम धारण करे कि, हिंसा मतकरे ब्रह्मचारिणी हो पृथ्वीपर कुशा बिछायकर शयन करे पतिके दर्शन न करे ॥ हाथमें वा माटीके बर्तनमें डाल भात कोमल अन्न एकवार खाय तीनदिन नेत्रोंमें सुरमा स्नान दिनका शयन धावन बड़ा शब्द-श्रवण करन हास्य बहुत बोलना कसरत पृथिवीका खोदना वायुसेवन छोड़ देवे ॥ अन्यथा जो स्त्री अज्ञानसे वा प्रमादसे वा लोभसे अथवा जीवके कर्मसे इन कामोंको करती है तो गर्भ दोषोंको प्राप्त होती है ॥ अर्थात् जो स्त्री ऋतुकालमें

(२४२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

रोदन करती है उसका गर्भ नेत्ररोगी होता है यदि नख कटवावे तो गर्भस्थबालकके नख खराब होजाते हैं ॥ यदि स्त्री अङ्ग उबटना मर्दनादि करे तो बालकको कुष्ठ होजाता है ॥ चन्दनलेप स्नानादि करनेसे बालक सदैव रोगी सा होता है अंजन करनेसे नेत्रहीन अन्ध होजाताहै दिनके सोनेसे शयनशील होता है दौड़नेसे चंचल होता है बडा ऊंचा शब्द श्रवण करनेसे बालक बहिरा होता है अतिहास्यसे तालु दांत ओष्ठसे काला होजाता है बहुत भाषणसे बकवादी बालक होता है ॥ कसरत और वायुके सेवनसे उन्मत्त (पागल) बालक होजाता है ॥ माटी खादनेसे जंघोंमें ताकत नहीं होती लँगडा होता है इसलिये नियम पालन करना चाहिये ॥

अन्यच्च—

ऋतुकालके तीन दिवसोंमें स्त्रीसंभोगकरना आयुके नष्ट करने वाला तेजहानिकारक अतिनिषिद्ध है उनमें यदि गर्भ कराजाय तो गिर जाता है ॥ ऐसेही दूसरे दिन (और प्रमृत स्थानमें) तृतीय दिनमें हीनांग अल्पायु होता है ॥ दृष्टांत जैसे वेगयुक्त नदीके प्रवाहमें फेंकी हुई वस्तु ऊपरको नहीं जाती अर्थात् नीचेकोही गिर जाती है वैसे यहांभी समुद्रें इसलिये चतुर्थी ४ षष्ठी ६ अष्टमी ८ दशमी १० द्वादशी १२ रात्रिमें स्त्रीको गर्भ हानिसे क्रमपूर्वक आयु ४ आरोग्य ६ ऐश्वर्य ६ प्रजा ८ साभाग्य १० बल १२ पूर्ण बालकमें होता है ॥ और प्रथम दिन स्त्री चांडाली दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी तीसरे दिनमें रजकी के समान होती है इन दिनों

में तथा व्याधियोनि रोगादियुक्त मर्लान तथा गर्भिणी निष्काम स्त्रीसे भोग न करे ॥ यदि स्त्री-पुरुषको कुष्ठ हो तो उनके दुष्ट वीर्य ऋतुसे उत्पन्न गर्भभी समयमें कुष्ठीं हांजाता है इसलिये इनको छोड़देवें और यह पुरुष मैथुन न करे, जो बहुत भोजन करचुका है धैर्यरहित क्षुधायुक्त रोगी तृषायुक्त बालक १६ वर्षके नीचे वृद्ध ८० वर्षके ऊपर जो प्रथम किसी स्त्रीसे भोग करचुका हो यह पुरुष मैथुन न करे ॥ युग्मों (४।६। ८। १०। १२ वें दिनों) में भोग करनेसे पुत्र होता है अयुग्म (१। ५। ७। ९। ११। १३ वें दिनों) में भोग करनेसे कन्या होती है और वीर्य अधिक होनेसे पुत्र ऋतु अधिक होनेसे कन्या बराबर होनेसे नपुंसक होता है ।

संभोगप्रकारः ।

स्नानकर चन्दन लगाय गन्ध धारणकर पुष्पमाला पहिन वृष्य अन्न दुग्ध घृतादि सेवनकर सुन्दर वस्त्र भूषण धारणकर ताम्बूलभक्षणकर ऐंसेही अपनी स्त्रीसे प्रीतिवाला अतिकामयुक्त पुरुष पुत्रकी इच्छाके लिये शुभपर्यकमें शयन करे नतु कामार्थ, स्त्रीभी पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त अल्प भोजनकर ऋतुसे शुद्ध हो उक्त दिनोंमें पुत्रकी इच्छाकर पुरुषके साथ भोग करे । ऋतुस्नात स्त्री जैसे मनुष्यका दर्शन करे वैसेही सन्तान उत्पन्न करतीहै इसलिये पतिको वा पुत्रको देखे यदि वह समीप न हों तो सूर्यभगवान्का दर्शन करे ॥

संभोगनिषेधः ।

आयुके क्षयके भयसे मनुष्य दिनको स्त्रीसे भोग न करे यदि दिनमें गर्भ रहेगा तो अल्पायुवाला कमताकत नपुंसक मूर्ख होगा

(२४४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

इस लिये गृहस्थी लोग दिनको मैथुन न करे ॥ कामार्थ मनुष्य-
अवशहोआ शीष्म वसंतमें भोग करे यह भी गौण वाक्य है परन्तु
दिनमें भोग न करना यही मुख्य है ॥

अथ गर्भाधानका मूहुर्त ।

हस्त स्वाती अश्विनी मृगशिर अनुराधा उत्तराभाद्रपदा रोहिणी
ज्येष्ठा रिक्ता विना शुभतिथि शनि सूर्य मंगल विना वारको रज-
स्वला स्नानकर भूषणादियुक्त रात्रिमें मृगशिर रेवती स्वाती हस्त
अश्विनी रोहिणी इन नक्षत्रोंमें संभोग करनेसे गर्भधारण कर्ती है ॥

(निषिद्ध काल)

गंडकी ४ घटी अंतकी ज्येष्ठा शतभिषादि लग्नगंडांत जन्मन-
क्षत्रसे अष्टम नक्षत्र अष्टम राशि मूल अश्विनी रेवती ग्रहण व्यती-
पात वैधृति पिताका श्राद्धदिन परिघका अर्धभाग यह पूर्वोक्त नक्ष-
त्रादि संतानकी इच्छासे अपनी स्त्रीसे भोग करनेवाले मनुष्यको
अवश्य त्याज्य है ॥ ऋतुकालमें स्त्री मनसे भी मैथुनकी इच्छा न
करे ॥ क्यों कि अन्यथा दुष्टसंतान होता है ॥ ऋतुके अंतमें पंच
गव्य पानकर संभोगादि विधि करे ॥ यह संक्षेपसे रजस्वलावि-
धान लिखा है । प्रार्थनेयं दैवज्ञदुनिचंद्रात्मज पं० विष्णुदत्तवैदिक-
शर्मणः ।

इति श्रीकर्पूरस्थलनिवासिगौतमगोत्र (शोरि) अन्व
यालंकृतदैवज्ञदुनिचंद्रात्मजश्रीमच्छ्रीपण्डितविष्णुदत्त
वैदिककृतं रजस्वलाकृत्यं समाप्तम् ॥ शुभमस्तु श्रीराम
चंद्रप्रसादात् ॥ समाप्तं चेदं नवमं प्रकरणम् ॥

अथ प्रकीर्णाध्यायःप्रारभ्यते ।

अथविवाहेलग्नादिद्वादशस्थानेसूर्यादीनांफलमाह ॥
 अथसूर्यस्य फ०॥ मृति १ विधनतारधनं ३ सहजसं
 क्षयः ४ पुत्रसूः ५। प्रियस्य परमोन्नति ६ विधवता ७
 चिरंजीविता ८ ॥ शुभाकृति ९ रशीलता १० विविधल
 विधि ११ रर्थक्षयः १२। तनुप्रभृतिभास्करे सतिफलंम
 वेद्योषिताम् ॥ १॥ अथ चंद्रस्य फ० ॥ प्राणस्य च्युति १ रर्थसंप
 २ दुभयप्रीतिश्च ३ बंधून्नति ४ वैपुल्यं च ५ सवैरता
 च ६ नियतं सापत्न्य ७ मात्मव्यथा ८ ॥ स्त्रीसृतिः
 ९ परकर्मकृत् १० स्वमधिका ११ लब्धिक्षयः १२
 संपदां स्यादिदाबुदयात्सुखेतुकथितोबंधुक्षयः कै
 श्वन ॥ २ ॥ अथ भौमस्य फ० ॥ पंचत्वञ्च १ दरिद्रता
 २ सधनता ३ सुभ्रातृवैरं ४ सुतानुत्पत्ति ५ दयितो
 न्नतिः ६ कुचरिता ७ सक्तिश्चरत्कच्युतिः ८ ॥ स्याद्भर्तृ
 प्रतिकूलता ९ऽऽमिपरुचि १० वित्ताप्ति ११ रर्थक्षयो
 १२ नारीणामुदयादिवर्तिनिमहीपुत्रेविवाहोत्सवे ॥ ३॥
 अथबुधस्यफलम् ॥ सौम्येभर्तृपरायणा १ स्वगृहिणी २
 स्यात्स्वामिपक्षार्चिता ३ बंधुस्त्वं च ४ सुतान्विता च
 ५ विगत ६ प्रद्वेषिपक्षा तथा ७ ॥ वंध्या च ८ स्वजनो
 जिज्ञतातुकृतिनी ९ मायाविनी च क्रमाद् १० भूरिद्र
 व्यवती ११ बहुव्यय १२ परालग्नादिभावस्थिते ॥

(२४६)

विवाहपद्धति भा० टी० ।

अथ गुरुफलम् ।

स्वाभीष्टा १ धनभागिनी २ प्रमुदिता ३ द्रव्यान्वि
ता ४ स्वात्मजा ५ नष्टारि ६ दीयितोज्झिता ७ च
विगतप्राणा ८ रताश्रेयसि ९ ॥ सिद्धार्था १० विभवा
न्विता ११ च विधना १२ भावेषु मूर्त्यादिषु ॥

अथशुक्रफलम् ।

मनोभीष्टाभर्तु १ धनचयपरा २ देवरगता ३ कुले
ष्टा ४ सत्पुत्रा ५ विहितबहुवैरा ६ न्यनिग्ता ७ ॥
व्यसु ८ धर्मैष्टास्या ९ कुशलनिग्ता १० भूरिविभ
वा ११ निग्ता १२ शुक्रैस्याद्रवतिखलुलग्नप्रभृतिषु ॥

अथ शनिफलम् ।

स्यात्पुंश्चल्य १ धना २ ऽर्थवत्य ३ थयशोहीना ४
चहृद्रोगिणी ५ शत्रुघ्ना ६ निजगर्भपाटनरता ७
नीरुक्च८भग्नव्रता ९ ॥ दुःशीला १० बहुवित्तसंग्रह
परा ११ पानप्रसक्तांगना १२ स्याल्लघ्नाद्रविनंदनेन
शिखिनास्वर्भानुनाचक्रमात् ॥ शनिवद्राहुकेत्वादेगपि
फलंज्ञेयम् ॥

इति श्रीकर्पूरस्थलीयदैवज्ञदुनिचंद्रात्मज (शोरि)
पण्डितविष्णुदत्तवैदिकसंगृहीतं विवाहकुंडलीस्थित
ग्रहफलं समाप्तम् ॥ समाप्तश्चायंप्रकीर्णोध्यायः ॥

शुभमस्तु श्रीगणेशचंद्रप्रसादात्

अथार्कविवाहः ।



प्रयोगरत्नेमात्स्ये ।

ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ तृतीयांमानुषींनैवच
तुर्थीयःसमुद्रहेत् । पुत्रपौत्रादिसंपन्नःकुटुंबीसाग्निको
वरः ॥ उद्गहेद्रतिसिद्धयर्थंतृतीयांनकदाचन । मोहाद्
ज्ञानतोवापि यदिगच्छेत्तुमानुषीम् ॥ नश्यत्येवनसं
देहोगर्गम्य वचनंयथा ।

तत्रैवसंग्रहे—

तृतीयांचैवविवहेत्तर्हिसाविधवाभवेत् । चतुर्थ्यादिविवा
हार्थंतृतीयेऽर्कसमुद्रहेत् ॥ आदित्यदिवमेवापिहस्तर्क्षेवा शनै-
श्वरे ॥ शुभेदिनेवापूर्वाह्निकुर्यादर्कविवाहकम् ॥

व्यासः—स्नात्वालंकृतवासास्तुरक्तगंधादिभूषितम् ॥ सपु
ष्पफलशाखैकमर्कगुलमंसमाश्रयेत् । स लक्षणेन संयुक्तमर्कं सं
स्थाप्ययत्नतः । अर्ककन्याप्रदानार्थमाचार्यकल्पयेत्पुरा ॥
अर्कसन्निधिमागत्यतत्र स्वस्त्यादिवचयेत् । नांदीश्राद्धंहिर
ण्येनह्यष्टवर्गान्प्रपूजयेत् ॥ पूजयेन्मधुपर्केणपरंविप्रस्यहस्त
तः । यज्ञोपवीतंवस्त्रंचहस्तकर्णादिभूषणम् । उष्णीषगन्ध
माल्यादिवरायास्मैप्रदापयेत् । स्वशाखोक्तप्रकारेणमधुप
र्कसमाचरेत् ॥

(२४८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ब्राह्मे-ग्रामात्प्राच्यामुदीच्यांवासपुष्पफलसंयुतम् । परीक्ष्य
यत्नतोधस्तात्स्थण्डिलादियथाविधि ॥ कुर्यादितिशेषः ॥
कृत्वाकर्मपुरतस्तिष्ठन्प्रार्थयेतद्विजोत्तमः । त्रिलोकवासिन्स
प्ताश्वच्छाययासहितोरवे ॥ तृतीयोद्वाहजंदोषनिवारयसुखंकु
रु । तत्राध्यारोथदेवेशंछाययासहितंरविम् ॥ वस्त्रैर्माल्यैस्तथा
गन्धैस्तन्मंत्रेणैवपूजयेत् । तत्रैवश्वेतवर्णेनतथाकार्पासतंतु
भिः ॥ गन्धपुष्पैःसमभ्यर्च्यअंबिलगैरभिपिच्यच । गुडौदनं
तुनैवेद्यंताम्बूलंचसमर्पयेत् ॥

व्यासः-अर्कप्रदक्षिणीकुर्वन्नपेन्मंत्रमिमंबुधः । ममप्रीतिक
रत्नेयंमयासृष्टापुरातनी ॥ अर्कजाब्रह्मणासृष्टाअस्माकंप्रति
रक्षतु । पुनःप्रदक्षिणीकुर्यान्मंत्रेणानेनधर्मवित् ॥नमस्तेमंगले
देवि नमःसवितुरात्मजे । त्राहिमांकृपयादेविपत्नीत्वमेइहाग
ता ॥ अर्कत्वंब्रह्मणासृष्टःसर्वप्राणिहितायच । वृक्षाणामादिभूत
स्त्वंदेवानांप्रीतिवर्द्धनः ॥ तृतीयोद्वाहजंपापमृत्युंचाशुविनाश
य । ततश्चक्रन्यावरणंत्रिपुरुषंकुलमुद्धरेत् ॥ आदित्यःसविताचा
र्कपुत्रीपौत्रीचनप्त्रिका । गोत्रंकाश्यप इत्युक्तंलोकेलौकिकमा
चरेत् ॥ सुमुहूर्तेनिरीक्षेतस्वस्तिसूक्तमुदीरयन् । आशीर्भिःसहि
तैःकुर्यादाचार्यप्रमुखैर्द्विजैः ॥ अथाचार्यसमाहूयविधिनातन्मु
खाच्चताम् । प्रतिगृह्यततोहोमंगृह्योक्तविधिनाचरेत् ॥

व्यासः-अर्ककन्यामिमांविप्रयथाशक्तिविभूषिताम् । गोत्राय
शर्मणेतुभ्यंदत्तांविप्रसमाश्रय ॥ अंजल्यक्षतकर्मणि कृत्वा

कंकणपूर्वकम् ॥ यावत्पंचवृतासूत्रं तावदर्कप्रवेष्टयेत् ।
स्वशाखोक्तेन मंत्रेण गायत्र्या वाथ वा जपेत् । पंचीकृत्य पुनः सू-
त्रं स्कंधे बध्नाति मन्त्रतः ॥ बृहत्सामेति मंत्रेण सूत्ररक्षां प्रकल्प-
येत् । अर्कस्य पुरतः पश्चाद्दक्षिणोत्तरतस्तथा । कुम्भांश्च निक्षि-
पेत् पश्चदाग्नेयादिचतुष्टये । सवस्त्रं प्रतिकुम्भं च त्रिसूत्रेणैव वे-
ष्टयेत् ॥ हरिद्रागन्धसंयुक्तं पूरयञ्छीतलंजलम् । प्रतिकुम्भं
महाविष्णुं संपूज्य परमेश्वरम् । पाद्यार्घादिनिवेद्यान्तं कुर्यान्ना-
मैवमंत्रवित् ॥

अत्रशौनकोक्तहोमप्रकारः ।

तृतीयेस्त्रीविवाहे तु संप्राप्ते पुरुषस्य च । आर्कविवाहं वक्ष्यामि शौन-
कोहं विधानतः ॥ अर्कसन्निधिमागत्य तत्र स्वस्त्यादिवाचयेत् ।
नान्दीश्राद्धं प्रकुर्वीत स्थंडिलं च प्रकल्पयेत् ॥ सूर्यया अर्कमभ्य-
र्च्य गंधपुष्पाक्षतादिभिः ॥ सूर्यया सूर्यदेवत्यया आकृष्णेनेत्यन-
या । स्वयंचालंकृतस्तद्ब्रह्ममाल्यादिभिः शुभैः । अर्कस्यो-
त्तरदेशे तु समन्वारब्ध एतया ॥ एतयार्ककन्यया । उल्लेखना-
दिकं कुर्यादाघारांतंततः परम् । आज्याहुतिं च जुहुयात्संगोभिर-
नयैकया ॥ यस्मेत्वाकामकामायेत्येतयर्चांततः परम् । व्यस्ताभि-
श्च समस्ताभिस्ततश्च स्विष्टकृद्भवेत्परिषेचनपर्यंतमेयाश्चत्यादि-
कं क्रमात् । प्रार्थनामंत्रादिविशेषमाहव्यासः । पुनः प्रदक्षिणं कृत्वा-
मंत्रमेतमुदीरयेत् । मया कृतमिदं कर्म स्थावरेषु जरायुणा ॥ अर्का-
पत्यानि नो देहितत्सर्वं क्षंतुमर्हसि ॥ इत्युक्त्वा शांतिं सूक्तानि ज-

(२५०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

ध्वातं विसृजेत्पुनः ॥ गोयुग्मं दक्षिणां दद्यादाचार्याय च भक्ति
तः ॥ इतरेभ्योपि विप्रेभ्यो दक्षिणां चापि शक्तितः । तत्सर्वं गु
खेदद्यादंते पुण्याहमाचरेत् ॥

॥ अथ प्रयोगविधिः ॥

तृतीयो द्वाहात्प्राग्दिनचतुष्टयाधिकव्यवहिते रविवारेशनि
वारे हस्तनक्षत्रेशु भदिनांतरे वा ग्रामात्प्राच्यामुदीच्यां वा पुष्पफल
युतार्काधस्तात्स्थण्डिलं कृत्वार्कपश्चिमत उपविश्य मासपक्षाद्यु
ल्लिख्य मम तृतीयमानुषी विवाहजदोषापनुत्त्यर्थमर्कविवाहं करि
ष्यइति संकल्प्य गणेशपूजास्वस्तिवाचनमातृपूजनवृद्धिश्राद्धा
चार्यवरणानिकुर्यात् । तत्र वृद्धिश्राद्धं सुवर्णेन ॥ अथाचार्येण
पूजितो वरः-त्रिलोकवासिन्सप्ताश्वच्छायया सहितो रवे ॥ तृतीयो
द्वाहजंदोषं निवारय सुखं कुरु ॥ इत्यर्कसंप्राथ्यार्के आकृष्णेनेति
छायया सहितं रविमावाह्यश्वेतवस्त्रसूत्राभ्यामावेष्टय संपूज्यापो
हिष्टेत्यादिरभिपिच्यगुडौदनतांबूलादिसमर्प्य प्रदक्षिणी कुर्वन्
मम प्रीतिकरायेयं मया सृष्टा पुरातनी । अर्कजा ब्रह्मणा सृष्टा अस्मा
कंप्रीतिरक्षतु इति पठेत् ॥ द्वितीयप्रदक्षिणायांतु-नमस्ते मंगले दे
वि नमः सवितुरात्मजे । त्राहि मां कृपया देवि पत्नी त्वं मे इहागता ॥
अर्कत्वं ब्रह्मणा सृष्टः सर्वप्राणिहिताय च । वृक्षाणामादिभूत
स्त्वं देवानां । प्रीतिवर्धनः । तृतीयो द्वाहजं पापं मृत्युं चाशुविना
शयेति ॥ तत आचार्येण मासपक्षाद्युल्लिख्य काश्यपगोत्रामादि
त्यपुत्रीं सवितुः पौत्रीमर्कस्य प्रपौत्रीमिमामर्ककन्यामित्युक्ते वरः

स्वस्तिनइंद्रोवृद्धश्रवाइतिसूक्तंपठन्नर्कनिरीक्षेत ॥ ततआचा
योविप्रैःसहाशिषोदत्त्वाऽमुकगोत्रायामुकशर्मणेसंप्रददेइत्यर्क
कन्यांदत्त्वा ॥

अर्ककन्यामिमांविप्रयथाशक्तिविभूषिताम् । गोत्रायशर्मणे
तुभ्यंदत्तांविप्रसमाश्रयेतिपठेत् । वरस्तुयज्ञो मेकामःसमृद्धय
तामितिप्रथमांधर्मो मेइतिद्वितीयां यशोमेतृतीयामितित्रीन
क्षतांजलीनकोंपरिक्षिप्वागायत्र्यापरित्वेत्यादिनावापंचावृतासू
त्रेणार्कमावेष्टयतत्सूत्रं पुनः पंचगुणंकृत्वार्कस्यस्कंधेबद्धा
बृहत्सामेतिरक्षांपरिकल्प्यास्यदिग्विदिक्ष्वष्टौकुंभान् संस्थाप्य
वस्त्रेणत्रिसूत्रेणचावेष्टयहरिद्रागंधाद्यंतःक्षिप्वातेषु नाम्नामहा
विष्णुभावाह्यपोडशोपचारैःसंपूज्यस्थंडिलेग्निप्रतिष्ठाप्यआघा
रावाज्येनेत्यंतमुक्त्वात्रप्रधानं बृहस्पतिमग्निंवायुंसूर्यंप्रजाप
तिंचाज्येनशेषेणेत्याद्युक्त्वाघारांते संगोभिराङ्गिरसो बृहस्पति
स्त्रिष्टुप् ॥ अर्कविवाहहोमेविनियोगः ॥ ॐसंगोभिरांगिरसोनक्षमा
णोभगइवेदर्यमणंनिनाय।जनेमित्रोन्नदंपतीअनक्तिबृहस्पतेवा
जयाशूरिवाजौस्वाहा ॥ बृहस्पतयइदंनममेतित्यजेत् । यस्मैत्वा
कामदेवोग्निस्त्रिष्टुप् । विनियोगः प्राग्वत् ।

ॐयस्मैत्वाकामकामायवयंसम्राडचजामहे ॥ तमस्मभ्यं
कामंदत्त्वाथेदंत्वंघृतंपिबस्वाहा ॥ अग्रयइदं० ॥

ततोव्यस्तसमस्तव्याहृतिभिर्हुत्वास्विष्टकृदादिकर्मशेषंस
माप्यार्कंप्रदक्षिणीकृत्य ॥ मयाकृतमिदंकर्मस्थावरेणज
गयुणा । अर्कापत्यानिनोदेहितत्सर्वक्षन्तुमर्हसि ॥ इति

(२५२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

प्राथ्याचार्यायगोगुग्ममन्येभ्यश्च विप्रेभ्योयथाशक्तिदक्षिणां
दत्त्वाशांतिमूक्तंजस्वापूजोपस्करानाचार्यायदत्त्वादिनचतुष्टयं
मग्निंकुंभांश्चरक्षेत् ॥ कुंभेषुमहाविष्णुंपूजयेच्च ॥

पंचमदिनकृत्यं ब्राह्मे-चतुर्थोदिवसेऽतीतेपूर्ववत्तांप्रपूज्य
च ॥ विसृज्यहोममग्निञ्चविधिनामानुर्षींपराम् ॥ उद्धेदन्यथ-
नैवपुत्रपौत्रसमृद्धिमान् ॥ इत्यर्कविवाहःसमाप्तः ॥

श्रीहरिःशरणम् ॥

(अथ विवाहनिर्णयः)।

श्रीतारानाथतर्कवाचस्पतिभट्टाचार्यसंगृहीतवादार्थसारां
शमादायनिश्चयार्थप्रमाणानिदर्शयते ॥

तद्यथा ॥ ईशंनत्वादश्यतेऽत्रवेदादेःशास्त्रमानतः ॥ एकस्य
कामतोऽनेकसवर्णापाणिपीडनम् ॥ धर्मतत्त्वबुभुत्सूनांबो
धनायैवमत्कृतिः । तेनैवकृतकृत्योऽस्मिनजिगीषास्तिलेशं
तः ॥ पाणिग्रहणिकामंत्रानियतंदारलक्षणम् ॥ तेषांनिष्ठातु
विज्ञेयाविद्भिःसप्तमेपदे ॥ मनुः-पाणिग्रहणसंस्कारःसवर्णा
सूपदिश्यते । मनुःविवाहमात्रंसंस्कारंशूद्रोपिलभतेसदेति ॥
छंदोगपरिशिष्टे । स्वपितृभ्यः पितादद्यात्सुतसंस्कारकर्म
णि ॥ पिण्डानोद्धहनात्तेषांतदभावेपितृक्रमादिति ॥ विवाह
स्यसंस्कारत्वेसतितत्रविशेषोवक्ष्यते । बलादपहृताकन्यामं
त्रैर्यदिनसंस्कृता ॥ अन्यस्मैविधिवद्देयायथाकन्यातयैवसे

ति पराशरभाष्यादिधृतकात्यायनवचनेनराक्षासादावपहर
णमात्रेकन्यैव ॥

यथावा—अद्भिर्वाचाप्रदत्तायांम्रियेतोद्ध्वरोयदि ॥ नचमं
त्रोपनीतास्यात्कुमारीपितुरेवसेति ॥

किंवा—उद्गाहतत्त्वधृतवशिष्टवचनेनवाङ्मात्रदानेउदकपूर्व-
दानेवामंत्रसंस्काराभावेअन्यस्मैदेयेतिगम्यते ॥

मंत्रसंस्कृतातुसा-शरीराद्धस्मृताजायापुण्यापुण्यफले स-
मेति ॥ अस्थिभिरस्थीनिमा २सैर्मा २ सानित्वचात्वचमि
त्यादिभिःशरीराद्धहराअर्द्धफलभागभवतीत्याशयः ॥

पतिलक्षणंनिर्णयसिन्धौ—यथा-नोदकेननवाचाचकन्या-
याः पतिरुच्यते । पाणिग्रहणसंस्कारात्पतित्वंसप्तमेपदेइति ॥
तथाचहारीतः—पाणिग्रहणेनजायात्वंकृत्स्नं हि जायापतित्वं
सप्तमेपदेइति ॥

अथकाभार्याकार्या—अत्रपैठानसिः—भार्याःकार्याःसजा
तीयाःसर्वेषांश्रेयस्यःस्युरिति ॥

केनविवाहेन—गंधर्वादिविवाहेषु शुभौवैवाहिकोविधिः। कर्त
व्यश्चत्रिभिर्वर्णैःसमर्थैश्चाग्निसाक्षिकः॥अत्रत्रिभिर्गितिविशेषणा
द्विप्रस्यात्रनाधिकार इतिविशेषः ॥

कोविधिस्तेष्वित्यपेक्षायाम् ॥ गांधर्वासुरपैशाचाविवाहा-
राक्षसाश्चये । पूर्वपरिश्रयस्तत्रपश्चाद्धोमोविधीयते ॥

सवर्णासु—पाणिग्रहणसंस्कारःसवर्णासूपदिश्यतइतिविप्रे-

(२५४) विवाहपद्धन्ति भा० टी०

णक्षत्रियादिपरिणयने-शरःक्षत्रिययाग्राह्यःप्रतोदोवैश्यकन्य-
याइति मनुः ॥ तथाहयाज्ञवल्क्यः-पाणिग्राह्यःसवर्णासुगृही-
यात्क्षत्रियाशरम् । वैश्याप्रतोदमादद्याद्वेदनेत्वग्रजन्मनः ॥
वस्तुतस्तुस्वदारनिरतः सदेतिमानववचनस्यपरदारान्नगच्छे-
दितिपरिसंख्यापरतायाःसर्वैःस्वीकारेणपरदारगमननिषेधाः ।
तद्रयुदासेनअनिषिद्धस्त्रीगमनं शास्त्रविहितस्त्रीसंस्कारंविना-
नुपपन्नमिति संस्कारआक्षिप्यते ॥ सवर्णयांसंस्कृतायांस्वय-
मुत्पादयेत्तुयम् । औरसंतंविजानीयादिति ॥ औरसोधर्मप-
त्नीजः । इति याज्ञवल्क्यस्मृतिः ॥

स्त्रीपरिणयनफलम्-अपत्यंधर्मकार्य्याणिशुश्रूपागतिरु-
त्तमा । दाराधीनस्तथास्वर्गःपितृणामात्मनश्चह ॥ मनुः ॥
लौकानंत्यंदिवःप्राप्तिःपुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः । यस्मात्तस्मात्त्रियः
सेव्याःकर्तव्याश्चसुरक्षिताः ॥ याज्ञ०स्मृ०पुत्राम्नोनरकाद्यस्मा
त्पितरंत्रायतेसुतः ॥ तस्मात्पुत्रइतिप्रोक्तइत्यादिपुत्रःपुरुत्राय-
तेनिपरणाद्वापुंनरकंततस्त्रायतइतिनिरुक्तम् ॥ पुत्रेणलोकत्र
यतिपौत्रेणानंत्यमश्नुते इत्यादि ॥

कीदृशीस्त्रीस्यादित्याकांशायाम्-मनुः ॥ असपिण्डाच-
यामातुरसगोत्राचयापितुः । साप्रशस्ताद्विजातीनांदारकर्म्मणि
मैथुनेइति ॥

तयाहिसहितःसर्वान्पुरुषार्थान्समश्नुते॥अनाथमीनतिष्ठे
त्तुदिनमेकमपिद्विजः ॥ आथ्रमेणविनातिष्ठन्प्रायश्चित्तीयते-
हिसः ॥ दक्षः ॥ नगृहंगृहमित्याहुर्गृहिणगृहमुच्यते ॥ तथा

हिसहितःसर्वान्पुरुषार्थान्समश्नुते ॥ द्वितीयमायुषोभागंकृ-
तदारोगृहंवसेदितिमनुः॥ अथनापुत्रस्यलोकोऽस्तीति ॥नैमि-
त्तिकानिकाम्यानिनिपतन्तियथातथा ॥तथातथैवकार्य्याणि-
नकालस्तुविधीयते॥अथप्रथमभार्यायांसत्यामन्याधिवेत्तव्या-
नवेतिआकांक्षायां मनुः ॥ वन्ध्याष्टमेधिवेत्तव्यादशमेस्त्रीमृत-
प्रजा ॥ एकादशेस्त्रीजननीइत्यादि ॥स्त्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्यापुरु-
षद्वेषिणीतथा॥इतियाज्ञवल्क्यः॥अधिविन्नातुभर्तव्यामहदेनोऽ-
न्यथाभवेदित्युक्तेर्वध्यादीनामपिभूषणवस्त्रादिभिर्भरणंनतुत्या-
गः पापभयात् अधिविन्नातुयानारीनिर्गच्छेद्रोपितागृहात्॥सा-
सद्यस्तुनिरोधव्यात्याज्यावाकुलसन्निधौ ॥ एकामृद्वातुकामा-
र्थमन्यांवोढुंयइच्छति ॥ समर्थस्तोपयित्त्वार्थैःपूर्वोढामपरांव-
हेत्॥अप्रजांदशमेवर्षेस्त्रीप्रजांद्वादशेत्यजेत् ॥ मृतप्रजांपंचदशे-
सद्यस्त्वप्रियवादिनीम् ॥

अन्यच्च—अथयदिगृहस्थोद्वेभार्य्येविन्देतकथंकुर्यादिति
ब्रौधायनमाशंकययस्मिन्कालेविन्देतोभावग्री परिचरोदित्युप-
क्रम्यद्वयोर्भार्य्ययोरन्वारब्धयोर्यजमानइति ॥

तथाचकात्यायनः— नैकयापिविनाकार्य्यमाधानंभार्य्य-
या द्विजैः ॥ अकृतंतद्विजानीयात्सर्वाभिर्नारभेद्यदि ॥ एकै-
कामेवासांसंनह्यादेकैकांगार्हपत्यमीक्षयेत् । एकैकामाज्यम-
वेक्षयेदिति ॥ <यदेकस्मिन्यूपेद्वेरशनेपरिव्ययति तस्मादेको
द्वेभार्य्येविन्दतेइति श्रुतिः॥ श्रुतिस्मृतिपुराणानांविरोधोयत्र

(२५६) विवाहपद्धति भा० टी० ।

विद्यते ॥ तत्रश्रौतंप्रमाणंस्यात्तयोर्द्वैधेस्मृतिर्वरा ॥ व्यासः—
विरोधेत्वनपेक्षंस्यादसतिह्यनुमानमितिजैमिनिसूत्रम् ॥

तथाचमहाभारते—एकस्यबह्व्योविहिता महिष्यःकुरुनन्द—
न । नैकस्याबहवःपुंसःश्रूयन्तेपतयःक्वचित् ॥ भार्याःकार्या
सजातीयाः सर्वेषांश्रेयस्यःस्थुरित्यत्रापिबहुवचनम् ॥

तथाचकात्यायनः—अग्निहोत्रादिशुश्रूषां बहुभार्य्यःसवर्ण-
याकारयेत्तद्बहुत्वेचज्येष्ठयागर्हितानचेत् ॥ सवर्णासुविधौधर्मे
ज्येष्ठ्यानविनेतरेतियाज्ञवल्क्यः ॥

तथाचमहाभारते—ददौसदशधर्मायकश्यपायत्रयोदश । ए
कैवभार्यास्वीकार्याधर्मकर्मोपयोगिनी । प्रार्थनेचातिरागेच
ग्राह्यानेकापिचद्विज ॥ आद्यायांविद्यमानायांद्वितीयामुद्बहेद्यदि ।
तदावैवाहिकंकर्मकुर्यादावसथेऽग्निमान् ॥ नि० सि० सदागेऽन्या
न्पुनर्दारानुद्बोद्धुंकारणांतरात् । यदीच्छेदग्निमान्कश्चित्क्रहोमो
स्यविधीयते ॥ स्वैग्रावेवभवेद्धोमोलौकिकेनकदाचन ॥
कात्यायनः ॥

मात्स्येयथा—उद्बहेद्रतिसिद्धयर्थतृतीयांनकदाचन ॥ मोहाद्
ज्ञानतोवापियदिगच्छेत्तुमानुपीम् । नश्यत्येवनसंदेहोर्गस्यव-
चनंयथेति ॥ तृतीयस्त्रीविवाहेतुसंप्राप्तेपुरुषस्यतु । आर्कविवाहं
क्ष्यामिशौनकोऽहंविधानतः ॥ इत्युपक्रम्य । विसृज्यहोम्यमग्निं
चविधिनामानुपींपराम् । उद्बहेदन्यथानैवपुत्रपौत्रादिवृद्धिमान् ॥
विसृज्याग्निंकङ्कणञ्चमानुपीमुद्बहेत्पराम् । अनेनविधिना
यस्तुकुर्यादर्कविवाहकम् ॥ पुत्रपौत्रादिसंपत्तिश्चतुर्थादि

विवाहार्थं तृतीयेऽर्कसमुद्रहेत् । ऋणत्रयमपाकृत्य मनोमोक्षे
निवेशयेत् ॥ जायमानो वै त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान् भवति ब्रह्मच-
र्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥ एतदुक्तं भव-
ति । दर्शित बहुप्रमाणैरेकपुरुषस्य बहुभाय्यां करणं सिद्धम् ॥ एत-
द्विषये किं स्ववर्णात्त ब्राह्मणादिभिरसवर्णाः कार्य्या अत्र कोमु-
ख्यः कल्पः कश्च गौणः ॥

अत्रोच्यते । यथाह मनुः सवर्णाग्नेद्विजातीनां प्रशस्तादार-
कर्मणि । कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ शूद्रैव
भाय्यां शूद्रस्य साचस्वाचविशः स्मृता । साचस्वौचवराज्ञश्चता
श्चस्वाचाग्रजन्मनः ॥

तथाह याज्ञवल्क्यः—तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण द्वैतथैकायथाक्रमम् ॥
ब्रह्मक्षत्रविशां भाय्याः स्वाचैव शूद्रजन्मनः ॥ भार्याः कार्य्याः
स्वजातीयाः सर्वेषां श्रेयस्यः स्युरिति मुख्यः कल्पस्तदनुचत-
स्रो ब्राह्मणस्य तिस्रो राजन्यस्य द्वैवैश्वस्येति ॥ सवर्णायां सव-
र्णासु जायन्ते हि सजातयः । अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानव-
र्द्धना इति याज्ञवल्क्यपैठीनसि मन्वादि वचनैः स्वसजातीयविवा-
हेषु विशेषफलप्रतिपादनान्मुख्योऽयं कल्पः सर्वैरभिवंद्यः ॥
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः । यदिकामाद्रा-
गाल्लोभात्क्रमशः प्रवर्तते तदोत्तमं पक्षमाश्रयेदिति निष्कर्षः ॥

अथ विवाहभेदानि रूढ्यन्ते याज्ञ० स्मृ०—ब्राह्मो विवाह
आहूय दीयते शक्त्यलंकृता । तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविं-
शतिम् ॥ यज्ञस्थ ऋत्विजे चैव आदायार्पस्तु गोद्वयम् ॥ चतुर्दशप्र-

(२५८) विवाहपद्धति भा० टी० ।

थमजःपुनात्युत्तरजश्चषट् ॥ इत्युक्त्वाचरतांधर्मसहयादीय
तेऽर्थिने । सकायःपावयेत्तच्चषड्षडुंश्यान्सहात्मना ॥ असुरोद्
विणादानाद्गांधर्वः समयान्मिथः ॥ राक्षसोयुद्धहरणात्पैशाचः
कन्यकाच्छलात् ॥ पाणिर्ग्राह्यःसवर्णासुगृह्णीयात्क्षत्रियाशरम् ॥
वैश्याप्रतोदमादद्याद्वेदनेत्वग्रजन्मनः ॥

अधिकारिणःकन्यादानस्य ॥ पितापितामहोभ्रातासकुल्यो
जननीतथा । कन्याप्रदःपूर्वनाशेप्रकृतिस्थःपरःपरः ॥

अथकतिविधाःपुत्राः--औरसोधर्मपत्नीजस्तत्समःपुत्रिका
सुतः ॥ क्षेत्रजःक्षेत्रजातस्तुसगोत्रेणेतरेणवा ॥ गृहेप्रच्छन्न
उत्पन्नोगूढजस्तुसुतःस्मृतः । दद्यान्मातापितावायं सपुत्रोदत्त
कोभवेत् ॥ क्रीतश्चताभ्यां विक्रीतःकृत्रिमःस्यात्स्वयंकृतः ।
दत्तात्मातुस्वयंदत्तोर्गर्भेविन्नःसहोढजः । उत्क्षिप्तोगृह्यतेय
स्तुसोऽपविद्धोभवेत्सुतः । इत्याद्युपक्रम्यांते--पिण्डदोशहर
श्रैषांपूर्वाभावेपरःपरः ॥ इत्यादिप्रमाणैः पुरुषस्यबहुस्त्रीत्वं
सिद्धयति ॥ अत्राशंक्यतेयथाबहवःपुरुषस्यस्त्रियएवांस्त्रियो
पिबहवःपुरुषाःस्युः ॥ अत्रकिंमानं--येनपुरुषेणबहवःस्त्रियः
कार्याः नतुस्त्रियाबहुपुरुषाइतिशङ्क्यमानंप्रत्याह ॥
श्रूयतांभोः ॥

तथाचश्रुतिः--यदेकस्मिन्पेद्रेरशनेपरिव्ययति । तस्मा
देकोद्वेभाय्येर्विन्दते ॥ इति ॥ तथा तस्मादेकोवह्नीर्विन्दते
इतिश्रुतिः ॥ तथातस्मादेकस्यबह्व्योजायाभवन्तिनैकस्याबह
वःसहपतयइति श्रुतिः ॥

तथाच—याज्ञवल्क्यः ॥ सकृत्प्रदीयतेकन्याहरं
स्तांचोरदण्डभाक् ॥ मृतेजीवतिवापत्यौयानान्यमुपगच्छ
ति ॥ सेहकीर्तिमवाप्नोतिमोदतेचोमयासह ॥ इत्यादिस्मृ
तिनिष्पन्नत्वात्पुरुषस्यैवबहवः स्त्रियोनतुस्त्रीणांबहुपुरुषाः ॥
अन्यथाव्यभिचारप्रसङ्गःस्यात् ॥

यथाहमनुः—आर्षधर्मोपदेशंचवेदशास्त्राविरोधिना ॥ य
स्तर्केणानुसंधत्तेसधर्मं वेदनेतरः । नतुस्वकपोलकल्पितयु
क्तयः ॥ इतिश्रुतिस्मृतिपुराणनिष्पन्नोविवाहस्यसक्षेपतोनि-
र्णयः कृतः । विस्तरस्तुतत्तद्व्येभ्योज्ञेयइति शम् ॥

इतिश्रीकर्पूरस्थलनिवासिगौतमगोत्र (शोरि) जात्या
लंकृतदैवज्ञदुनिचन्द्रात्मज० पं० विष्णुदत्तवैदिककृतविवा
हनिर्णयः समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥

विधवाविवाहखण्डनम् ।

विदित होकि, इस समयके आधुनिक पंडितमन्य स्वामीदयानं-
दानुयायि महामायि आई बतार्ई एस्स आई पढनेसे
शास्त्र वेदकी पण्डितार्ई करनेवाले अनपढ यही ऊँचे चिल्लाते
हैं कि, देखो भाई इन विधवास्त्रियोंका फिर विवाह करना बहुत
अच्छा वेदप्रतिपादित है ॥ इसमें प्रथम यही कहना चाहिये
कि यदि ठीक है तो आप अपने घरमें ही क्यों नहीं करते अगर
वेदमें लिखा है तो प्रमाण दो आर्य० । उत्तर देता है ओमाय डीयर
(अन्यमिच्छस्वसुभगे पतिं मत्) अर्थ-हे मेरी स्त्री मेरे बिना और
पतिकी इच्छाकर ॥ सो यदि वेदको मानते हो तो ठीक है ॥ उत्तर

(२६०) विवाहपद्धति भा० टी० ।

वाह जी वाह मन्त्रकी एक टांग लोकोंको बहकाने वास्ते पकड़ छोड़ी है प्रथम यह संपूर्ण मंत्र तो कह अर्थ करो तो तुम आपही जान लोगे आ० । (यूबडवी) यह मंत्र क्या और भी है ॥ नहीं भाई तुम्हारे लिये इतनाही मन्त्र है ॥ बस आपके स्वामीका पोल गोलम गोल मालूम हो गया कि, सपैद रीछोंको नकेल मन्त्रकी पाकर नचाते हैं ॥ अगर तुमको यथार्थ वेद आताहो तो कभी नये रास्ते ना निकालते यद्यपि (उपदेशोहि मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये) परन्तु भूलेको रास्ते पाना लिखा है सो आप सावधान हो मन्त्र और अर्थ सुनें ॥ हमारे प्यारे मित्र केवल आप लोकोंको अनजान होनेसे अपने पन्थ (सहेकी तीन टांग-वत्) चलानेके लिये स्वामीजीका जाल है अन्यथा आजतक पीछे लोग पढेही नहींथे वा स्वामीजीने पंचम अन्यही वेद पढा सो देखिये ॥

यह मंत्र ऋग्वेद मं० १० सू० १० । मं० १० है ॥
आघाता गच्छन्नुत्तराणि युगानियत्र जामयःकरिष्य
न्त्यजामि । उपवर्बृहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व
सुभगे पतिमत् ॥ मंत्र १० इसका निरुक्त पूर्वषट्क
अध्याय ४ अनु० २० ॥ आगमिष्यंति तान्युत्तरा
णि युगानियत्र जामयः करिष्यंत्यजामी कर्मा-
णि जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य वा समानजाती
यस्य वोपजन उपधेहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छ
स्वसुभगे पतिं मदिति व्याख्यातम् ॥

भाषार्थ—वह घोर कलियुग आवेगा जिसमें भ्राता भगिनियों-के साथ पापकर्म भोग करेंगे सो हे यमी भगनि मुझसे अतिरिक्त अन्य जातिका बलिष्ठ पुरुषसे विवाहपूर्वक भोगकी इच्छा कर ॥ भावार्थ वेद मन्त्रका यह है कि, यमयमीका संवाद है उसमें यम भ्राता अपनेसे यमी भगिनी भोग करनेकी इच्छा रखती थी तब यमने यह वाक्य कहा कि, मैं तुम्हारा भाई हूं सो बडा पाप है तुम अन्य जातिके वरकी इच्छा कर सो यह मन्त्र तो भ्राताने भगिनी प्रति कहा है । नहीं पति स्त्रीको कहता है कि, तुम मेरे विना और पति करलो क्या वह नपुंसक वा वृद्ध हो आज्ञा करता छः ॥

आर्य० क्योंजी हमारेको स्वामीजीने और आज्ञा दीहै कि, स्त्री ग्यारह ११ पति कर ले ॥ वह मन्त्र यह है ॥ ऋग्वेद मंडल १० सूत्र ८५ ॥ मन्त्र ॥

इमांत्वमिन्द्रमीद्वःसपुत्रांसुभगांकृणु ।

दशास्यांपुत्रानाधेहिपतिमेकादशंकृधि ॥

सो इसका अर्थ क्या है ॥ वाह जी वाह अरे भोले आर्य भ्राता तुम कुछ व्याकरण पढो तुमको अर्थके नमालूम होनेसे वह अन्धकार है ॥ अर्थ श्रवण करो ॥

अन्वयः ॥ हे इन्द्र इमांत्वमिद्वःसपुत्रां सुभगां कृणु । अ

स्यां दशपुत्रान् आधेहि पुत्रैःसहितम् एकादशं पतिं कृधि ।

भावार्थ—हे इन्द्र इसको तुम स्तुतियुक्त पुत्रयुक्त पतियुक्त करो और इससे दशपुत्र उत्पन्नहो दशपुत्रोंके साथ ग्यारहवाँ पतिभी

(२६२) विवाहपद्धति भा० टी० ।

वृद्धिको प्राप्त हो अर्थात् इसके पुत्र १० और पतिजीवे तो यह पुत्रान् बहुवचन और पति एक वचन है ॥ सो विशेष सायणभाष्यसे मालूम करो ॥ और “नष्टे मृते प्रव्रजिते” इस स्मृतिका अर्थ द्वियोंके आचारमें लिखा है वहांसे देख लो ॥ और विवाहप्रकरणमें भी विशेष लिखा है । विस्तारके भयसे नहीं लिखा ॥ इति श्रीदैवज्ञदुनिचन्द्रात्मज पं० विष्णुदत्तवैदिकरुतसंक्षेपविधवाविवाहखण्डनम् ॥

अथ वधूपवेशप्रयोगः ।

तत्र चतुर्थीकर्मनिन्तरं पुत्रोत्साहविधानादिलौकिकाचारं यथासंप्रदायं कृत्यावरः पित्रादत्तांवधुंगृहीत्वामहोत्सवयुतः रथेवध्वाः दक्षिणत उपविश्य मंगलवाद्यघोषपुरःसरं मंगलगीतपरैः पुरंधीजनैराचार्यादिविप्रैः आनोभद्राः स्वस्तिन इन्द्रोवृद्धश्रवा इतिस्वमित्वाचनपुरःसरैश्चस्वगृहंगच्छेत् । ततोवधूपिता दासीं हस्ते दीपंदत्त्वा सहैव नयेत् ॥ पर्यंकादि यथाशक्ति यथारुचि पारिबर्हच दद्यात् ॥ स्वगृहमागतेसपत्नीकेवरे वरमाता ओदनबलिंगृहीत्वादृष्ट्युत्तारणं कुर्यात् । गृहद्वारसमीपेप्रथमतंडुलपूर्णां कंचुकीं वधूहस्ते दद्यात् ॥ सा तांगृहीत्वातत्रसततं तण्डुलानवकिरंतीदीपद्वययुक्ताद्वारमंततोऽनेकदीपैर्विराजितगृहं वधूः पादौसुवर्णोपरिनिधाय वरेण सह प्रथमं दक्षिणपादपुरःसरंमंत्रवाद्यघोषैर्गृहंप्रविशेत् ॥ ततः शृंगारिते महानसे वस्त्राच्छादिते पीठे वरः प्राङ्मुख उपविश्य दक्षिणतः वधूमुपवेश्य इत्यखिलंलोकाचारमात्रम् ॥ ततोवरः आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ स्मृत्वा अस्याः मम नवोढाया भार्यायाः

प्रथमागमने गृहप्रवेशांगतया विहितं मम सकलमनोरथसिद्धयर्थं
लक्ष्मीप्राप्त्यर्थं ज्येष्ठाख्यलक्ष्मीपूजनमहं करिष्ये ॥ महानसपूजनं
गणपतिपूजनं स्वस्तिपुण्याहवाचनंच करिष्ये ॥ इतिसंकल्प्य ॥
ततो ज्येष्ठाख्यलक्ष्मीपूजनं महानसपूजनं गणपतिपूजनं स्वस्तिपुण्या
हवाचनंच विधिवत्कृत्वा ततः यथाचारप्राप्तं कांस्यपात्रे तण्डुलान्प्र
सार्य तदुपरि सुवर्णशलाकया श्रीकुलदेवताप्रयुक्तमादौ अमुकीति
नाम विलिख्य ॥(अँमनोजृतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमंत
नोत्वारिष्टं यज्ञ ५ समिमंदधातु । विश्वेदेवाम इहमादयंतामोंप्रतिष्ठ ॥)
इति मंत्रेण प्रतिष्ठाप्य ॥ अँश्रीश्वंत लक्ष्मीश्वपत्न्यावहोरात्रे
पार्श्वेनक्षत्राणि रूपमश्विनौव्यात्तम् ॥ इष्णान्निषाणामुम्मऽइषाण
सर्वलोकंमऽइषाण ॥ इत्यनेन मंत्रेण षोडशोपचारैः संपूज्य ॥ अ
न्यद्यथाकुलाचारं कुर्यात् ॥ ततो वरा नामवाचनपुरःसरं वध्वा
नाम प्रतिष्ठितं कुर्यात् ॥ श्रीकुलदेवताप्रयुक्तमादौ अमुकनाम प्रति
ष्ठितमिति त्रिर्वाचयित्वा ब्राह्मणाः मनाजृतिरिति मंत्रंपठित्वा वधू
शिरसि मंत्राक्षतान्दद्युः । ब्राह्मणेभ्योगंधतांबूलदक्षिणादिदत्त्वा
तैराशिषोगृह्णीयात् इति वधूप्रवेशः ॥ श्रीहरिर्विजयते ॥

वंशवर्णनम् ।

न्यायशास्त्रस्यकर्तायोह्यक्षपाद्गौतमोमुनिः ॥

महाप्रभावोराजर्षिर्मुनिमान्यअभूदिह ॥ १ ॥

तस्यरत्नविशुद्धेस्मिन्वंशेस्यादानुपूर्व्यतः ॥

महाप्रभावोविद्वांश्वकनैयालालविश्रुतः ॥ २ ॥

(२६४) विवाहपद्धति भा० टी० ।

तत्पुत्रोयंविशुद्धात्मातुलसीरामनामतः ॥
अभूव्यापारविद्यायांकुशलोधर्मपारगः ॥ ३ ॥
त्रिवर्गसाधयित्वायोगंगांसमनुगम्यच ॥
ध्यानयोगेनसंपश्यन्नीश्वरंव्यसृजत्तनूम् ॥ ४ ॥
तत्प्रभावाच्चतत्सूनुःसर्वशास्त्रविचक्षणः ॥
अनन्यकल्पोदैवेज्ञोदुनिचंद्रइतिश्रुतः ॥ ५ ॥
तस्यात्मजेनविदुषाविष्णुदत्तेनशौरिणा ॥
वैदिकोपाह्वयुक्तेनकृतोयंग्रंथउत्तमः ॥ ६ ॥
नत्वाश्रीरामनाथंचशास्त्रिणंस्वगुरुंतथा ॥
श्रीमद्गोपालनामानमयोध्यावासिनंगुरुम् ॥ ७ ॥
हरिभक्तंमहात्मानंशास्त्रिणंप्रणमाम्यहम् ॥
यमुनादत्तविद्वांसंभायलाग्रामवासिनम् ॥ ८ ॥
मित्रंचसाधुरामञ्चविष्णुदासंतथैवच ॥
अन्यान्स्वाध्यायवर्गियान्नमस्कृत्यपुनःपुनः ॥ ९ ॥
श्रीकर्पूरस्थलेरम्येअद्रिवेदांकभूमिते ॥
वैक्रमेमधुमासेचकृताटीकामनोरमा ॥ १० ॥
यदशुद्धमसंबद्धमज्ञानेनकृतंमया ॥
विद्वद्भिःक्षम्यतांसर्वमत्वामामल्पमेधसम् ॥ ११ ॥

विशेषेणायंपुष्पाञ्जलिः ॥ श्रीः ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास,—“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्प्रेस—मुंबई.

